

प्रकाशक:-

मन्त्री,

श्री अखिल जैन ज्ञानालय, धुलिया.

(महाराष्ट्र)

तृतीयावृत्ति
२०००

अर्द्ध मूल्य २.५०

{ वी. सं. २४९७
{ वि. सं. २०२७

मुद्रक:-

विश्वास मुद्रण

न्यु. इतवारी रोड,

नागपुर-२.

प्रकाशक का निवेदन

सम्माननीय प्रेमी पाठक वृन्द !

आज आपके पवित्र करकमलों में स्वर्गीय, बाल ब्रह्मचारी, साहित्य-महारथी पूज्य मुनिराज श्री १००८ श्री अमोलक ऋषिजी महाराज साहब कृत "प्रद्युम्नकुमार" के पद्य-ग्रंथ के हिन्दी गद्य में रूपान्तर की तृतीय आवृत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य श्रीजी की साहित्य-साधना, साहित्य-लगन और साहित्य-रचना स्थानकवासी समाज में अपना विशेष तथा गौरवपूर्ण स्थान रखती है। पूज्य श्री जी ने अपने तपमय जीवन को एकान्त रूप से साहित्य निर्माण में लगा दिया था। युगानुसार साहित्य की रूप रेखा परिवर्तित होती रहती है, तदनुसार वह युग छन्दो-बद्ध ढालरास-चरित्र और चौपाई का था। आज गद्य-प्रधान साहित्य की विशेष मान्यता है। यही कारण है कि महान् सन्त, कवि, तप-तेज-त्याग की मूर्ति स्वरूप पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज साहब के सुयोग्य शिष्य पं. मुनि श्री १००८ श्री कल्याण ऋषिजी महाराज साहब अपने परम पूज्य गुरुदेव के पद्य-बद्ध ग्रन्थों का क्रमशः गद्य-रूपान्तर प्रस्तुत करने का स्तुत्य और सुन्दर प्रयास कर रहे हैं। आज उसी प्रशंसनीय प्रयास के फल स्वरूप "प्रद्युम्नकुमार चरित" के पद्य रूप के गद्य-रूपान्तर की तृतीय आवृत्ति प्रेमी पाठकों के हाथ में है।

इस चरित की प्रथमावृत्ति संवत् २०१० मे तथा द्वितीय आवृत्ती सं. २०२० श्री अमोल जैन ज्ञानालय, घुलिया की ओर से प्रकाशित की गई थी। इसको पूज्य मुनिमण्डल, महासतियांजी म. एवं श्रावक-श्राविका वर्ग ने अति आत्मीयता से अपना कर ज्ञान प्रचार के कार्य मे सहयोग दिया, इसके फल स्वरूप इस चरित की तृतीयावृत्ति निकालने का साहस संस्था के कार्यकर्ताओं ने किया है।

ज्ञानालय की ओर से स्वर्गीय पूज्य श्रीजी के अन्य पद्य मय चरितों का गद्य रूपान्तर जैसे धर्मवीर जिनदास, धन्ना-शालिभद्र, अभयकुमार आदि भी प्रकाशित किये जा चुके है जिन्हे समाज ने खूब अपनाया है। अतएव सब के शुभाशीर्वाद से हम शीघ्र ही इन चरितों का तृतीय संस्करण भी प्रकाशित कर रहे है।

ज्ञान प्रचार एवं धर्मप्रचार के ध्येय कों सामने रखकर ज्ञानालय अर्ध मूल्य मे सुरुचि पूर्ण साहित्य समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का सदैव प्रयत्नशील रहा है। प्रस्तुत प्रकाशन का भी अर्ध मूल्य ही रखा गया है।

पाठकोंके लिये इस अत्यन्त उपयुक्त योजना के लिये मुनिराज श्री कल्याण ऋषिजी महाराज साहब और आपके सहयोगी स्व. मुनिराज श्री मुलतान ऋषिजी महाराज साहब निश्चय ही श्रेय एवं प्रशंसा के पात्र है। इस दृष्टि से संस्था की ओर से हम आपके चिर-ऋणी है और अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते है।


(५)

प्रस्तुत पुस्तक में पुण्य का महत्व समझाया गया है और पुण्य की महानता प्रमाणित की गई है।

आशा है कि विवेकशील पाठक पुण्य के मर्म को समझने में इस ग्रन्थ का उपयोग करेंगे। इति शुभम्

धुलिया
(महाराष्ट्र)
भादवा वदी १४
२०२७

विनीत-
कन्हैयालाल मिश्रीलाल छाजेड़
मन्त्री
श्री अमोल जैन ज्ञानालय



श्री अमोल जैन ज्ञानालय धुलिया (महाराष्ट्र)

इस प्रकाशन संस्था को आर्थिक सहायता देने
वाले सज्जनों की शुभ नामावली

— हमारे सदस्य —

जन्म दाता:-

- १ श्रीमान् राजावहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रसादजी,
हैदराबाद
- २ " प्रेमराजजी चन्दुलालजी छाजेड़ "
- ३ " मोतीलालजी गोविन्दरामजी श्रीश्रीमाल धुलिया
- ४ " हीरालालजी लालचन्दजी घोका यादगिरी
- ५ " केवलचन्दजी पन्नालालजी बोरा बंगलोर
- ६ " सरदारमलजी नवलचन्दजी पुंगलिया नागपुर
- ७ " केसरचन्दजी कचरदासजी बोरा, आश्वी (नगर)
(आश्वासन)
- ८ " मानमलजी मंगलचन्दजी रांका, पारशिवनी
(नागपुर आश्वासन)
- ९ " शुभकरणजी नथमलजी खिवसरा धामक

श्री अमोल जैन ज्ञानालय धुलिया (महाराष्ट्र)

इस प्रकाशन संस्था को आर्थिक सहायता देने
वाले सज्जनों की शुभ नामावली

— हमारे सदस्य —

जन्म दाता:-

- १ श्रीमान् राजावहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रसादजी,
हैदराबाद
- २ " प्रेमराजजी चन्द्रुलालजी छाजेड़ "
- ३ " मोतीलालजी गोविन्दरामजी श्रीश्रीमाल धुलिया
- ४ " हीरालालजी लालचन्दजी धोका यादगिरी
- ५ " केवलचन्दजी पन्नालालजी वीरा बंगलोर
- ६ " सरदारमलजी नवलचन्दजी पुंगलिया नागपुर
- ७ " केसरचन्दजी कचरदासजी बोरा, आश्वी (नगर)
(आश्वासन)
- ८ " मानमलजी मंगलचन्दजी रांका, पारशिवनी
(नागपुर आश्वासन)
- ९ " शुभकरणजी नथमलजी खिवसरा धामक

स्तम्भ संरक्षकः—

१	श्रीमान् जैन श्रावक संघ	वार्षी
२	दलीचन्दजी चुन्नीलालजी बोरा	रायचूर
३	शम्भूमलजी गंगारामजी मूथा	बैंगलौर
४	अगरचन्दजी मान्मलजी चौरडिया	मद्रास
५	कुन्दनमलजी लूंकड़ की सुपुत्री श्री सायरवाई	बैंगलौर
६	नानचन्दजी भगवानदासजी दूगड़	घोड़नदी
७	वस्तीमलजी हस्तीमलजी मूथा	रायचूर
८	तेजराजजी उदयरजजी रूनवाल	"
९	मुकनचन्दजी कुशलराजजी भण्डारी	"
१०	नेमीचन्दजी शिवराजजी गोलेच्छा	बेलूर
११	पुत्रराजजी सम्पतराजजी धोका	यादगिरी
१२	इन्दरचन्दजी गेलड़ा	मद्रास
१३	विरदीचन्दजी लालचन्दजी मग्लेचा	"
१४	जसराजजी बोहरा की धर्मपत्नी श्री केजरवाई सोरापुर	
१५	चम्पालालजी लोहा की धर्मपत्नी श्री धीसीवाई	मिकन्दरावाद
१६	सज्जनराजजी मूथा की धर्मपत्नी श्री उमराववाई	आलंदूर (मद्रास)
१७	चम्पालालजी पगारिया	मद्रास
१८	श्री अमोल जैन स्था० सहयक समिती	पूना
१९	श्रीमान् गिरधारीलालजी दालमुकनजी लूंकड़	बोरद
२०	श्री स्थानकवासी जैन श्री संघ	घोटी
२१	श्रीमती भूरीवाई भ्र० छोगमलजी सुराणा	वाणियमवाड़ी
२२	मेहताववाई भ्र० अमोलकचन्दजी सिसोदिया	"

- २३ श्रीमान् कनीरामजी गांग की धर्मपत्नी सौ. रामकुंवरवाई
पिपलगांव (बसवन्त) नासिक
- २४ " मन्नालालजी सुराणा की धर्मपत्नी सौ. मदनवाई
सिकंदराबाद
- २५ " खिवराजजी जीवराजजी चोपड़ा होलनाथा (धुलिया)
- २६ " बन्डूलालजी तुलसीरामजी कटारिया वलवाड़ा नासिक
- २७ " हीरालालजी हमीरमलजी वोथरा की धर्मपत्नी
सौ. श्रीमती मीरावाई अण्डरसनपेठ
- २८ श्रीमती कचरीवाई भ्र० दलीचन्दजी वेदमूथा सुराणा नासिक
- २९ श्रीमान् जवरीलालजी माणिकचन्दजी ललवाणी खेरी
- ३० " मथुरादासजी बन्शीलालजी वरडिया राजूर
- ३१ " जयवन्तराजजी सुराणा की धर्मपत्नी श्री दाकूवाई
द्वारा तेजराजजी सुराणा सावकर पेठ मद्रास
- ३२ श्रीमती घनीवाई कन्हैयालालजी बोरा वरोरा (जिला चांदा)
- ३३ " धापुवाई दुलराजजी गोठी " "
- ३४ " फुलीवाई हीरचन्दजी चण्डालिया " "
- ३५ श्रीमान् मांगीलालजी अगरचन्दजी बोरा " "
- ३६ " शाह नागसी हीरजी धर्मार्थ ट्रस्ट
द्वारा नानजी नागसी शाह नागपुर

आजीवन सदस्यः—

- १ श्रीमान् किशनलालजी वच्छावत मूत्था
की धर्मपत्नी गिलखीवाई रायचूर
- २ " हंसराजजी वरलेचा की धर्मपत्नी मेहताववाई
आलन्दूर (मद्रास)
- ३ " जयवन्तराजजी भंवरलालजी चोरडिया मद्रास

४	श्रीमान् निहालचन्दजी मगराजजी सांखला	वेलूर
५	लाला रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी श्रीमती पार्वतीबाई	हैदराबाद
६	पुखराजजी लूंकड़ की धर्मपत्नी श्रीमती गजराबाई	बंगलौर
७	किशनलालजी फूलचन्दजी लूणिया	"
८	मिश्रीमलजी कात्रेला की धर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई	"
९	उमेदलालजी गोलेच्छा की सुपुत्री मिश्रीबाई	हैदराबाद
१०	गाढमलजी प्रेमराजजी वांठिया	सिकन्दराबाद
११	सुल्तानमलजी चन्दनमलजी सांखला	"
१२	जेठालालजी रामजी के सुपुत्र गुलावचन्दजी (स्वर्गीय माता जबलबाई की स्मृति में)	"
१३	गुलावचन्दजी चौथमलजी बोहरा	रायचूर
१४	जसराजजी शांतिलालजी बोहरा	"
१५	दौलतरामजी अमोलकचन्दजी धोका	यादगिरी
१६	मांगीलालजी भण्डारी	मद्रास
१७	हीराचन्दजी खिवराजजी चोरडिया	"
१८	किशनलालजी रूपचन्दजी लूणिया	"
१९	मांगीलालजी वंशीलालजी कोटडिया	"
२०	मोहनलालजी प्रकाशचन्दजी दुगड़	"
२१	पुखराजजी मीठालालजी बोहरा	पेरम्बूर
२२	राजमलजी शांतिलालजी पोखरणा	" "
२३	ऋषभचन्दजी उदयचन्दजी कोठारी	" "
२४	आर. जेतारामजी कोठारी	" "

- २५ " जवानमलजी सुराणा की धर्मपत्नी श्रीमती मायाबाई आलन्दूर मद्रास
- २६ " मिश्रीमलजी गंका की धर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई पुदूपेठ "
- २७ श्रीमान् मानकचंदजी चनुर की धर्मपत्नी रतनबाई वेलूर
- २८ " वोरीदासजी पोरवाल की धर्मपत्नी पानीबाई बैंगलौर
- २९ " एम. कन्हैयालालजी समदडिया एण्ड ब्रदर्स "
- ३० " हीराचंदजी सांखला की धर्मपत्नी श्रीमती भूरीबाई "
- ३१ " निहालचंदजी घेवरचंदजी भटेवरा वेलूर
- ३२ " विनयचंदजी विजयराजजी भटेवरा "
- ३३ " गुलाबचंदजी केवलचंदजी भटेवरा "
- ३४ श्रीमती गुप्त दानी बहिन "
- ३५ श्रीमान् रामचन्द्रजी वांठिया की धर्मपत्नी पानीबाई "
- ३६ " बीजराजजी धाडीवाल की धर्मपत्नी मिश्रीबाई त्रिवेलूर
- ३७ " सम्पतराज एण्ड कम्पनी तिरपातूर
- ३८ " आसकरणजी चोरडिया की धर्मपत्नी श्रीमती केसरबाई उलदूरपेठ
- ३९ " जुगराजजी, खिवराजजी, केवलचन्दजी वरमेचा श्रीपेरमपुर
- ४० " नवलमलजी शम्भूमलजी चौरडिया मद्रास
- ४१ " मिश्रीमलजी पारसमलजी कात्रेला बैंगलौर
- ४२ " केसरीमलजी धीसूलालजी कटारिया "
- ४३ " मुल्तानमलजी चंदनमलजी गरिया "
- ४४ " चुन्नीलालजी की धर्मपत्नी झूमीबाई "

- ७८ " स्व. वनेचंदजी के स्मरणार्थ श्रीमान् जुंवरलालजी
को मातुश्री चम्पावाई पगारियां पाथडी (नासिक)
- ७९ श्री जंन दिवाकर मण्डल द्वारा दगडूलालजी गांधी सुकेणे
- ८० श्रीमान् कल्याणजी बछराजजी द्वारा प्राणजीवनजी
बजराजजी मालेगांव (नासिक)
- ८१ " धरमचंदजी रिधकरणजी मोदी . . . उमराणे (नासिक)
- ८२ " धोंडीरामजी की धर्मपत्नी जमनावाई की
तरफ से ह. श्री रतनलालजी ओस्तवाल " "
- ८३ श्रीमती नाजूवाई अ. ताराचंदजी वाफणा होलनाथा धुलिया
- ८४ स्व. मुनिश्री मुल्तानऋषिजी म. सा. की स्मृति मे
श्रीमान् शंकरलालजी मोतीलालजी दूगड़ वडनेर
- ८५ श्रीमान् उदेराजजी हरकचन्दजी रेदासणी बीबी
- ८६ " पारसमलजी किशनलालजी कुचेरिया,
धुलिया (आशवासन)
- ८७ " अध्यक्ष श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ नागपुर
- ८८ " सेठ चांदमलजी मुथा की धर्मपत्नी सौ. श्री रतनवाई
रायचूर
- ८९ " जवरीलालजी माणेकचन्दजी ललवाणी खेरी
- ९० " मांगीलालजी तनसुखदासजी सुराणा मांढेली
- ९१ " भँवरलालजी हरीचन्दजी बोथरा पोहणा
- ९२ " स्व. नगीनदासजी चत्रभुजजी कोठारी
द्वारा श्रीमती नवलबेन नगीनदासजी कोठारी नागपुर
- ९३ " हीरालालजी पन्नालालजी कांठेड़ खेरी
- ९४ " स्व. पुखराजजी सुराणा की धर्मपत्नी पुष्पादेवी वणी
- ९५ " मोहनलालजी मदनलालजी कोटेचा अडगांव

- ९६ „ अमरचन्दजी गोविन्दजी अकोला
- ९७ „ फूलचन्दजी अमरचन्दजी कोंचर खेरी
- ९८ श्री कोइमतूर स्थानकवासी जैन संघ
द्वारा श्रीमन्त्री श्री. मोहनचन्दजी गोल्लेच्छा कोइमतूर
- ९९ श्रीमान् पुखराजजी मोहनलालजी ओस्तवाल बडनेरा
- १०० „ टी० के० देवराज अण्ड कम्पनी मद्रास
- १०१ „ मोतीलालजी मेघराजजी खिवसरा वणी
- १०२ श्रीमती रतनवाई भ्र. माणकलालजी छाजेड़
(चि० महेन्द्रकुमार को गोद लेनेके प्रसंग पर)
द्वारा श्री. कन्हैयालालजी छाजेड़ धुलिया
- १०३ श्रीमान् मथुरादासजी बन्शीलालजी वरडिया राजूर
- १०४ श्रीमती वदामवाई लक्ष्मणदासजी तथा
सौ. सायरवाई रामचंदजी संकलेचा बडनेरा
- १०५ श्रीमान् मुलचंदजी चुनीलालजी रूपणवाल नांदगांव (खंडेश्वर)
- १०६ श्रीमती रतनवाई मंगलचंदजी पारख नागपूर
- १०७ श्रीमान् एक धर्मानुरागी श्राविका वालाघाट
- १०८ श्री. समरतवाई रतीलालजी गोडा
द्वारा मे. हिमतलाल अण्ड ब्रदर्स अकोला
- १०९ श्री. मंगलचंदजी दगडूरामजी सांखला मु. दावचवाडी
स्व. पिताजी श्री. दगडूरामजी के स्मरणार्थ





❧ श्री बीतरागाय नमः ❧

प्रद्युम्नकुमारचरित

(पु ण्य क ल्प द्रु म)

प्रथम स्कन्ध

मंगलाचरण

सकल कुशल-दाता प्रभो ! नमूं चरण चित्त धार ।
जय जय श्रीजिनदेवजी, मंगल-मुद करतार ॥१॥
अरिहंत सिद्ध आचार्यजी, उपाध्याय सब साध ।
लब्धिनिधि गौतम प्रभो ! दीजे सौख्य-समाध ॥२॥
श्री गुरु दाता ज्ञान के, तारण-तरण जहाज ।
भाव-तिमिर मेरो हरचो, प्रणमूं तेहना पाय ॥३॥
मां श्रुतदेवी कर दया, दीजे सन्मति सार ।
मम इच्छा परिपूर्ण कर, कहूं पूर्ण अधिकार ॥४॥

सूत्रपात

(जिस विश्व के एक छोटे से कोने में हम निवास करते हैं, उसका कहीं ओर-छोर नहीं है। उसकी कहीं सीमा नहीं है। वह सभी तरफ से असीम, असीम और असीम है। इस विशाल और विराट विश्व में रहे हुए पदार्थों की गणना करने चलें तो उनका भी कहां अन्त है? गणना करते-करते एक क्या, असंख्य जीवन समाप्त हो जाएँगे, परन्तु विश्व के वस्तुओं की गिनती पूरी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में ज्ञानी महापुरुषों ने वर्गीकरण की विधि हमारे सामने प्रस्तुत की है। जब हम उस विधि के अनुसार विश्व का वर्गीकरण करते हैं तो मूलभूत दो वस्तुएँ ही पाते हैं—जड़ और जीव। इन्हीं दो में समग्र विश्व का समावेश हो जाता है।)

जड़ वस्तुओं के विस्तार की ओर ध्यान देने पर वह भी कई विभागों में बाँटी जा सकती हैं। शास्त्रकारों ने अनेक दृष्टीकोणों से उनका वँटवारा किया भी है। द्रव्य-दृष्टि से जड़ पदार्थ पाँच भागों में विभक्त किये गये हैं—रूपी पुद्गल, अरूपी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। इन्हीं में जीव को जोड़ देने से द्रव्यों की संख्या छह हो जाती है।

यहाँ द्रव्यों की विवेचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने के लिये सिर्फ आकाश द्रव्य के संबंध में कुछ बातें बतलाना आवश्यक है।

आकाश के प्रधान रूप से दो विभाग हैं, जिन्हें लोकाकाश और अलोकाकाश कहते हैं। जिस आकाशखण्ड में हम सब रहते हैं और जिसमें पूर्वोक्त शेष पाँच द्रव्य रहते हैं, वह लोकाकाश कहलाता है। और जिस खण्ड में शुद्ध आकाश ही आकाश है और सुनसान आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं है, वह अलोकाकाश कहलाता है।

अलोकाकाश के मुकाबिले में लोकाकाश एक छोटा-सा कण्ड है। परन्तु छोटा होने पर भी वह बहुत बड़ा है। उसकी लम्बाई चौदह 'राजू' है। उसके सब तरफ अनन्त, अमर्याद अलोकाकाश है। लोकाकाश को समझने की सुविधा के लिए तीन भागों में विभक्त कर लिया गया है - (१) ऊर्ध्वलोक (२) मध्यलोक और (३) अधोलोक।

समतल भूमि से नौ सौ योजन की नीचाई से अधोलोक आरम्भ होता है और नौ सौ योजन की ऊँचाई से उर्ध्वलोक शुरू होता है। इन दोनों के बीच में, अठारह सौ योजन में मध्य-लोक स्थित है।

मध्यलोक पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह गोलाकार है। इसमें गोलाकार असंख्यात द्वीप और असंख्यात ही समुद्र हैं। सब द्वीपों और समुद्रों के बीच में जो द्वीप है वह जम्बूद्वीप कहलाता है। जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए लवणसमुद्र

है, लवणसमुद्र को घेरे हुए घातकीखण्ड द्वीप है। इसी प्रकार एक द्वीप और एक समुद्र का क्रम चलता गया है।

तो जम्बूद्वीप इस विश्व के केन्द्र भाग में है और मध्यलोक के भी केन्द्र भाग में है। यह द्वीप एक लाख योजन विस्तीर्ण है। इसके भी ठीक बीच में सुमेरु पर्वत से ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण आदि दिशाओं की कल्पना की गई है।

जम्बूद्वीप में पूर्व से लेकर पश्चिम भाग तक छह बड़े-बड़े पर्वत आ गये हैं। इन पर्वतों के आड़े आ जाने से जम्बूद्वीप सात खण्डों में विभक्त हो गया है। यह सात खण्ड सात क्षेत्र भी कहलाते हैं।

सुमेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में, लवणसमुद्र और हिमवान पर्वत के बीच में भरतक्षेत्र है। भरतक्षेत्रके बीचो बीच भी पूर्व से लगाकर पश्चिम तक एक पर्वत है। उसका नाम वैताढ्य पर्वत है। इस पर्वत के कारण भरतक्षेत्र दो हिस्सों में बंट गया है। और फिर हिमवान पर्वत से निकलने वाली महागंगा और महासिन्धु नामक दो नदियाँ भी भरतक्षेत्र में बहती हैं। इस प्रकार वैताढ्य पर्वत और इन दोनों नदियों के कारण भरत क्षेत्र के छह खण्ड हो गये हैं।

भरतक्षेत्र में, बत्तीस हजार देशों का शिरोमणि सौरथ (सौराष्ट्र) देश है। सौराष्ट्र देश में द्वारिका नगरी है यह नगरी स्वयं वैश्रमणदेव के द्वारा बसाई गई थी। उसकी सुन्दरता का क्या पूछना है। वह देवलोक के समान—अलकापुरी के सदृश थी और तीनों खण्डों में विख्यात थी। वह मध्यलोक

का आभूषण थी। बारह योजन की लम्बाई और नौ योजन की चौड़ाई में बसी हुई थी। उसके इर्द-गिर्द स्वर्णमय प्राकार था और उस प्राकार में मणियों के कंगूरे बने हुए थे। चारों तरफ चौड़ी खाई थी। वहाँ का किला अत्यन्त मजबूत और अठारह हाथ ऊँचा था। किले में नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, तोपें, शतघ्नी आदि विद्यमान थे और दारू गोला आदि युद्ध सामग्री प्रस्तुत रहती थी। रात-दिन पहरेदार पहरा दिया करते थे।

नगरी के चौरफ बहुसंख्यक बाग-बगीचे थे। सबके सब अत्यन्त मनोहर थे। वृक्षों, बेलों, फलों फूलों से सुशोभित थे। स्थान-स्थान पर सुरभित और निर्भल जल से परिपूर्ण सरोवर शोभायमान थे। उन सरोवरों के किनारे भाँति-भाँति के पक्षी किलोलें करते और अपनी चहचहाट से जनता का मन मुग्ध कर लेते थे।

जिस समय का यह वर्णन है, उस समय द्वारिका नगरी के अधिपति वासुदेव कृष्ण थे। बलदेव उनके ज्येष्ठ भ्राता भी मौजूद थे दोनों भाईयों में अनुपम और आदर्श स्नेह था। श्रीकृष्ण सभी उत्तम राजचिन्हों से अलंकृत और सद्गुणों से युक्त थे। उन्होंने भरतक्षेत्र के तीन खण्डों पर अपनी विजय-पताका फहरा दी थी। और अर्धचक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लिया था। बिखरे हुए और छिन्न भिन्न भारतवर्ष के अर्द्धभाग को एक शासनसूत्र में ले आये थे। 'वासुदेव' के नाम से उनकी प्रसिद्धि थी।

वासुदेव श्रीकृष्ण के समय में भी यहाँ की भवननिर्माण कला अत्यन्त उन्नत थी। उसकी उन्नति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वयं श्रीकृष्ण के रहने का महल बीस मंजिल का था। बलदेव का महल अठारह मंजिल का, दस दशार्ह के नौ-नौ मंजिल के और दूसरों के सात-सात मंजिल के महल थे।

श्रीकृष्ण की बत्तीस हजार रानियाँ थीं और बलदेवजी की सोलह हजार। सभी असाधारण रूप-लावण्य से सुशोभित थीं। उनकी रूपश्री के सामने अप्सराएँ भी लज्जित हो जाती थीं।

द्वारिका नगरी बहुत विशाल थी। परकोटे के भीतर भी जनता की आवादी थी और बाहर भी थी। साठ करोड़ मकान भीतर बने हुए थे और बहत्तर करोड़ बाहर। इस प्रकार एक अरब और बत्तीस करोड़ घरों की जहाँ आवादी हो, उस नगरी की विशालता और महत्ता का क्या पूछना है? फिर सबके सब मकान बड़े सुन्दर थे। सचमुच, उस समय द्वारिकापुरी अपनी अनुपम छटा से शोभायमान हो रही थी।

द्वारिका नगरी में पुण्यशील पुरुषों का निवास था। वहाँ की प्रजा दानशील, धर्मपरायण, शीलवान्, सन्तोषी और विनय आदि सद्गुणों से विभूषित थी। श्रीसन्मत्त थी। द्वारिका की नारियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थीं और अन्य महिलोचित गुणों से युक्त थीं। वहाँ के सभी घर धन धान्य से परिपूर्ण थे। स्वचक्र या परचक्र के नय का नाम-निशान नहीं था। जहाँ श्रीकृष्ण सरदीये चक्र के चक्रिचाली

शासक हों, वहाँ की प्रजा को भीतर या बाहर का भय ही कैसे सकता था ? इस प्रकार द्वारिका-वासी निर्भय और पूर्ण सुखी थे ।

यदुपति श्रीकृष्ण को आठ पटरानियाँ थी—(१) रुक्मिणी (२) सत्यभामा (३) जाम्बवती (४) लक्ष्मणा (५) सुषमा (६) गौरी (७) गांधारी और (८) पद्मा ।

संसार में सौतिया डाह प्रसिद्ध है । वास्तव में पत्नी सभी कुछ सहन कर सकती हैं किन्तु अपनी सौत का अस्तित्व उसे सहन नहीं होता । फिर सौत का उत्कर्ष देखकर सौत के हृदय में शूल ही चुभ जाता है । यद्यपि श्रीकृष्णजी के यहाँ किसी भी रानी के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी और कृष्णजी सबको सन्तुष्ट और प्रसन्न रखने की चेष्टा में रत रहते थे, फिर भी उनकी पत्नियाँ सौतिया डाह का शिकार बनी हुई थी । खास तौर से सत्यभामा रात-दिन ईर्ष्या की आग में जलती रहती थी ।

रुक्मिणी असाधारण रूपश्री से सम्पन्न थी । उसके सद्गुण भी असाधारण थे । अपनी इन विशेषताओं के कारण उसने गिरधारी का मन मोह लिया था । कोई कितना ही निष्पक्ष क्यों न हो, फिर भी गुणीजनों पर उसकी विशिष्ट प्रीति ही होती जाती है । रुक्मिणी के अनुपम सद्गुण देखकर कृष्णजी उसका खूब सन्मान करते थे । उसके सद्गुणों का सौरभ चारों ओर फैला हुआ था । प्रत्येक के मुख से उनका यशोगान सुनाई पड़ता था । बेचारी सत्यभामा यह सब देख सुनकर और

अधिक कुढ़ती थी। वह दिन रात चिन्ता में डूबी रहती थी। उसके दिल का दर्द दिल में समाता नहीं था और प्रकट करे भी तो किसके आगे? उसकी धारणा ऐसी बन गई थी मानों सभी रुविमणी के पक्ष में हैं और मेरा पक्ष लेने वाला कोई है ही नहीं।

उस समय कुरुजांगल देश के राजा दुर्योधन थे। दुर्योधन ने एक बार श्रीकृष्ण को एक पत्र लिखा और अपने एक कर्मचारी के साथ उसे श्रीकृष्ण के पास भेजा। कर्मचारी चलते-चलते द्वारिका आया। उसने राजा दुर्योधन का पत्र कृष्णजी के सामने उपस्थित किया। उस पत्र में दुर्योधन ने लिखा था—आपकी पटराणी और मेरी पटराणी अगर कुमार-कुमारिका को जन्म दें तो उनका आपस में विवाह-सम्बन्ध किया जाय, यह मेरी आन्तरिक अभिलाषा है। आशा है आप प्रस्ताव को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे।

पत्र पढ़कर कृष्णजी हर्षित हुए। उन्होंने उस पत्र के उत्तर में अपनी ओर से एक स्वीकृति सूचक प्रेमपूर्ण पत्र लिख दिया। दुर्योधन के भेजे हुए कर्मचारी का यथोचित सन्मान किया और प्रेमपूर्वक उसे विदाई दी। कर्मचारी लौटकर कुरुजांगल देश पहुँचा। दुर्योधन, कृष्णजी का प्रेमपूर्ण पत्र पाकर परम प्रसन्न हुआ। उसने हर्ष-वधावा वितरण किया।

कृष्णजी ने दुर्योधन राजा के साथ जो इकरार किया था, वह सभी को मालूम था। सत्यभामा ने यह समाचार सुना तो उसके हर्ष का पार न रहा। उसे अपने मन में निश्चय हो गया कि मैं अवश्य ही सौभाग्यशाली पुत्र को जन्म दूंगी और

मेरा कुमार दुर्योधनराज जैसे प्रतिष्ठित और महान राजा की कन्या का पाणिग्रहण करेगा ! इस बात को लेकर उसके मन में अनेक कल्पनाएँ उठने लगीं। वह तरह-तरह के मंसूबे बांधने लगी। उसने अनगिनते हवाई किले खड़े कर लिये।

संसार का प्रत्येक प्राणी आशा, अभिलाषा और कल्पना के सहारे जीता है। परन्तु ऐसे भाग्यशाली कम होते हैं, जिनकी समस्त आशाएँ सफल हो जाएँ। जिन्होंने पूर्व जन्म में प्रकृष्ट पुण्य उपार्जन किया है, पर्याप्त सुकृत किया है, उनकी अभिलाषाएँ फलवती होती हैं। इसके विपरीत जो पुण्य की पूंजी लेकर नहीं आया है, उसे अन्त में निराशा का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का लक्ष्य करके ही कहा गया है—

उपत्त्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः ।

साधारण लोक समझते हैं कि रुपया, पैसा, सोना और चांदी ही धन है और जिनके पास यह धन नहीं है, वे दरिद्र हैं। किन्तु जिन्होंने गहराई में उतर कर तत्त्व का चिन्तन किया है वे ऐसा नहीं समझते। उन ज्ञानियों की समझ सर्व-साधारण की समझ से भिन्न होती है। वे समझते हैं कि असली धन और वास्तविक पूंजी पुण्य ही है। जिसके पल्ले में पुण्य की प्रभूत पूंजी बँधी हुई है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी और संसार का ऐश्वर्य उसके चरणों में लीटता है। पुण्यशाली पुरुष को विश्व का वैभव अनायास ही प्राप्त होता है।

पुण्य बीज है और वैभव उससे उत्पन्न होने वाला अंकुर है। बीज होंगे तो अंकुर उगेगा। बीज के अभाव में हजार

प्रयत्न करने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता । कितना ही खाद डाला जाय, कितना ही पानी सींचा जाय और चोटी से एड़ी तक फसीना क्यों न बहाया जाय, परन्तु बीज ही न होगा तो अंकुर कैसे उगेगा ? धन धान्य और जगत् का समस्त वैभव यदि अंकुर माना जाय तो पुण्य ही उन सब का बीज है । इसी से कहा है—

पुण्यवन्ता तो सब सुख पावे, पुण्य बिना कुछ नाही ।

जो लोग धन-धान्य आदि सुख-सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु पुण्य का उपार्जन नहीं करते, वे बिना बीज ही अंकुर उगाना चाहते हैं । अतएव ज्ञानी जनों का कथन है कि जिन्हें सुख और वैभव की अभिलाषा है, उन्हें पुण्योपार्जन करना चाहिए । पुण्यवानको सभी सुख प्राप्त होते हैं और पुण्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

संसार में ऐसे मनुष्यों की भी कमी नहीं है, जो सुख और वैभव पाने के लिए पाप का आचरण करने में निरत रहते हैं । ऐसे अज्ञानी जीवों की चेष्टा देखकर ज्ञानी जन विस्मय करते हैं । उनकी यह विपरीत चेष्टा करुणाजनक है । वे बीज को नष्ट करके अंकुर उगाना चाहते हैं ! उन्हें सफलता किस प्रकार मिल सकती है ?

सत्यभामा अपने मन की लहरों पर नाचने लगी । उसने कितने ही मंसूवे वाँध लिये । उसने विचार किया—मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अपनी सीतों का दिल दुखाने का अवसर मिल रहा है । मेरा कुमार जब दुर्योधनराज की कुमारी का

पाणिग्रहण करेगा तो मैं हर्ष के सागर में गोते लगाऊँगी और मेरी सौतों को विषाद के कीचड़ में फँसना पड़ेगा। उन्हें नीचा देखना पड़ेगा।

सत्यभामा फिर सोचने लगी—मेरी सब सौतों में रुक्मिणी ही प्रबल है। उसे लज्जित और अपमानित करने का अवसर चूकना उचित नहीं है। इस प्रकार सोचकर सत्यभामा ने उसी समय अपनी एक दासी को आवाज दी। दासी हाथ जोड़ आ उपस्थित हुई। बोली—क्या आज्ञा है महारानीजी ?

सत्यभामा ने कहा—‘जाओ, रुक्मिणी देवी को अभी बुला लावो।’

‘जो आज्ञा’ कह कर दासी रुक्मिणी देवी के महल की ओर चल दी।

: २ :

सौतिया—डाह



उस समय रुक्मिणी अपने रंगमहल में आनन्द-विनोद कर रही थी। सत्यभामा की दासी उसके पास पहुँची। उसने दोनों हाथ जोड़ कर और मस्तक झुकाकर नमस्कार किया।

फिर कहा—‘महारानीजी आपको महारानी सत्यभामा ने याद किया है । कृपा करके उनके महल में पधारिये’ ।

रुक्मिणी, सत्यभामा का बुलावा पाकर उसी समय सत्यभामा के पास पहुँची । यथोचित शिष्टाचार के अनन्तर उसने पूछा—कहो वहिन ! आज किसलिए याद किया है ? सकुशल तो हो ?

सत्यभामा—सब प्रकार कुशल-मंगल ही है । मैंने आपको आज एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है । मैं हरि और हलधर के समक्ष, आपके साथ एक होड़ करना चाहती हूँ ।

रुक्मिणी—वह क्या ?

सत्यभामा—‘तुम्हारा लड़का पहले व्याहा जाय तो मैं अपना मस्तक मुंडवा कर तुम्हारे पैरों में बाल रख दूँ और यदि मेरा लड़का पहले व्याहा जाय तो तुम अपने मस्तक के बाल मेरे पैरों में रखो ।’

रुक्मिणी—वहिन ! हम दोनों ही उच्चकुल की कन्याएं हैं और ऊँचे कुल में व्याही गई हैं । अतएव हमारे विचार भी ऊँचे होने चाहिये हमारे व्यवहार में भी ऊँचापन होना चाहिए । तुमने जो विचार किया है, वह तुम्हें शोभा नहीं देता । तुम्हारी वेइज्जती को मैं अपनी ही वेइज्जती समझती हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही समझना चाहिए । महाराज वासुदेव की पटरानियों का हृदय क्षुद्र और संकीर्ण नहीं, उदार और विशाल होना चाहिए । अतएव मेरा परामर्श मानो तो इस दुर्विचार को त्याग दो । क्या तुम्हारा और क्या मेरा कुमार,

आखिर तो एक ही पिता की सन्तान होगा। तुम्हारे उदर से जनमा कुमार क्या मेरा नहीं होगा? वह मुझे माता नहीं कहेगा? फिर यह भेद-भाव क्यों? इस प्रकार का भेद-भाव आगे चलकर भीषण अनर्थों की सृष्टि करेगा, भाई-भाई में विरोध की अग्नि प्रज्वलित करेगा और उस आग में हमारा कुल ही नहीं, समग्र द्वारिका भस्म हो जायगी और द्वारिकाधीश का साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।

सत्यभामा—बहिन उदारता के इस आवरण में अपनी दुर्बलता को छिपाने का प्रयास करना वृथा है। मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हैं कि मैं तुम्हारी कमजोरी को न देख सकूँ। तुम्हारे और मेरे बीच की होड़ से समग्र द्वारिका और द्वारिका का विशाल साम्राज्य किस प्रकार नष्ट हो जायगा, मैं नहीं समझ सकती! मैं ऐसी भीरु नहीं हूँ कि तुम्हारी इस मनोकल्पना से डर जाऊँ! यह होड़ बदनी ही फड़ेगी।

रुक्मिणी—आपका खयाल सही नहीं है। निस्सन्देह आपकी आंखें धुंधली नहीं हैं, बल्कि इतनी तेज हैं कि जो वस्तु नहीं है, उसे भी देख रही हैं। मेरे अन्तःकरण में रंच मात्र भी भय नहीं है। मुझे तो भविष्य की चिन्ता है और इस अशोभन कृत्य के प्रति घृणा है। इसी कारण मैं इतना कह रही हूँ। मानो तो अच्छा है, नहीं तो होड़ बदने को भी तैयार हूँ।

रुक्मिणी सोचने लगी—श्रेष्ठ कुल की बाला के चित्त में यह निकृष्ट विचार क्यों उत्पन्न हुआ? वह मोदक त्याग कर

खल क्यों खाना चाहती हैं ? जान पड़ता है, बुरी होनहार की प्रेरणा से ही सत्यभामा के मन में यह बुरा विचार उत्पन्न हुआ है ।

सत्यभामा—तो फिर हरि और हलधर को बुलवा लिया जाय ?

रुक्मिणी—मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने को तैयार हूँ ।

सत्यभामा ने अपना सेवक हरि और हलधर के पास भेज दिया । उसने जाकर निवेदन किया—महाराज ! महारानी सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच होड़ बदी जा रही है । आप दोनों महानुभाव बड़ी महारानीजी के महल में पधारिए ।

वलभद्र कृष्ण और अनेक यादव परिवार के लोग, कुतुहल से प्रेरित होकर सत्यभामा के महल में आये ।

सत्यभामा ने बतलाया कि हम दोनों के बीच इस प्रकार की होड़ बदी जा रही है । आप इसके साक्षी हैं ।

वलभद्र ने रुक्मिणी से पूछा—क्यों रुक्मिणी, तुम्हें भी मंजूर है यह होड़ ?

रुक्मिणी—इस होड़ के प्रति अपनी अरुचि में प्रकट कर चुकी हूँ । परन्तु वहिन सत्यभामा मेरी पूज्य है । जिसमें इनके मन को सन्तोष हो, वही मेरे लिए उचित है । जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा । मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है । जिसकी जैसी होनहार है, उसे वैसी ही वृद्धि सूझती है—

आखिर तो एक ही पिता की सन्तान होगा। तुम्हारे उदर से जनमा कुमार क्या मेरा नहीं होगा? वह मुझे माता नहीं कहेगा? फिर यह भेद-भाव क्यों? इस प्रकार का भेद-भाव आगे चलकर भीषण अनर्थों की सृष्टि करेगा, भाई-भाई में विरोध की अग्नि प्रज्वलित करेगा और उस आग में हमारा कुल ही नहीं, समग्र द्वारिका भस्म हो जायगी और द्वारिकाधीश का साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।

सत्यभामा—बहिन उदारता के इस आवरण में अपनी दुर्बलता को छिपाने का प्रयास करना वृथा है। मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हैं कि मैं तुम्हारी कमजोरी को न देख सकूँ। तुम्हारे और मेरे बीच की होड़ से समग्र द्वारिका और द्वारिका का विशाल साम्राज्य किस प्रकार नष्ट हो जायगा, मैं नहीं समझ सकती! मैं ऐसी भीरु नहीं हूँ कि तुम्हारी इस मनोकल्पना से डर जाऊँ! यह होड़ बदनी ही पड़ेगी।

रुक्मिणी—आपका खयाल सही नहीं है। निस्सन्देह आपकी आंखें धुंधली नहीं हैं, बल्कि इतनी तेज हैं कि जो वस्तु नहीं है, उसे भी देख रही हैं। मेरे अन्तःकरण में रंच मात्र भी भय नहीं है। मुझे तो भविष्य की चिन्ता है और इस अशोभन कृत्य के प्रति घृणा है। इसी कारण मैं इतना कह रही हूँ। मानो तो अच्छा है, नहीं तो होड़ बदने को भी तैयार हूँ।

रुक्मिणी सोचने लगी—श्रेष्ठ कुल की बाला के चित्त में यह निकृष्ट विचार क्यों उत्पन्न हुआ? वह मोदक त्याग कर

अपनी वाणी का मधु घोलकर उसने उन्हे जगाया। कृष्ण ने उसे भद्रासन पर बिठलाया। असमय में आगमन का कारण पूछा।

रुक्मिणी ने अत्यन्त विनीत और मधुर स्वर में अपने स्वप्नों का विवरण सुनाया। तब कृष्ण मुरारि ने, स्वप्नों का फल निर्धारित करके कहा—‘प्रिये ! तुमने प्रशस्त और शुभ स्वप्न देखा है। यह स्वप्न सूचित करता है कि तुम्हें एक पुण्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र यादव-कुल का तिलक होगा, पुरुषों में महान होगा और तुम्हारे यश का विस्तार करेगा’।

रुक्मिणी अपने स्वप्न का फल सुनकर अत्यन्त हर्षित हुई। उसने यथा योग्य प्रिय आलाप-संलाप किया और फिर अपने महल में लौट आई। रुक्मिणी ने शेष रात्रि जागते-जागते ही व्यक्तित की।

इन दिनों देवी रुक्मिणी गर्भवती थी। गर्भवती नारी को आहार-विहार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अधिक खट्टा, अधिक मीठा और अधिक चरपरा भोजन करने से गर्भ को हानि पहुंचती है। अत्यधिक श्रम करने से भी गर्भ को पीड़ा होती है। चिन्ता, शोक आदि मानसिक उद्वेग गर्भ के लिए विष के समान है। रुक्मिणी इन सब बातों से बचती हुई। अपने गर्भ को, प्राणों से अधिक प्रिय समझती हुई, सब प्रकार के अपथ्य आहार-विहार से बचती हुई और मन को प्रसन्न रखती हुई गर्भ का प्रतिपालन करने लगी।

तादृशी जायते बृद्धिः यादृशी भवितव्यता ।

अस्तु, इच्छा न होने पर भी अपनी वहिन सत्यभामा के सन्तोष के लिए मैं इस होड़ को स्वीकार करती हूँ ।

रुक्मिणी की शिष्टता, उदारता और विनयशीलता को देखकर वहाँ उपस्थित सभी यादव अत्यन्त प्रसन्न हुए । होड़ निश्चित हो गई । सब यादव इसी प्रसंग को लेकर वात-चीत करते-करते अपने-अपने स्थान के लिए खाना हो गये । रुक्मिणी अपने महल में चली गई ।

X X X X X

रुक्मिणी अपने महल के शयनगार में निश्चिन्तता की नींद सो रही थी । चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग या क्षोभ नहीं था । उस समय बारहवें देवलोक से एक पुण्यशाली जीव अवतरित हुआ । जैसे सीप में मोती उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह रुक्मिणी के उदर से उत्पन्न हुआ । उस समय रुक्मिणी ने दो प्रशस्त स्वप्न देखे । पहले स्वप्न में अतीव उत्तम जाज्वल्यमान और अलौकिक आभा से मंडित देवविमान दिखाई दिया । दूसरे स्वप्न में इन्द्र का प्रधान गजराज ऐरावत दिखलाई पड़ा । ऐरावत सजा हुआ और बहुत ही सुन्दर था । वह आकाश मार्ग से नीचे उतरता हुआ, आनन्द-क्रीड़ा करता हुआ, उबासी लेता हुआ, मुख मार्ग से उदर में प्रविष्ट हुआ । यह दोनों स्वप्न देखकर नारीमणि रुक्मिणी तत्काल जाग उठी । उसकी निद्रा भंग हो गई । चित्त में अकस्मात् आह्लाद उत्पन्न हो गया । वह उसी समय अपने शयनगार से निकल कर अपने स्वामी श्रीकृष्ण के शयनगार की ओर चली । श्रीकृष्ण के कानों में

अपनी वाणी का मधु घोलकर उसने उन्हे जगाया। कृष्ण ने उसे भद्रासन पर बिठलाया। असमय में आगमन का कारण पूछा।

रुक्मिणी ने अत्यन्त विनीत और मधुर स्वर में अपने स्वप्नों का विवरण सुनाया। तब कृष्ण मुरारि ने, स्वप्नों का फल निर्धारित करके कहा—'प्रिये ! तुमने प्रशस्त और शुभ स्वप्न देखा है। यह स्वप्न सूचित करता है कि तुम्हें, एक पुण्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र यादव-कुल का तिलक होगा, पुरुषों में महान होगा और तुम्हारे यश का विस्तार करेगा'।

रुक्मिणी अपने स्वप्न का फल सुनकर अत्यन्त हर्षित हुई। उसने यथा योग्य प्रिय आलाप-संलाप किया और फिर अपने महल में लौट आई। रुक्मिणी ने शेष रात्रि जागते-जागते ही व्यतित की।

इन दिनों देवी रुक्मिणी गर्भवती थी। गर्भवती नारी को आहार-विहार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अधिक खट्टा, अधिक मीठा और अधिक चरपरा भोजन करने से गर्भ को हानि पहुंचती है। अत्यधिक श्रम करने से भी गर्भ को पीड़ा होती है। चिन्ता, शोक आदि मानसिक उद्वेग गर्भ के लिए विष के समान है। रुक्मिणी इन सब बातों से बचती हुई। अपने गर्भ को, प्राणों से अधिक प्रिय समझती हुई, सब प्रकार के अपथ्य आहार-विहार से बचती हुई और मन को प्रसन्न रखती हुई गर्भ का प्रतिपालन करने लगी।

उधर रानी सत्यभामा भी अपनी सुख शय्या पर शयन कर रही थी। उसके उदर में भी, स्वर्ग से आकर एक पुण्यशील प्राणी ने प्रवेश किया। उस समय सत्यभामा ने स्वप्न में सूर्य को देखा; किन्तु वह सूर्य कुछ-कुछ बादलों से घिरा हुआ था। रुक्मिणी की भांति सत्यभामा भी कृष्ण के पास पहुंची। कृष्णजी ने उसके स्वप्न का हाल सुनकर हर्षपूर्वक कहा— 'प्रिये ! तुमने शुभस्वप्न देखा है। तुम सूर्य के समान प्रतापशाली पुत्र का प्रसव करोगी। तुम्हारा बालक कुल का दीपक और कुल के लिये चन्द्रमा के समान होगा।'

फल-निर्देश सुनकर सत्यभामा को परम आनन्द हुआ। उसे उसी समय होड़ का स्मरण हो आया। मन ही मन सोचने लगी-बस, अब क्या है ! मैं होड़ में विजयनी होकर संसार में अमर यश की भागिनी बनूंगी। वह सोचने लगी-कब मेरा लाल जनमे, कब उसका विवाह करूं और कब अपनी सौत के माथे के बाल अपने चरणों में पड़े देखूं।

: ३ :

अपहरण



पुण्यप्रतिमा रुक्मिणी प्रतिदिन, बड़ी ही सावधानी के साथ अपने गर्भ की प्रतिपालना कर रही थी। पुण्य के उदय से अन्य

सामान्य नारियों की तरह उसके उदर की वृद्धि नहीं हुई थी। उसके उदर की त्रिवली ज्यों की त्यों दृष्टिगोचर होती थी। यह हाल देखकर रुक्मिणी की सीते तरह-तरह की शंकाएं किया करती थी। सत्यभामा सोचती थी रुक्मिणी झूठी है। झूठमूठ ही अपने को गर्भिणी प्रकट कर रही है। उसे अपने मस्तक के बाल कट जाने का भय है और स्वामी की ओर से अपमानित होने की आशंका है। इसी भय और आशंका के कारण उसने गर्भवती होने का प्रपञ्च रच डाला है ! सचमुच गर्भवती होती तो क्या उदर जैसे का तैसा बना रहता ? कदापि नहीं। निस्सन्देह रुक्मिणी ढोंग कर रही है।

अपनी सीतों की और खास तौर पर सत्यभामा की यह आशंका रुक्मिणी से छिपी नहीं रही। परन्तु उसे कौसी बात की चिन्ता नहीं थी वह सोचती थी-साँच को आँच कहाँ ? सत्य उस प्रकार तेजोमय सूर्य के सदृश है, जो भ्रम के काले अन्धकार को छिन्न-भिन्न कर देता है। समय पर सूर्य का उदय होगा, प्रकाश की निर्मल रश्मियाँ जगतीतल पर विखरेगी और कुःशंकाओं का अन्धकार, पता नहीं किधर विलीन हो जायगा। ऐसी स्थिति में मुझे चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा सत्य अधिक शक्तिशाली है। वह जब मेरी रक्षा करने को तत्पर है तो मुझे प्रतिकार करने की आवश्यकता ही क्या है ? इस प्रकार सोचकर रुक्मिणी निश्चित भाव से अपने गर्भ की रक्षा करती थी। हाँ, कोई पूछता तो उसे सच बात बतला दिया करती थी। मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर था।

धीरे-धीरे नौ मास और सात दिन व्यतीत हो गये । प्रसव का समय सन्निकट आ पहुँचा । तब रात्रि के समय शुभ तिथि, शुभ लग्न, शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र और शुभ योग में अनुपम तेजस्वी पुत्र-रत्न का जन्म हुआ । जन्मकाल में ही बालक का तेज इतना प्रखर था कि रात्रि के समय में भी रुक्मिणी का भवन एक बार प्रकाशमय हो उठा । ऐसा जान पड़ा कि आकाश में ही सूर्य उदित हो गया है । अपने नवजात शिशु का ऐसा अनुपम तेज देखकर और उसके भविष्य की उज्ज्वल कल्पना करके माता को कितना हर्ष हुआ, यह अनुमान करना कठिन है ! वस्तुतः ऐसे असाधारण शिशु की सौभाग्यशालिनी माता ही रुक्मिणी के हर्ष का अनुमान लगा सकती है ।

रुक्मिणी का सेवक हर्ष के साथ, बधाई देने के लिए कृष्णजी के पास पहुँचा । कृष्णजी उस समय शयन कर रहे थे । सेवक को साहस नहीं हुआ कि वह उन्हें जगाकर बधाई दे ! उसके हृदय में गुदगुदी चल रही थी मगर कृष्णजी को जगाना टेढ़ी खीर थी । अतएव वह सेवक सरल भाव से उनके पांयते-पैरों की ओर-वैठ गया और उनके जगने की प्रतीक्षा करने लगा ।

संयोगवश उसी समय सत्यभामा ने भी अतिशय प्रिय पुत्र को जन्म दिया । उसका सेवक भी बधाई देने के लिए श्रीकृष्ण के पास पहुँचा । जब वह पहुँचा तो उसने रुक्मिणी के सेवक को पांयते बैठा देखा । उसे देखकर वह सोच-विचार

करने लगा। आखिर सत्यभामा के सेवक ने सोचा-में बड़ी रानी का सेवक हूँ और जन्म की बधाई लेकर आया हूँ। मैं इस समय पाँयते क्यों बैठूँ? यह बैठा है तो भले बैठा रहे। मेरा दर्जा इससे ऊंचा है। मैं तो सिरहाने की तरफ बैठूँगा। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होकर वह श्रीकृष्णजी के सिरहाने की तरफ बैठ गया।

जैसे स्वामी वैसा सेवक! जिस स्वामी की जैसी बुद्धि और भावना होती है, उसके सेवक की बुद्धि और भावना भी वैसी ही हो जाती है। इस कथन के सचाई की परीक्षा करने के लिये दोनों रानियों के दोनों सेवकों को ही लीजिए। रुक्मिणी का सेवक कितना सरल और निरहंकार है और सत्यभामा का सेवक अहंकार में चूर हो रहा है।

थोड़े समय की प्रतीक्षा के पश्चात् द्वारिकाधीश को निद्रा भंग हुई। ज्यों ही वह जागकर अपनी शय्या पर बैठे, उनकी दृष्टि रुक्मिणी देवी के सेवक पर पड़ी। 'महाराज की जय हो, विजय हो' कहकर उनसे पुत्र जन्म की बधाई दी। कहा—“पृथ्वीनाथ! महारानी रुक्मिणी देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। इस महान् आनन्दजनक अवसर पर यह दास आपकी हार्दिक बधाइयाँ अर्पित करने के लिये उपस्थित हुआ है।”

यदुनाथ यह बधाई सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राज-चिन्ह मुकुट के सिवाय अपने अंग के समस्त आभूषण उतारकर सेवक

थी, उसे भेंट में दे दी। जन्म जन्मान्तर की दरिद्रता दूर कर देने वाली बहुमूल्य वस्तुएं पाकर और वह भी महाराज श्रीकृष्ण के वरद हाथों से पाकर, रुक्मिणी का सेवक निहाल हो गया।

रुक्मिणी के सेवक के चले जाने पश्चात् कृष्णजी की दृष्टि सिरहाने की ओर खड़े हुए सत्यभामा के सेवक पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वह उठ खड़ा हुआ। बोला—“बधाई है नरनाथ, पटरानी सत्यभामा ने पुत्र रत्न का प्रसव किया है! महाराज, यह श्रेयस्कर बधाई स्वीकार कीजिए।”

श्रीकृष्ण यह दौहरी बधाई सुनकर अतीव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय भंडारी को बुलवाकर और भंडार खुलवाकर उस सेवक को भी पर्याप्त पारितोषक दिया।

सत्यभामा के सेवक को यद्यपि पर्याप्त पुरस्कार मिला था, फिर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मक्खन-मक्खन रुक्मिणी का सेवक ले गया है और छाछ मेरे पल्ले पडी है! वह मन में कुढ़ गया, जल-भुन गया। यद्यपि श्रीकृष्णजी के मन में कोई पक्षपात का भाव नहीं था, वह अपने अहंकार के ही कारण पिछड़ गया था, फिर भी क्षुद्र पुरुष अपना दोष नहीं देखता और दूसरों में दोष की कल्पना करता है। वह अपनी मूर्खता के लिए कृष्णजी को दोषी समझने लगा उनमें पक्षपात का आरोप करने लगा। सत्यभामा के पास जाकर उसने चुगली खाई। बोला—आपके स्वामी के हृदय में पक्षपात है। वे रुक्मिणी पर अधिक प्रीति रखते

हैं ! इसी कारण उन्होंने पहले रुक्मिणी रानी के सेवक को पुरस्कार दिया । अपने अंगों के समस्त आभूषण उतार कर उसे दे दिये । उसे दे चुकने के बाद, भंडारी के हाथ से मुझे थोड़ा सा पुरस्कार दिलवाया है ! आपकी कृपा है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है । मैं अपने लिए यह बात नहीं कर रहा हूँ । मगर रुक्मिणी रानी को अधिक चाहना और आपको कम चाहना, यह मेरे लिए असह्य है ।

अपने सेवक की बात सुनकर सत्यभामा खीझ उठी । वह देर तक बड़बड़ाती रही । फिर उसने बलदेवजी को बुलवाकर कृष्णजी की शिकायत करते हुए सब वृत्तान्त सुनाया ।

बलदेवजी ने यथोचित आश्वासन दिया । वे कृष्ण के पास आये और इस सम्बन्ध में पूछताछ की । कृष्ण ने जब यथार्थ बात प्रकट की तो बलदेवजी मौन रह गये । वे समझगये कि सत्यभामा के दिल में द्वेषका दावानल भडक रहा है ।

दग्ध्र के घर पुत्र-जन्म होता है तो उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता । वह भी अपने सामर्थ्य और सामग्री के अनुरूप उत्सव मना कर अपनी जागतिक प्रसन्नता को प्रगट करता है । फिर यहाँ तो अर्धचक्रवर्ती-तीन खण्ड के राजा, महाराज श्रीकृष्ण के घर पुत्र-जन्म हुआ था । इस पर भी एक नहीं, दो पुत्रों का—शुभ लक्षणों से सम्पन्न पुण्यशाली और तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ था । ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण ने जो महान् उत्सव मनाया होगा, उसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है ! उन्होंने अपने सेवकों को उदार उत्सव मनाने

की आज्ञा दी । पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण द्वारिका नगरी सिंगारी गई । स्थान-स्थान पर सुन्दर मण्डप बनाये गये । द्वार-द्वार पर वन्दनवार बाँधे गये । ध्वजा-पताकाएँ लहराने लगी । घर-घर मंगल-गान होने लगे । द्वारिका की समस्त प्रजा हर्ष से मतवाली हो गई । आठ दिन के लिए सब प्रकार के कर छोड़ दिये गये ।

सत्यभामा और रुक्मिणी के महलों में यादव-परिवार के लोग जमा हो गए । नृत्य और गान होने लगा । सब लोग परस्पर मिष्ठान्न का वितरण करने लगे । सब हर्ष में विभोर हो गये ।

याचकों को मनचाहा दान दिया जाने लगा । धन, वस्त्र और आभूषण, जिसने जो चाहा उसे वही मिला । ढोल, नगाडे, तासक, शहनाई, झालर, घन्टा आदि-आदि बाजे बजने लगे । बाजों की ध्वनि में आकाश-मण्डल गूँजने लगा । सर्वत्र जय-जयकार की ध्वनि दिग्-दिगन्तों को प्रतिध्वनित करने लगी । सारी द्वारिका उत्सव के रंग में डूब गई । सर्वत्र आनन्द-विनोद, हास-परिहास, प्रसन्नता, उत्साह और स्फूर्ति का मानों नाच होने लगा । सब ने अपनी-अपनी हवस पूरी की ।

ज्ञानी जनों का कथन है कि हर्ष ओर विषाद साथी हैं । जहाँ हर्ष होगा वहाँ विषाद भी आये बिना नहीं रहेगा । जो मनुष्य अनुकूल इष्ट-संयोग पाकर हर्ष की हिलोरों पर नाच रहा है, उसे विषाद के विकराल अन्धकार में विमग्न होना ही पड़ेगा । इसका कारण संसार की अनित्यता है । इष्ट का संयोग

स्थायी नहीं रहता। पर-पदार्थों का सम्पर्क विच्छेदने के लिए ही होता है। यों देखा जाय तो भी जगत् स्वभावतः परिवर्तनशील है। कहा भी है:—

लहरें लोल जलधि हैं अपनी जहाँ आज लहराता ।
हा ! संसार मरस्थल उसको थोड़े दिन में पाता ॥
मनहर फानन में सौरभमय सुन्दर सुमन खिले हैं ।
आँधी के हलके झोंके से अब वे, धूल मिले हैं ॥

जब सागर की जगह मरुभूमि और मरुभूमि की जगह सागर बन जाता है तो हृष के वातावरण की जगह विपाद का वायुमण्डल होते कितना विलम्ब लग सकता है ?

जड़ जगत् चेतन के प्रभाव से प्रभावित होकर और नैसर्गिक परिवर्तन के विषम चक्र में घूमकर पलटता रहता है। उसी प्रकार चेतन जगत् भी जड़ के प्रबल प्रभाव से परिवर्तित होता दिखाई देता है। कर्म जड़ है और अत्यन्त प्रबल है। किसी संसारी जीव की शक्ती नहीं जो उन के फल से छुटकारा पासके। वे क्षण भर में रंग में भंग कर देते हैं, पल भर में हँसते को रुला देते हैं !

रुषिमणी को बाहरी भय नहीं था। किसी मजाल जो पानुदेव के रजवात में प्रवेश करने का साहस कर सके ? फिर भी यह एकदम निर्भय नहीं थी। उसे अपनी साँतों से निरन्तर भय दना रहता था। इसी कारण उसने अपने महल के द्वार पर महान वीर योद्धाओं का सशस्त्र पहरा बिठवा दिया था।


पहरेदार नंगी तलवारें लिये प्रतिक्षण सजग और सावधान रहते थे ।

इस प्रकार पांच दिन व्यतीत हो गये । छठे दिन का सूर्य उदित हुआ और शीघ्र ही अस्त भी हो गया, क्योंकि वह रुक्मिणी के घोर दुःख को देखना नहीं चाहता था ।

रात्रि हो चुकी थी । चहुँ ओर घनघोर तिमिर व्याप्त था । यथासमय वासुदेव सुखपूर्वक शयन करने लगे । निश्चिन्त रुक्मिणी भी निद्रा के अधीन हो गई । उसी समय अशुभ कर्म के उदय में उसके नवजात शिशु का अपहरण करने वाला कौन था, कब और किसी प्रकार उसने महल में प्रवेश किया और किधर से कैसे शिशु की उड़ा ले गया ! ये प्रश्न सबके सामने प्रश्न ही बने रह गये । कोई भी इनका उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका ।

: 8 :

आत्म-निरिक्षण



शिशु का अपहरण होने के अनन्तर जब रुक्मिणी की नींद खुली तो उसने देखा कि बालक उसके पास नहीं है । इधर-उधर दृष्टी दौड़ाने पर भी जब बालक कहीं भी नजर न आया

तो उसके हृदय में शोक और सन्ताप की भयानक ज्वालाएँ दहकने लगीं। वह तत्काल मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी !

रुक्मिणी के गिरते ही उसकी दासियाँ चौंक-चौंक कर उठ बैठी। उन्होंने बालक को न देखकर महारानी की मूर्छा का कारण समझ लिया। तत्काल शीतोपचार करने, मुख पर पानी छिड़कने और ठण्डी हवा करने से उसे होश आया। नगर चित्त में पीड़ा इतनी उग्र और गहरी थी कि वह फिर मूर्छित हो गई। पुत्र का वियोग उसे ऐसी वेदना पहुँचा रहा था जहाँ मर्मस्थान में भाला भीक दिया गया हो। शोकारोह में जाने पर भी उसे शान्ति नहीं थी। हाय लाल ! हे मेरे कल्ले के टुकड़े, तुम कहाँ हो ! ऐसे-ऐसे शोकपूर्ण वचन बहकर रुक्मिणी माथा और छाती कूटने लगी। उल्लास अंग-अंग वियोग की आग में जलने लगा।

रुक्मिणी विलाप करती हुई कहती है 'हा वैद ! तू ने यह क्या किया ? तुझे रंघ मात्र ही क्या न आई ? मेरे लाडले लाल को कहाँ छिपा लिया है ? वह मेरी आँखों का जारा, मेरे प्राणों का प्राण कहाँ है ?

हे लाल ! तू विपदा सुहृन्मर और सुन्दर था ! क्या तेरा हृदय तेरे मरीच के बराबर ही क्रान्त नहीं था ! फिर इस अभागिनी माता पर क्या क्यों न लाया ? हे जहाँ माता को सुखी छँड़कर कहाँ चल दिया ? जहाँ निन्द्य, हृदयहीन ने तुझे मुझसे अलग कर दिया ?

किसी वैरी ने यह कहतुत की है ? कौन है वह पिशाच, जिसने मेरा कलेजा निकाल डाला ! हाय, किसने रंग में भंग कर दिया !

अरे, मैं कितने भ्रम में डूबी ! मैं मानती थी कि इस संसार में मुझसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं है ! मगर आज वही सुख, दुःख बनकर पहाड़ की तरह मेरे मस्तक पर आ पड़ा है ! दुःख के इस पहाड़ को मैं कैसे सहारूँ ?

हे वत्स ! इस जगत् में तुझसे अधिक प्रिय मेरे लिए कौन है ? आज तुझे देखने के लिये दिल तरस रहा है ! आँखें फड़-फड़ा रही हैं । जल के अभाव में मछली की भांति मेरे प्राण तड़फ रहे हैं ।

हाय ! मुझसे अच्छी तो वह पक्षिणी है, वह भाग्यशालिनी है, जिसकी आँखों के सामने उसका अंगजात मौजूद रहता है ! जो चुग्गा ला-लाकर अपने बच्चे का पेट पालती है ! मेरा मनुष्य जीवन किस काम का ? धिक्कार है मेरे नारी जीवन को !

मैं अपनी माता के गर्भ में ही गल गई होती तो आज यह दारुण मनोवेदना न भोगनी पड़ती । दैव ने मुझे पालना तोड़कर या किसी रोग से आक्रान्त करके मारडाला होता तो कितना उत्तम होता ! क्यों मैं जीवित रही ? क्यों वासुदेव की पटरानी कहलाई ? क्यों मैंने ऐसे सुन्दर, सुकोमल कुमार को मेरी कृष्ण से जन्म दिया ? वह तो चार दिन आनन्द

कर गया और मुझे जिन्दगी भर के लिए दुःख के फन्दे में फंसा गया ।

मैं कितनी मूर्ख हूँ कि सत्यभामाजी से होड़ लगाने चली ! मैंने अपने दुर्भाग्य की कल्पना ही नहीं की ! आह मेरा कोई भी तो मनोरथ पूरा नहीं हुआ !

मुझे यह दुस्सह वेदना क्यों सहनी पड़ी ? पूर्व जन्म में मैंने ऐसा क्या पाप किया था ? मैंने पृथ्वी फोड़ी थी ? सरोवर का जल सुखाया था और जलचरों को तड़फड़ाने का अवसर दिया था ? क्या मैंने वन में आग लगाई थी ? अनछना पानी काम में लिया था ? पानी डाल कर आग बुझाई थी ? हरियाली को कुचला था ? अंकुर तोड़े थे ? किस कारण मेरा भाग्य फूटा ?

क्या मैंने अपनी लापरवाही से पहलें अनाज धुनने दिया और फिर उसे तेज धूप में डाला था ? तनिक भी यातना का खयाल नहीं रखा था ? निर्दय होकर अभक्ष्य भोजन राँधा और खाया था ? क्या अनाज के साथ जीव-जन्तुओं को भी पीस डाला था ? मैंने सिर में पैदा हुई जूँओं और लीखों की निर्दय भाव से हत्या की थी ? रात को गोबर इकट्ठा करके रक्खा था ? कीड़ियों के अंडे फोड़े थे ? उदैई का घर तोड़ा था ? क्या मैंने ऐसा कोई कर्म किया था ?

हिरण, बकरी, तोता, चिड़िया आदि की माता से उसके बालक का विलोड्न करने का कारण वनी थी ? मैंने जलचरों

को पकड़ कर पकाया था ? आह ! किस कुकर्म के कारण मुझे यह कष्ट भुगतना पड़ा है ?

क्या मैंने किसी के मर्म का उद्घाटन किया था ? मिथ्या भाषण किया था ? किसी को झूठा कलंक लगाया था ? किसी की धरोवार पचा ली थी ? निन्दा या चुगली की थी ? किसी की प्यारी वस्तु चुराई या छिपाई थी ? सती का शील भंग किया था ? व्यभिचारी की दलाली की थी ? क्रोध करके किसी को पीड़ा पहुंचाई थी ? अहंकार किया था ? मायाचार करके किसी को ठगा था ? अमर्याद ममता की थी ? कौन सा पाप किया था मैंने !

क्या मैंने अपने पुत्र पर राग और दूसरे के पुत्र पर द्वेष किया था ? कपट के साथ झूठ बोला था ? क्या मैंने अपने परिवार में वलेश बढ़ाया था ? त्रस जीवों का घात किया था ? किसी लूले-लंगड़े और बुद्धिहीन का उपहास किया था ? साधुजन की निन्दा अथवा हँसी की थी ? किसी धर्मात्मा या तपस्वी का तिरस्कार किया था ? कसाई आदि घोर कृत्य करने वालों के साथ लेने-देने का व्यवहार करके उन्हें सहाय पहुँचाई थी ? आखिर किस पाप कर्म का यह दुष्फल मुझे भुगतना पड़ रहा है ? मेरी विपत्ति का कारण मैं स्वयं हूँ । मैंने ही कोई चाण्डाल कृत्य किया होगा ।

रविमणी इस प्रकार कह-कह कर करुणा जनक रुदन करने लगी । उसकी हालत पगली की जैसी हो गई । पल में रोती और पल में झरोखे की तरफ दौड़कर जाती और दूर

तक दृष्टि दौड़ाती कि किसी ओर से आकर मेरा लाड़ला गाल दिखाई पड़ जाय ! शोक के आवेग में उसे यह खयाल नहीं था कि पाँच दिन का शिशु किस प्रकार आ-जा सकता है ! जब शिशु किसी और नजर न आता तो फिर मूर्च्छित हो जाती थी ! थोड़ी देर में सावचेत होती तो फिर विलाप करने लगते थी ।

उस समय रुविमणी की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई थी । उसके अपार दुख में सभी दुखी हो रहे थे । परन्तु किसी के पास कोई इलाज नहीं था ! किसी की समझ में नहीं आता था कि यह दुर्घटना किस प्रकार घटी और कैसे इसका प्रतिकार किया जाय !

रुविमणी के महल में भयानक कोलाहल मच गया । श्रीकृष्ण उस कोलाहल को सुनकर शीघ्रता के साथ वहाँ आ पहुँचे । जब शिशु के अपहरण की उन्हें मालूम हुई तो उनके दिल में भी ज्वालाएं उठने लगी ! रोप में आकर उन्होंने कहा—‘किस अप्रापित के प्रार्थी अर्थात् अनिष्ट की कामना करने वाले ने यह दुस्साहस किया है ? किसे इतनी बड़ी विचार की हिम्मत हो सकी है ?’


आगिर श्रीकृष्ण ने रुविमणी को तनल्ली देते हुए कहा—‘प्रिये ! तुम तनिक भी शोक मत करो । मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि कुमार शीघ्र ही मिल सकें । तुम्हारा दुःख, मेरा ही दुःख है और उसे दूर करने का कोई भी उपाय नहीं सीधा जायगा ।’

इस प्रकार सान्त्वना देकर कृष्णजी ने चारों और सवार और पैदल सैनिक दौड़ाये । राजमहलों से लेकर द्वारिका की प्रत्येक झोंपड़ी छनवा डाली, पर कुमार का कहीं पता नहीं चला ! वह कपूर की तरह गायब हो गया !

रुक्मिणी का भवन सुना हो गया । उसे पल भी चैन नहीं । अन्तर्दाह की मारी विलबिलाने लगी । उसके चेहरे पर और उसकी वाणी में भी दीनता आ गई !


रानी सत्यभामा को जब यह संवाद मिला तो उसके हर्ष का पार न रहा । वह सोचने लगी-चलो, साँप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी । अनायास ही मेरा मनोरथ पूरा हो गया । अब मैं अपने कुमार का विवाह करके रुक्मिणी का माथा मुड़वाऊंगी और अपनी साध पूरी कहूँगी ।

अहा ! कर्म की गति कितनी विचित्र है ! एक घर में हर्ष और दुसरे में विषाद हो रहा है ! संसार बड़ा ही विषम है !



: ७ :

अन्वेषण



इसी अवसर पर द्वारिका में नारदजी का पदार्पण हुआ । नारदजी बड़े ही सत्यवान्, पक्के ब्रह्मचारी, गुणवान तथा विद्याओं और करामातों में पूरे थे । पुण्यवानों को सुख उपजाना ही उनका काम था । पृथ्वी और आकाश उनके लिए समान था । देश-देश में घूमना फिरना ही उनका काम था । भारत के इतिहास में नारद के समान घुमक्कड़ व्यक्ति दूसरा नहीं मिल सकता । नाना प्रकार के कौतुक करना उनके बायें हाथ का खेल था । पानी में आग लगा देने—लड़ाई-झगड़ा करा देने की विद्या में वे अत्यन्त निष्णात थे । फिर भी उनका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था । वे मुनि की पदवी से विभूषित थे । उस समय के समस्त नृपतिगण उनका सन्मान करते थे । वे दुखियों का दुःख दूर करने में कुछ भी कसर नहीं रखते थे ।

घूमते-घूमते वे द्वारिका नगरी में पधारे और सीधे कृष्णजी के रनवास में पहुँचे । उनके आने-जाने में कोई रुकावट

नहीं थी। वे सभी के पूर्ण विश्वास-भाजन थे। अतएव निःसंकोच भाव से वे रुक्मिणी के महल में चले गये। कृष्णजी उस समय वही मौजूद थे।

नारदजी को आते देख कृष्णजी ने उनका यथोचित सत्कार किया। रुक्मिणी ने भी उन्हें वंदन किया। उसके हृदय में घोर दुःख था और नेत्रों से आँसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। रुक्मिणी का यह हाल देखकर नारदजी बोले—सदैव फूल की भांति खिली रहने वाली रुक्मिणी आज मुरझाई हुई और शोकसन्तप्त क्यों दृष्टिगोचर हो रही है?

रुक्मिणी के मुख से बोल नहीं निकल सका। उसका हृदय गद्गद् हो आया। कृष्णजी ने कुमार के अकस्मात् अपहरण का वृत्तान्त सुनाया।

नारदजी बोले—बेटी, तू चिन्ता मत कर। तेरे लिए किस चीज की कमी है? तीन खण्ड के नाथ जिसके स्वामी है, उसे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? देख मैं जो कहता हूँ उसमें लेशमात्र भी शंका को स्थान नहीं है। वासुदेव का पुत्र कदापि अधूरी आयु में नहीं मर सकता! मेरा खयाल है की यह मनुष्य का नहीं, देव का काम है। मनुष्य का इतना हीसला हो ही नहीं सकता। पूर्वभ्रव के वैर के कारण किसी देवता ने ही कुमार का अपहरण किया है। बेटी, तू निश्चिन्त रह। मैं अपनी कला के प्रभाव से, थोड़े ही दिनों में तेरे शिशु का मिलाप करा दूंगा। न करा सका तो मेरा नाम नारद नहीं! इस घटना से तेरी सौतों को जितना हर्ष हुआ है, उतना

ही उन्हें विषाद भी भुगतना होगा। मेरा इन वचनों की सत्यता में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ सकता।

इस प्रकार आश्वासन देकर नारदजी आकाश मार्ग से चल पड़े। एक स्थान पर अधिक देर ठहरना उन्हें रुचता ही नहीं था। फिर इस समय तो उन्होंने अपने सिर पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी ले लिया था। द्वारिका से चलकर वे पृथ्वी पर, पर्वतों में, पहाड़ों में और समुद्र में—सर्वत्र अपहृत कुमार की खोज करने में भिड़ गये; पर कुमार का कहीं पता नहीं लगा। अन्त में वे मेरु पर्वत पर पहुँचे और वहाँ से विदेह क्षेत्र में चले गये। विदेह क्षेत्र में श्रीसीमन्धर स्वामी के दर्शन पाकर अत्यन्त हर्षित हुए।

नारदजी ने सीमन्धर स्वामी की तीन प्रदक्षिणा करके, पंचांग नमाकर उन्हें वन्दना की। तीर्थंकर देव के साक्षात् दर्शन करके अपना जीवन धन्य समझा। तीर्थंकर देव का धर्मोपदेश सुनने के लिए वहाँ महती परिषद एकत्र हुई। वहाँ का चक्रवर्ती भी आया। उसने एक जगह नारद को खड़ा देखा। उसे बड़ा कुतूहल हुआ। कहां तो विदेह के मनुष्यों की पाँच सौ धनुष की काया और कहां नारद का उनके मुकाबिले में छोटासा शरीर! नारदजी ऐसे जान पड़ते थे जैसे नर के आकार के छोटे-से कीट हो।

जैसे मनुष्य कीड़े को हथेली पर उठा लेता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती ने नारद मुनि को अपनी हथेली पर रख लिया। वह नारदजी को चकित भाव से, बड़े गौर के साथ देखने लगा।

कहने लगा—यह अनोखा प्राणी कौन है और किस क्षेत्र का है? इसकी छोटी-सी काया बड़ी ही सुहावनी लगती है !

अपने कुतुहल को शान्त करने के लिए चक्रवर्ती ने, तीर्थकर भगवान से पूछा—प्रभो ! इस जन्तु का वृत्तान्त बताने की कृपा कीजिए ?

तीर्थकर ने फरमाया—चक्रवर्त्तिन् ! यह जन्तु नहीं; मनुष्य ही है, मनुष्य भी साधारण नहीं, भरतक्षेत्र के नारद मुनि है। यह शीलवान्, विद्यावान् और गुणवान् है। द्वारिका नगर से यहां आये हैं ! द्वारिका के अधिपति वासुदेव श्रीकृष्ण हैं। उनकी पटरानी रुक्मिणी के ऊपर इनकी प्रीति है। इन्हीं ने श्रीकृष्ण के साथ उसका विवाह कराया था।

इस प्रकार रुक्मिणी और सत्यभामा की होड़ से लेकर कुमार के अपहरण तक का समस्त वृत्तान्त सुनाकर अन्त में सीमन्धर स्वामी ने कहा—नारदजी ने अपहृत कुमार को खोज निकालने की प्रतिज्ञा की है; परन्तु उसका कहीं पता न पानेसे यहां आये है। यहां मुझसे पूछकर पता लगाना चाहते हैं।

तीर्थकर भगवान की यह वाणी सुनकर चक्रवर्ती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया—दैवाधिदेव ! यह वृत्तान्त सुनने के लिए मेरे मन में भी बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हुई है। उस नवजात कुमार का अपहरण किसने किया है? किस कारण से किया है? और वह कुमार अब वहाँ और किस हालत में हैं? उसका अपने माता-पिता से संगम होगा या नहीं? होगा तो कितने

समय के पश्चात् होगा? माता और पुत्र के इस विच्छेद का कारण क्या है? हे प्रभो! अनुग्रह करके मेरा संशय निवारण कीजिए। इस वृत्तान्त को सुनकर जनता पाप-कर्म के बन्ध से भयभीत होगी। जगत का महान् कल्याण होगा।

: ६ :

अपहरण का कारण

तीर्थकर भगवान ने अपनी मेघ-गम्भीर ध्वनि में कहना आरम्भ किया-चक्रवर्तिन्! सुनो। और नारद! तुम भी सुनो। संसारी जीव किस प्रकार कर्मों का बन्ध करता है और किस प्रकार उनका फल उसे भुगतना पड़ता है, यह मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

कौशल नगर के राजा का नाम पद्मनाभ था। धारिणी उसकी रानी थी। राजा और रानी दोनों उत्तम गुणों से विभूषित थे। एक वार धारिणी राणी के उदर में, स्वर्ग से च्युत होकर दो जीवों ने प्रवेश किया। यथा समय युगल के रूप में उनका जन्म हुआ। बड़े का नाम मधु और छोटे का नाम कटभ रखा गया। दोनों भाई भाग्यवान् थे। बाल्यावस्था में उन्होंने विद्या और कलाओं में कुशलता प्राप्त की।

जब उन्होंने यौवन मे प्रवेश किया तो अनुरूप कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। दोनों राजकुमार राजसी वैभव को भोगते हुए सुख में अपना समय व्यतीत करने लगे।

कुछ समय के अनन्तर राजा पद्मनाभ के अन्तःकरण में विरक्ति जागृत हुई। प्राचीन काल के राजा अपने जीवन के अन्तिम श्वास तक भोगोपभोगों मे नही फसें रहते थे। संसार-व्यवहार के अनन्तर वे आत्मा के कल्याण के हेतु संयम ग्रहण कर लेते थे। अणगार वृत्ति अंगीकार करके तपोमय जीवन यापन करते हुए शम, दम, नियम के साथ अपना अन्तिम जीवन सफल बनाते थे। राजा पद्मनाभ ने भी यही विचार किया। अपने ज्येष्ठ पुत्र मधु को राज्य देकर और लघुपुत्र कंटभ को भुवराज पद देकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। मुनि बनकर पद्मनाभ ने खूब ज्ञान-ध्यान किया, उग्र तपश्चरण किया। अल्प काल में ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई।

मधु और कंटभ बड़े तेजस्वी थे। दोनों की जोड़ी बड़ी सुहावनी थी। ऐसे लगते जैसे सूर्य और चन्द्रमा हो! दोनों बलशाली थे और परस्पर प्रीति पूर्वक रहते थे।

एकबार नगर मे कोलाहल सुनकर मधु ने अपने सेवक से कारण पूछा। सेवक ने बताया—राजा भीमसेन अपनी फौज लेकर नगर के बाहर खड़ा है। जो मनुष्य नगर के बाहर जाता है उसे लूट लेता है, और अपने राज्य में ले जाता है। उसके त्रास से प्रजा परेशान है!

भीमसेन के दुस्साहस की बात सुनकर राजा मधु को बहुत क्रोध आया। उसने उसी समय सेना को तैयार होने का आदेश दिया। सेना सजाकर उसने शत्रु पर हमला कर दिया। पृथ्वी को थरता हुआ और दुश्मन के दिल को दहलाता हुआ मधुराज, ज्यों ही भीमसेन का सामना करने चला, भीमसेन भाग खड़ा हुआ। मगर मधुराज सहज ही उसका पिण्ड छोड़ने वाला नहीं था। उसने भीमसेन का पीछा किया। आगे-आगे भीमसेन भागा जा रहा था और पिछे-पिछे मधु चल रहा था।

मार्ग में वटपूर नगर पड़ा। वहाँ का राजा हेमरथ, मधु को सन्मान के साथ अपने महल में ले गया। यथायोग्य स्वागत-सत्कार किया। भोजन का समय हुआ तो हेमरथ ने अपनी रानी इन्द्रप्रभा से कहा—प्रिये ! महाराज मधु सौभाग्य से अपने अतिथि बने हैं। तुम स्वयं उन्हें भोजन परोसना।

रानी ने उत्तर दिया—स्वामिन् ! आपकी यह आज्ञा नीति के विरुद्ध है। राजाओं की दृष्टि अच्छी नहीं होती। अतएव उनके सामने मेरा आना उचित नहीं है। इस बात को टाल देना ही हितकर है।

वास्तव में इन्द्रप्रभा अत्यंत सुन्दर थी। उसका रूप-लावण्य असाधारण था। परन्तु हेमरथ चिढ़ कर बोले—तुम व्यर्थ अभिमान कर रही हो। राजा मधु के अन्तःपुर में तुम्हारे समान तो दासियाँ मौजूद हैं।

आखिर राजा के हट के सामने इन्द्रप्रभा को झुकना पड़ा। वह भोजन परोसने को तैयार हो गई। मगर इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। मधु रानी के रूप-लावण्य को देख कर मुग्ध हो गया।

राजा मधु अपनी सेना के साथ वहाँ से खाना हुआ, मगर उसका मन बटपुर में रह गया। उसे अन्यमनस्क देखकर मन्त्री ने कारण पूछा। तब राजा ने अपने मन की बात खोल कर कही। राजा बोला—मन्त्री, तुम बुद्धीमान् हो, चतुर हो। कोई ऐसा उपाय करो, जिससे इन्द्रप्रभा का मेरे साथ समागम हो सके। उसके बिना मेरा जीवन प्रथम तो रहेगा ही नहीं और कदाचित् रह गया तो नीरस, शुष्क और व्यर्थ होगा।

मन्त्री सचमुच चतुर था। उसने कहा—महाराज ! अभी आपको शत्रु का सामना करना है इस समय आपको वीररस में रंगना चाहिए, परन्तु आप मोह में फँस रहे हैं—श्रृंगाररस में डूब रहे हैं। वीररस और श्रृंगाररस के परस्पर विरोधी भाव में पड़ कर आप न इधर के रहेंगे और न उधर के रहेंगे। जरा विचार तो कीजिए कि आप किस हेतु से निकले हैं ? पहले अपने प्रयोजन को सिद्ध कीजिए और फिर दूसरी बात सोचिए। हाँ, आप जैसे प्रतापी नरवीर के लिए कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। इसका उत्तरदायित्व आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।

मन्त्री का कथन—सुनकर राजा को कुछ तो अपने तात्कालिक कर्तव्य का भान हुआ कुछ विश्वास हो गया कि

मन्त्री इन्द्रप्रभा से मेरा मिलाप करा देगा। अतएव वह निश्चिन्त-सा हो गया।

आखिर मधु राजा ने भीमसेन से युद्ध किया और उसके राज्य को जीतकर अपनी विजय का नगाड़ा बजवाया। इस कार्य से फारिग होते ही इन्द्रप्रभा की रूपराशि उसकी आँखों के आगे नाचने लगी। उसने सेना कौशल नगर भेज दी और मन्त्री के साथ वटपूर जाने की तैयारी की। मन्त्री दीर्घदृष्टि तो था ही, उसने चतुराई से काम लिया। भुलावे में डालकर वह राजा को वटपुर के बदले कौशलपुर ले गया! जब राजा को पता चला तो वह बोला—अरे, तुमने मेरे साथ छल किया! विश्वासघात किया! निश्चित समझो, मन्त्री! उस सुन्दरी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है!

मन्त्री—महाराज! मैं क्षमा चाहता हूँ आपके हित के लिए ही मैंने ऐसा किया है। मेरा अनुरोध है कि आप इस विचार को मन से निकाल दे। परस्त्री सेवन दुःखदायी है। यह सबसे बड़ा पाप है। इस पाप के पापी को इस जीवन में अपयश मिलता है तिरस्कार और घृणा का पात्र होना पड़ता है, लांछना भुगतनी पड़ती है। परस्त्रीगामी पुरुष सबकी नजरो में गिर जाता है। उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। कोई भी उसका आदर-सन्मान नहीं करता। उसकी जिन्दगी निन्दित हो जाती है। महाराज! परस्त्रीलम्पट पुरुष अपने आसपास के वायुमण्डल को भी अपवित्र बना डालता है। वह अपने परिवार के लोगों के समक्ष कुत्सित उदाहरण पेश करता है। अपनी सन्तान के सामने नीच आदर्श रखता है।

महाराज ! आप राजा है । प्रजा के लिए आदर्श है । जब आप ही परस्त्री का सेवन करेंगे तो प्रजा की क्या दशा होगी ? आपके इस व्यवहार को देखकर आपकी प्रजा भी सदाचार से गिर जायगी । आप परस्त्रीलम्पट और व्यभिचारी पुरुषों को किस प्रकार दण्ड दे सकेंगे ? जो स्वयं दुराचारी है, वह दूसरों को कैसे सदाचार के मार्ग पर चला सकता है ?

राजन् ! इस घोर पातक का फल परलोक में भी भोगना पड़ता है । यह नरक का मार्ग है । व्यभिचारी पुरुष को नरक में जाकर बड़ी ही दारुण दातनाएं सहन करनी पड़ती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अन्तःकरण से, उत्पन्न हुए इस अनर्थकारी संकल्प को शीघ्र ही बाहर निकाल दे । क्षणिक आनन्द के लिए अपने इस लोक को और परलोक को न बिगाड़े । अपनी सन्तान परम्परा को लज्जित होने का अवसर न आने दे । नीति शास्त्र कहते हैं :-

वेश्यावत्परकीयदारगमनं शास्त्रे निषिद्धं भृशम्,
यस्मात्तद्वितनोति दुःखमनिशं मानप्रतिष्ठापहम् ।
शुद्धे चापि कुले कलंकनिकरं विस्तारयत्यञ्जसा,
वेरं वर्द्धयते भयं च कुरुते, हन्त्यात्मनः सद्गतिम् ॥

अर्थात्—जैसे वेश्यागमन शास्त्रों में निषिद्ध ठहराया गया है, उसी प्रकार परदारगमन भी अतीव निषिद्ध है । परस्त्रीगमन अनेक दुःखों और संकटों को जन्म देता है । मान और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है । निर्मल कुल में भी कलंक की कालिमा पोत देता है । जिस कुल की स्त्री के साथ दुराचारी गमन

करता है, उस कुल के साथ उसका घोर बैर बढ़ जाता है । उस कुल के पुरुष उसको मार डालने का अवसर खोजते रहते हैं । व्यभिचारो अपने वर्तमान जीवन को कलंकित करके जब मरता है, तब दुर्गति में जाता है और इस प्रकार भव-भव में उसकी आत्मा को अपने पाप का फल भोगना पड़ता है । सद्गति तो उससे दूर ही रहती है ।

मन्त्री फिर कहता है—महाराज ! परस्त्री-सेवन करने काले पुरुषों की क्या गति हुई है, इस पर भी विचार कीजिए । शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं । यथा—

हा नष्टः सह लंकया जितबलः सीतारतो रावणः,

द्रौपद्याः हरणेन दुःखमधिकं प्राप्तश्च पद्मोत्तरः ।

भ्रातृस्त्री निरतो मृतो मणिरथो हत्वा निजं स्रातर—

मन्यस्त्रीरमणोद्यता हतनया ध्वस्तो महान्तो न के ? ॥

अर्थात्—सोने की लंका का अधिपति, परम प्रतापशाली रावण सीता पर मोहित हो गया । परिणाम क्या आया ? उसकी लंका नष्ट हुई, उसका परिवार परम धाम को पहुँचा और अन्त में वह स्वयं भी मारा गया । सती द्रौपदी का अपहरण करके राजा पद्मोत्तर को कितना महान् कष्ट भोगना पड़ा था ? अपने छोटे भाई की पत्नी मदनरेखा पर मोहित हुए राजा मणिरथ ने भाई का वध कर दिया । परन्तु क्या उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई ? नहीं । उसे आनन्द न मिला बल्कि उसका फल उसे खाना गया । उसे कुत्ते की मीठ मरना पड़ा ।

अभिप्राय यह है कि परस्त्रीलम्पट पुरुष, चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो, वह नाश को प्राप्त होता है, वह अन्यायी है। अतएव—

परदारा न गन्तव्यो, पुरुषेण विपश्चिता ।

यतो भवन्ति दुःखानि, नृणां नास्थत्र संशयः ॥

अर्थात्—बुद्धिमान् पुरुषों को परस्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विविध प्रकार के दुःखों की उत्पत्ति होती है। यह एक ऐसी सचाई है, जिसमें लेशमात्र भी संशय नहीं किया जा सकता।

मन्त्री ने फिर कहा—पृथ्वीनाथ ! मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस कुविचार को त्याग दें और अपनी तथा अपने पूर्वजों की कीर्ति को अक्षुण्ण रखें।

राजा मधु अपने नीतिनिपुण मन्त्री का परामर्श सुनकर भी सही राह पर नहीं आया। वास्तव में जब मनुष्य कामान्ध हो जाता है, विषय-वासना से उसकी विचारशक्ति नष्ट हो जाती है, तब उसे भला-बुरा मार्ग नहीं सूझता। उसकी सद्भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह हितकर वचनों पर भी कान नहीं देता। राजा मधु बोला—मन्त्री, तुम्हारा कहना उचित है, किन्तु टोल पर टाँची नहीं लगती ! मेरा मन उस सुन्दरी में अनुरक्त हो चुका है। किसी न किसी उपाय से उसे प्राप्त करना ही होगा। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता।

राजा का यह उत्तर सुनकर मन्त्री चुपचाप अपने घर चला गया। राजा रात-दिन इसी चिन्ता में लीन रहने लगा। एक-एक घड़ी उसे एक-एक युग के समान प्रतीत होने लगी। धीरे-धीरे वसन्त ऋतु का आगमन हुआ। राजा ने वसन्त महोत्सव मनाने की आयोजना की। उसने राजा हेमरथ को सपत्नीक आने का आमंत्रण भेजा और आग्रह तथा अनुरोध भी किया। राजा हेमरथ, मधु का आमंत्रण पाकर प्रसन्न हुआ। उसने रानी इन्द्रप्रभा को तैयारी करने की सूचना की। रानी को आशंका हुई कि इसमें मधु की कोई दुरभिसंधि है। अतएव उसे बड़ी चिन्ता होने लगी। उसने कौशलपुर न जाने का विचार किया। परन्तु हेमरथ नहीं मनाता। रानी के बहुत समझाने पर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा। आखिर राजा और रानी कौशलपुर आ पहुँचे।

वसन्तोत्सव समाप्त होने पर मधु ने कोई बहाना करके इन्द्रप्रभा को वहीं रख लिया और हेमरथ को विदा दे दी। मानव मन बड़ा निबल होता है। नीचे गिरते उसे विलम्ब नहीं लगता। मधु ने किसी प्रकार इन्द्रप्रभा को फुसला लिया और अपनी पटरानी बना लिया। अब वह निश्चिन्त होकर उसके साथ भोग भोगता हुआ रहने लगा।

बिना विचारे कार्य करने वाले हेमरथ को जब इस घटना का पता लगा तो मोह के कारण वह विक्षिप्त-सा हो गया। राज-पद की मर्यादा और लज्जा को त्यागकर वह वटपुर से खाना हो गया! कौशलपुर में आकर 'प्रिया! हाय प्रिया!

मेरी प्यारी' आदि बड़बड़ाता हुआ वह गलियों में चक्कर काटने लगा। लोगों ने पगला समझकर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह जिधर भी जाता, लड़कों की टोली उसके पीछे हो जाती थी। वह 'प्रिया-प्रिया' की धुन लगाये इधर-उधर भटकता फिरता था। उसके बाल और नाखून बढ़ गये थे, कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो गये थे, शरीर पर मैल के पलस्तर जम गये थे! उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह राजा हेमरथ है! वह अब साधारण पागलों की श्रेणी में आ गया था!

कौशलनगर की गलियों में चक्कर लगाता-लगाता हेमरथ एक दिन राजमहल के पास से निकला। रानी की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपने स्वामी को पहचान लिया और दासी को भेजकर अपने पास बुलवा लिया। राजा हेमरथ, अपने प्रियतम, की यह दशा देखकर रानी को बहुत दुःख हुआ वह मार्मिक आघात से विकल हो उठी। उसे अपने ऊपर तीव्र घृणा हुई। मगर जो कुछ हो चुका था, उसे बदलना सम्भव नहीं था। इन्द्रप्रभा ने हेमरथ से कहा राजन्! अब वृथा भटकने से क्या लाभ है? मैंने पहले आपको बहुत समझाया था। मगर आपने मेरी एक न मानी। इसी कारण यह दुःख भुगतने का अवसर आया है। अब पिछली बातों को भूल जाना ही हितकर है। इस असार और क्षणभंगुर संसार में न कोई किसी का प्रिय है, न कोई किसी की प्रिया है। इस प्रकार पागलों की भांति घूमने से कोई लाभ नहीं है। अपनी जगह चले जाओ और शान्ति पूर्वक रहो। बीती को भूलो। राजा मधु को

तुम्हारा इस प्रकार घूमना सहन नहीं होगा। मालूम होने पर तुम्हें प्राण गँवाना पड़ेंगे।

इन्द्रप्रभा की बातों से हेमरथ समझ गया कि अब इस जीवन में वह मुझे नहीं मिल सकती। उसकी वाणी में स्नेह और ममता नहीं है; रुखाई है और घमकी है! अतएव वह अत्यन्त क्रोध में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। अब उसने नगर में चक्कर काटना बंद कर दिया। वन में जाकर तापस हो गया।

इधर राजा मधु, इन्द्रप्रभा रानी पर अत्यन्त आसक्त हो रहा था। वह क्षण भर के लिये भी उसका संग नहीं छोड़ता था उसने राज-काज की भी उपेक्षा कर दी थी। इसी समय एक घटना घटी।

एक दिन मधुराज का 'तलवर' एक जार पुरुष को पकड़कर लाया। मधु के सामने उसे पेश किया गया। व्यभिचार करने के अपराध में राजा ने उसे फाँसी की सजा दे दी।

इन्द्रप्रभा ने राजा से प्रश्न किया—महाराज! इस पापी ने परनारी की लज्जा लूटी है। वह व्यभिचारी है। व्यभिचार बठारह पापों में घोर पाप है। व्यभिचार से समाज में अशांति भी बढ़ती है। इसी कारण इसे प्राणदण्ड दिया गया है।

इन्द्रप्रभा—महाराज! पाप सबके लिए पाप है या नहीं? अगर सबके लिये पाप है तो फिर बड़े आदमी उनका दण्ड क्यों नहीं भोगते? क्या निर्दोषों और निर्दोषों के लिए ही दुष्-पाप की व्यवस्था है? क्या सबके लिये इस व्यवस्था में दण्ड है?

मधु—तुम्हारा अभिप्राय क्या है ?

इन्द्रप्रभा—मेरा अभिप्राय तो स्पष्ट ही है महाराज ! मैं भी परस्त्री हूँ । आप दूसरों का न्याय करते हैं । दूसरों का अपराध देखते हैं तो अपना भी अपराध क्यों नहीं देखते ?

इन्द्रप्रभा के वचन मधु के कलेजे में तीर की तरह चुभ गये । इन्द्रप्रभा पर क्रोध नहीं आया, अपने प्रति ही घृणा उपजी । वह सोचने लगा—वास्तव में मैं बड़ा अधम हूँ ! मैंने परस्त्रीगमन करके अपनी आत्मा को कलुषित किया है ! अपने कुल की विमल कीर्ति में कालिमा लगा दी है ! पूर्वजों के यश को मलीन किया है ! राजा को प्रजा के समक्ष आदर्श उपस्थित करना चाहिए था, परन्तु मैंने अत्यंत अर्वाँछनीय उदाहरण उपस्थित किया है ! मैं कलंकी हूँ, मुझे धिक्कार है ! !

इस प्रकार मधु ने आत्मनिन्दा करके लम्पटता का परित्याग किया । वह जिन धर्म की ओर आकृष्ट हुआ । मधु ने सोचा—वीतराग प्रभु के द्वारा उपदिष्ट धर्म ही पतितों को पावन बनाने वाला है । उसी की आराधना करके पापों का क्षय किया जा सकता है । अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए जिनधर्म की शरण में जाना ही उपयुक्त है ।

इसी बीच एक दिन राजमहल में मुनिराज भिक्षा के लिए पधारे । मधुराज ने पवित्र और उदार भाव से उन्हें निर्दोष भिक्षा दी । आहार-दान देने में उसे महान पुण्य का बंध हुआ । उसने अपना जीवन धन्य माना । सोचने लगा—आज का दिन मेरे जीवन में धन्य है ! मुनिराज भिक्षा ग्रहण करके अपने स्थान पर चले गये ।

दूसरे दिन राजा मधु अपने छोटे भाई कैटभ के साथ मुनिराज को वन्दना करने गया। मुनिराज ने प्रभावशाली शब्दों में उपदेश सुनाया। उस उपदेशका दोनों भाइयों पर गहरा असर पड़ा। दोनों को वैराग्य हो गया। विरक्त भाव धारण करके दोनों वापिस लौटे। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य-भार सौंप कर और दुनिया से नाता तोड़कर, दीक्षा-धारण करके मुनि बन गये।

पुण्यवान्-पुरुष कर्म के प्रबल उदय से कभी गिर जाते हैं तो उठने में भी उन्हें देरी नहीं लगती। राजा मधु को भोगी से योगी बनते देर नहीं लगी। वह पहले जैसे भोग में आसक्त थे, वैसे ही अब योग में आसक्त हो गये। अब मधु मुक्ति-शुद्ध संयम का पालन करते हुए ज्ञान ध्यान में लीन रहने लगे। कैटभ अणगार भी इसी प्रकार संयम का पालन करते रहे। अन्त में आलोचना करके और संथारा धारण करके बारहवें देवलोक में देवरूपसे उत्पन्न हुए।

रानी इन्द्रप्रभा ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। वह साध्वी हो गई और साध्वी-धर्म का पालन भी करने लगी, मगर उसके अन्तःकरण में कपट का अंश विद्यमान रहा फिर भी तपस्या के प्रभाव से उसे भी देवगति और दिव्य ऋद्धि प्राप्त हुई।

राजा मधु का जीव देवलोक के अनुपम सुखों को भोगने के पश्चात् पूर्वोपाजित पुण्य के प्रभावसे रुक्मिणी के उदर से

उत्पन्न हुआ है। मुनि को आहार-दान देने के कारण उसे उदार और विपुल वैभव की प्राप्ति होगी। मगर विरक्ति के संस्कार विद्यमान होने से वह अंत में संयम धारण करके संसार-सागर से तिर जायगा, असीम, अव्यावाघ सुखमय मोक्ष को प्राप्त करेगा।

कैटभ का जीव जाम्बवती की कूख से पुत्र रूप में उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न का मित्र होगा।

इन्द्रप्रभा का जीव विद्याधरों की श्रेणी में, यमसंवर विद्याधर की पत्नी के रूप में जन्म लेगा। उसका नाम 'कनकमाला' होगा। हेमरथ का जीव क्रोध के आवेश में मृत्यु को प्राप्त होकर संसार-भ्रमण करता-करता तापस होकर कायाक्लेश के प्रभाव से असुरकुमार देवता हुआ है। उसका नाम 'धूमकेतु' है।



: ७ :

उद्धार

असुर धूमकेतु एक बार अपने विमान में बैठकर सैर करने निकला। धूमता-फिरता वह रुक्मिणी के महल के ऊपर होकर जाने लगा तो उसका विमान अचानक ही स्तंभित हो गया। विमान को रुका हुआ देखकर धूमकेतु चौंक उठा। वह

सोचने लगा—मेरी विद्या का अपहरण कैसे हो गया ? क्या यहां मेरा कोई शत्रु विद्यमान है ? अथवा कोई साधु, सती या केवली हैं ? उसने अवधिज्ञान का प्रयोग किया और उसे पता चल गया कि मधु राजा का जीव यहां रुक्मिणी के गर्भ से जन्मा है ! यह मेरा पूर्वभव का शत्रु है ! इसने मेरी पत्नी का मुझसे वियोग कराया था तो मैं इसकी माता से इसका विछोह कराकर बदला क्यों न लूं ? उसे सभी पुरानी बातें स्मरण हो आईं । क्रोध के कारण उसका खून खौलने लगा । आँखें लाल हो गईं । मधु का व्यवहार उसके हृदय में भाले की नोंक की तरह चुभकर व्यथा पहुंचाने लगा । उसका क्रोध भयानक हो उठा । वह काल की तरह विकराल बन गया ।

धूमकेतु फिर सोचने लगा—इस पापी ने मेरी प्रिया का हरण किया था और मुझे घोर वेदना पहुंचाई थी । इसने मुझे सताने में कुछ कसर नहीं रखी । अब यह मेरे वश में है । मैं इसे ऐसी पीड़ा पहुंचाऊंगा कि व्याज समेत बदला चुक जाय !

इस प्रकार सोचकर और क्रोध के अधीन होकर धूमकेतु रुक्मिणी के महल में पहुंचा । अदृश्य होकर उसने कुमार का अपहरण किया और वहां से चल दिया । कुमार के अपहरण की बात किसी ने जान ही नहीं पाई ।

आकाश में जाते जाते धूमकेतु उस कुमार से कहने लगा—
‘रे दुष्ट ! अधम ! पापी ! अब अपनी करतूत का फल चखना ।
पहले तो तू समर्थ था और मैं बदला नहीं ले सकता था ।

परन्तु अब मैं तेरा काल हूँ । तू मेरी मुट्ठीमें है । तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि याद रखेगा !'

धूमकेतु कुमार को वैताढ्य गिरि की ओर ले गया । वैताढ्य की तलहटी में एक लम्बी-चौड़ी झाड़ी थी । उसमें खूब गहरा गढ़हा खोद कर उसने कुमार को रख दिया । ऊपर से बावन हाथ की भारी शिला रख दी । इस प्रकार कुमारको गहरा गाड़कर वह बोला—ले बच्चू अपने किये का फल भोगो ! तुमने जो बीज बोया है, उसके फल चखो !'

सचमुच्च कर्म बड़े कठोर है । वे किसी का लिहाज नहीं करते । कहा है—

अवश्यं ह्यनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

जिस जीव ने शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म किये हैं, उनका फल उसे भोगना ही पड़ता है । फल भोगे बिना छुटकारा नहीं ।

‘कडाण कम्नाण न मोक्ख अत्थि ।’

देखो, प्रद्युम्न परम प्रतापी, तीन खण्ड के अधिपति और प्रचण्ड शक्ति से सम्पन्न वासुदेव श्रीकृष्ण का पुत्र है । फिर भी उसके अशुभ कर्मों ने उसे नहीं छोड़ा । शत्रु के हाथ में पड़कर माता-पिता से उसे वियुक्त होना पड़ा और संकट में पड़ना पड़ा । मगर पाप के पश्चात् उसने धर्म और पुण्य का भी खूब उपार्जन किया था । उसके प्रताप से उसे पूर्णायु की प्राप्ति हुई थी । वह चरम शरीरी जीव था । चरम शरीरी जीव की असमय

में मृत्यु नहीं होती। कुमार के पुण्यप्रताप से वह दैत्याकार शिला भी फूल के समान हल्की हो गई। शिला के नीचे कुमार किलोलें करने लगा। कुमार के श्वासोच्छ्वास के कारण वह शिला हिलने लगी।

रजतगिरि की दक्षिण श्रेणी में मेघकूट नामक शहर है। वहाँ का विद्याधर राजा यमसंवर था। उसकी पत्नी का नाम कनकमाला था। राजा और रानी अपने विमान में बैठकर सैर करने निकले और उड़ते-उड़ते मानो कुमार के पुण्य से ही आकृष्ट होकर उसी अटवी में आ पहुँचे। उन्होंने दूर से ही हिलती हुई शिला देखी। उनके आश्चर्य का पार न रहा। इतनी भारी शिला का अपने आप हिलना अद्भुत बात थी। अतएव उनका चकित हो जाना भी स्वाभाविक ही था।

राजा और रानी को शिला के हिलने का कारण जानने की बड़ी उत्कंठा हुई। दोनों शिला के पास पहुँचे। खूब गौर से आस पास देखने पर भी कुछ समाधान नहीं हुआ। आखिर राजा ने उस शिला को हटाया तो उसके नीचे किलोल करते हुए एक नवजात बालक को देखा, बालक बड़ा ही मनोहर और सुन्दर था, इतना सुन्दर कि मानों साक्षात् कामदेव ही हो! वह तरह तरह की क्रीड़ाएँ कर रहा था। उसकी मनोहारिणी क्रीड़ाएँ देखकर राजा और रानी को अपूर्व हर्ष हुआ। उनके नेत्र निहाल हो गये जीवन धन्य हो गया। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे-अद्भुत रूप है! अद्भुत घटना है। यहाँ सभी कुछ अद्भुत है! न जाने यह पुण्यशाली बालक कौन

है ? कहाँ का है ? इस प्रकार कहते हुए उन्होंने बालक को अपनी छाती से लगा लिया ।

बालक का सर्वाङ्गीण सौन्दर्य अत्यन्त हृदयहारी था । उसके बाल भीरे के समान कृष्णवर्ण, बहुत बारीक, कोमल और दक्षिणावर्त्त थे । मस्तक के ऊपर वे अपूर्व शोभा दे रहे थे । उसका भाल अष्टमी के चन्द्रमा जैसा था । काली-काली भौंहे कमान की भांति नमी हुई थी । कान कदम्ब के फूल के आकार के और नयन कमल पत्र के समान लम्बे-लम्बे थे । बालक की नाक कीर के समान सरल और तीखी थी । मुख पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान सौम्य और प्रशस्त था । उसके होटो में अपूर्व लालिमा थी । वह कंबु-ग्रीव, उन्नत-वक्षस्थल, और लम्ब बाहु था । उसकी जंघाएं हाथी की सूंड सदृश थी । अभि-प्राय यह कि बालक के शरीर का एक भी अंग अनिष्ठ या अप्रशस्त नहीं था । शरीर का वर्ण सुनहरा था । नवनीत के समान मृदुल स्पर्श था । उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता ।

बालक में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सभी प्रशस्त लक्षण विद्यमान थे । कही किञ्चित् भी न्यूनता नजर नहीं आती थी । बालक का देखकर सभी का मन आकृष्ट हो गया है, फिर वह बालक तो असाधारण, अनुपम और अद्वितीय सुन्दर तथा मनोहर था । रानी कनकमाला उसे देखकर सर्वतोभावेन समर्पित हो गई । उसकी मातृ-हृदय की सुकोमल भावनाएं जागृत हो गई । बालक को उठा कर कंठ से लगा लिया और उसके कपोलों

को एवं मस्तक को बार-बार चूमने लगी । उसे चूमते-चूमते तृप्ति ही नहीं होती थी ।

उस समय राजा बोला—प्रिये ! यह बालक तुम्हारे लिए देवी उपहार है । इसे आत्मीय रूप में ग्रहण करो । यह तुम्हारी समस्त सौतों के पुत्रों में शिरोमणि है । इससे हमारे कुल की परम्परा, प्रतिष्ठा और कीर्ति में वृद्धि होगी । इतना कहकर राजा ने उसी समय उसे युवराज का पद प्रदान कर दिया । रानी कनकमाला के हर्ष की सीमा न रही । उसने अपने आपको धन्य समझा ।

कनकमाला ने चिन्तामणि रत्न के समान उस बालक को ग्रहण किया । उसे अपूर्व शान्ति और तृप्ति की अनुभूति हुई ।

आखिर राजा और रानी बालक को लेकर वहाँ से रवाना हुए । बालक की प्राप्ति को गुप्त रखकर उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि रानी गूढगर्भिणी थी । उसके गर्भ के लक्षण प्रकट नहीं हुए थे । अब उसने पुत्र का प्रसव किया है ।

इस घोषणा के पश्चात् राजा ने पुत्र-जन्म का उत्सव मनाया । बन्दियों को कारागार से मुक्त कर दिया और याचकों को मनमाना दान दिया । सर्वत्र हर्ष और आनन्द की लहरे लहराने लगी । बारहवें दिन राजाने अपने पारिवारिक जनों को आमन्त्रित करके भोजन आदि से उनका यथायोग्य सत्कार किया और 'यह बालक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे' इस शुभ कामना के साथ बालक का नाम 'प्रद्युम्न' रखा ।

इस आशय का वृत्तान्त सुनाकर अन्त में केवली भगवान् बोले—सोलह वर्ष व्यतीत हो जाने पर, सोलह लाभ प्राप्त करके

वह बालक अपने माता-पिता से मिलेगा । कुमार जब माता-पिता से मिलने वाला होगा, तब यह लक्षण प्रकट हो जाएंगे—सूखा तालाब जल से परिपूर्ण हो जायगा, कमलों पर भ्रमर गुञ्जार करने लगेंगे, सूखे वृक्ष हरे-भरे हो जाएंगे और बिना ऋतु के भी फलों-फूलों के भार से नम्र हो जाएंगे । मयूर नृत्य करने लगेंगे और कोकिला अपनी कर्णकान्त कूक से दिग-दिगन्त में माधुरी बिखरने लगेगी । गूंगों को स्वतःवाणी प्राप्त हो जायेगी और अंधों को नेत्र मिल जायेंगे । कुरूप व्यक्ति सुरूप बन जायेंगे । खेत में धान्य लहलहाने लगेंगे । कुमार पर नजर गिरते ही माता के स्तन दूध से भर जाएंगे । हे ऋषि नारद ! और हे चक्रवर्तिन् ! यह लक्षण कुमार प्रद्युम्न के आगमन की सूचना देंगे ।

तीर्थंकर की यह वाणी सुनकर भव्य जीवों की प्रतिबोध की प्राप्ति हुई । उन्होंने वैर-विरोध का त्याग करके आपस में क्षमा का आदान-प्रदान किया । सीमन्धर स्वामी का जय-जयकार होने लगा । प्रभु संशय का उसी प्रकार निवारण करने वाले थे, जैसे सूर्य अंधकार का निवारण कर देता है । प्रद्युम्न का पुण्य चरित्र सुनकर सभी श्रोता उल्लास का अनुभव करने लगे ।

नारद ने तीर्थंकर को यथाविधि वन्दन-नमस्कार किया । उन्हें कुमार को देखने की उत्कंठा उत्पन्न हुई और उसी समय वहां से उड़कर राजा यमसंवर और रानी कनकमाला के पास पहुंचे । रानी और राजा ने ऋषि के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम किया । तत्पश्चात् नारद ने कहा—बहिन,

गूढ गर्भ से तुमने जिस पुत्र को प्रसव किया है उसे मैं देखना चाहता हूँ।

कनकमाला ने प्रद्युम्न को नारद के चरणों में रखते हुए कहा—यह आपके चरणों का प्रसाद है।

प्रद्युम्न के शरीर के लक्षण और तिल-मस आदि व्यंजन देखकर नारद ऋषि अतीव प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा—चिरंजीव रहो अपनी माताकी कामना पूर्ण करो।

इसके अनन्तर नारद मुनि आकाश-मार्ग से वहाँ से खाना होकर द्वारिका आ पहुँचे। हरि और रुक्मिणी के लिए पल-पल युग के समान प्रतीत हो रहा था। नारद के आते ही उनकी उत्कंठा प्रबल हो उठी। नारद ने प्रद्युम्न के पूर्वभव से लेकर अन्त तक का समस्त वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया। वृत्तान्त सुनकर दम्पती को अपूर्व हर्ष हुआ। पुत्र-मिलन की आशा से उनमें जैसे नवीन चेतना जागृत हो गई।

आशा जीवन जगत में, आशा थी सुख होय !

संसारी प्राणी आशा का अवलम्बन करके महान से महान विपत्ति को हंसते-हंसते सह लेते हैं। आशा के सहारे ही उनका जीवन-सूत्र अखण्डित रहता है। संकट के समय में, जब मनुष्य चारों ओर से अन्धकार में डूब जाता है, भविष्य की आशा का प्रकाश ही उसका पथ-प्रदर्शन करता

है। रुक्मिणी भी आशा के आधार पर ही अपना कालक्षेप करने लगी। वह एक-एक दिन की गणना करने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कब सोलह वर्ष पूरे हों और कब मैं अपने लाल का मधुर मनोहर मुखड़ा देखूं। उधर कुमार आनन्द-पूर्वक दूज के चन्द्रमा के समान वृद्धि करने लगा।

: ८ :

बाल्यकाल

कनकमाला राजा यमसंवर की छोटी रानी थी और राजा उसे सब से अधिक चाहता था। कुछ तो इस कारण और फिर प्रद्युम्न स्वयं ही अत्यन्त पुण्यवान् और सुन्दर था, इस कारण भी राजा को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता था। प्रद्युम्न के पुण्य प्रताप से राज्य की वृद्धि हो रही थी। गज और बाजि बढ़ते जा रहे थे, शत्रु दबते जा रहे थे। कुमार का रूप-वैभव देखकर सज्जनों का चित्त स्वतः उनकी ओर आकृष्ट हो जाता था और बहुत प्रसन्न होता था।

जब बालक का शैशव-काल समाप्त हो गया और उसमें समझ आ गई तो कलाचार्य के पास भेजकर उसे कलाओं की शिक्षा दी गई। थोड़े ही दिनों में कुमार कलाओं में कुशल हो गया। उसने पुरुष की बहत्तर कलाओं में प्रवीणता

प्राप्त कर ली। गहरी लगन के साथ राजनीति और धर्मनीति का अध्ययन किया। अठारह प्रकार की लिपियाँ सीखीं। इस प्रकार वह शास्त्रविद्या में भी पारंगत हो गया।

शनैः शनैः प्रद्युम्न कुमार ने कुमारावस्था को भी पार करके युवावस्था की प्रथम सीढ़ी पर पांव रक्खा। माता-पिता उसके विवाह के मसूचे करने लगे। प्राचीन काल में इस बात का ध्यान रक्खा जाता था कि पुत्र का विवाह सम्बन्ध समान रूप, समान गुण और समान शील वाली कन्या के साथ ही किया जाय। आजकल की भांति धन-सम्पत्ति की विवाह में प्रधानता नहीं थी। उस समय के लोग जानते थे कि अनुरूप साथी से ही जीवन सुखमय बन सकता है। पति को विरुद्ध स्वभाव वाली पत्नी और पत्नी को विपरीत स्वभाव वाला पति मिल जाय तो शान्ति और सुख की संभावनाएँ नष्टप्रायः हो जाती हैं। प्रभूत धन और वैभव भी उस स्थिति में मनुष्य को सुखी नहीं बना सकता।

यह ठीक है जब नर और नारी आपस में दाम्पत्य के बंधन में बंध चुके हों तब उनमें से प्रत्येक का कर्त्तव्य है कि वह अपने साथी के अनुरूप बनने का प्रयत्न करे, एक दूसरे को प्रीतिपूर्वक निम्नाने की सर्वतोभावेन चेष्टा करे। ऐसे करने से ही दोनों का जीवन सुखमय और शान्तिमय बन सकता है। किन्तु माता-पिता का कर्त्तव्य तो यही है कि वे धन या दहेज की लालसा को दबा कर अपनी सन्तान के लिए अनुरूप नर या नरू का ही चुनाव करें।

प्रद्युम्नकुमार के माता-पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे ! प्रद्युम्न जैसे असाधारण बेटे के लिए वैसी ही कन्या का मिलना सहज बात नहीं थी । फिर भी उनकी आकांक्षा तो यह थी कि अधिकसे अधिक योग्य कन्या की तलाश की जाय ।

इसी बीच कुमार ने एक दिन राजा यमसंवर के पास जाकर कहा—‘पिताजी, मैं दिग्विजय करना चाहता हूँ मुझे सेना दीजिए । मेरी तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपको विजयपताका फहराकर आपके यश और राज्य का विस्तार करूँ । उसी पुत्र का जीवन सफल है जो अपने पिता की मौजूदगी में ही अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है और अपने माता पिता को संतोष पहुंचाता है ।’

यमसंवर—कुमार ! अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है । तुम्हारा शरीर सुकुमार है । युद्ध करना सरल नहीं है, बड़ा ही दुष्कर कार्य है । जल्दी क्या है ? थोड़ा और बड़ा होने पर दिग्विजय करना । अभी सुख से रहो ।

प्रद्युम्न—पिताजी, उम्र मे छोटा होने पर भी आपके अनुग्रह से बुद्धि और बल विक्रम मे छोटा नहीं हूँ । आप आज्ञा दीजिए और देखिए कि मैं बड़े बड़े भूपालों के भाल आपके चरणों मे झुकवाता हूँ या नहीं ! मैं सभी श्रेणियों को अपने आधीन करूंगा, तभी अपनी माँ का सुपूत कहला सकूंगा ।

यमसंवर कुमार की वीरतापूर्ण वाणी सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्न हुआ । उसने हर्षित होकर क

हुई। कुमार जहाँ पहुँचता, अपने दूत को भेजकर पहले ही सन्देश पहुँचा देता था की—या तो हमारी अधीनता अंगीकार करो या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मन की हवस मन में मत रखना।

कई शक्तिशाली राजा उसका सामना करने आये, अपना दल-बल लेकर उससे जूझे। मगर प्रद्युम्न के सामने कोई भी नहीं टिक सका। उसकी विजली की तरह चमकती हुई तलवार के आगे सभी चाँधिया गये। आखिर प्रद्युम्न माधव का बीज था। उसमें कमी क्या हो सकती थी? वह बड़ा शूरवीर और साहसी था। उसने जवरदस्त शत्रुओं का भी शान के साथ मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। शत्रु राजा कुमार के अमित तेज, असाधारण पराक्रम और अनुपम युद्ध कौशल को देखकर चकित रह जाते थे। मन ही मन साँचते थे—यह बालक, बालक क्या युद्ध की ज्वाला हैं।

इस प्रकार अनेक संग्राम करके कुमार ने कितने ही राजाओं को बाँध लिया, कितनेक को अपने चरणों में झुकाया और कितनेक को काल के गाल में पहुँचा दिया। उसने अपनी समस्त सीमाओं पर विजय प्राप्त की और प्रचंड शक्तिशाली राजाओं को भी पराजित किया। अपने पिता की आन बचाई और प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाये। पिता की ऋद्धि की वृद्धि की और सेना की भी वृद्धि की।

इस प्रकार विजय प्राप्त करके वीर शिरोमणी प्रद्युम्न वापिस लौटा। अपनी विजय के नगाड़ों की ध्वनि से आकाश

को पूरित करता हुआ कुमार अपनी नगरी के समीप आ पहुँचा ।

राजा यमसंवर को कुमार के आगमन का समाचार मिला तो उनके आनन्द का पार न रहा । हर्ष से हृदय भर गया । गर्व से छाती फूल उठी, सचमुच वे पुरुष धन्य है जिन्हें ऐसे शूरवीर और सद्गुणी पुत्र प्राप्त होते हैं । जिसे एक भी ऐसा सुपुत्र प्राप्त हो जाता है, वह जगत् में अतीव भाग्यशाली है । नीतिकार कहते हैं—

एकोऽपि गुणवान् पुत्रो, निर्गुणैः किं शतैरपि ।

एकश्चन्द्रो जगच्चक्षुर्नक्षत्रैः किं प्रयोजनम् ?

निर्गुण पुत्र अगर सौं हो तो उनसे क्या लाभ है ? एक पुत्र यदि गुणवान् है तो बस है । अकेला चन्द्रमा जगत में अपूर्व प्रकाश प्रसारित कर देता है नक्षत्र बहुत होते हैं, पर वे किस काम के ? और भी—

एकेनापि सुपुत्रेण, सिंही स्वपिति निर्भयम्

सहैव दशभिः पुत्रैर्भरिं वहति रासभी ॥

सिंहनी एक ही पुत्र को प्रसव करके भी उसके बल पर निर्भय होकर सोती है—निडर रहती है । मगर उस गर्दभी को तो देखो जिसने दस बच्चे एक साथ पैदा किये हैं और जो उनके साथ ही बोझा ढोती रहती है !

जिस पुत्र के उत्पन्न होने पर माता-पिता के मन में निश्चिन्तता नहीं आई, जो अपने जनक और जननी को सन्तुष्ट

न कर सका, उस पुत्र का जन्म लेना निरर्थक है। इसके विरुद्ध वह पुत्र वास्तव में सुपुत्र है और उसका जन्म सार्थक है, जो अपने बल-पराक्रम से अपने सद् व्यवहार से और अपनी बुद्धि के वैभव से माता-पिता को सन्तुष्ट और प्रसन्न करता है।

प्रद्युम्नकुमार अन्तिम श्रेणी में प्रथम गणना करने योग्य सुपुत्र था। उसके कार्य-कलाप माता-पिता को आनन्द देने वाले थे। राजा यमसंवर को ज्योंही विजय लक्ष्मी के साथ प्रद्युम्न के आगमन का संवाद मिला, वह तत्काल उसके सामने चल दिया। उसे बहुमूल्य मोतियों से बधाया ! प्रीतिपूर्वक छाती से लगाया। कुमार ने शान-शौकत के साथ नगर में प्रवेश किया। नगर-निवासीजन कुमार के अपूर्व तेज को देखकर बाह-बाह करने लगे, सभी कुमार की यशोगाथा गाने लगे।

इस प्रकार जब दूसरे लोक भी कुमार को देख-देख कर प्रसन्न हो रहे थे तो माता-पिता का तो कहना ही क्या है ? वास्तव में यह सब पुण्य की महिमा है। पुण्य के प्रताप से मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है, सर्वत्र आदर पाता है। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। वह सभी के लिए स्पृहणीय हो जाता है।

राजा यमसंवर ने विचार किया—यद्यपि कुमार को वन में युवराज पद दिया जा चुका है, तथापि जब सर्वसाधारण के समक्ष, प्रजा के पदाधिकारियों की और परिवारिक जनों की साक्षी से भी उसे युवराज पद प्रदान करना उचित है। इस प्रकार विचार करके कुमार को खूब आडम्बर के साथ—बड़ी

धूमधाम के साथ—राजा ने युवराज-पद प्रदान कर दिया । राज्य का उत्तरदायित्व उसके हाथों में सौंप दिया गया । इस आनन्द-अवसर पर याचकों को विपुल दान दिया गया और इस कारण याचकों में भी कुमार की कीर्ति फैल गई ।

कुमार प्रद्युम्न के सद्गुणों का सौरभ दिनोदिन फैलता जा रहा था । उसके रूप, तेज, बल-पराक्रम और उदारता आदि गुणों की महिमा समस्त राज्य में फैल गई थी । जहाँ देखो वहीं कुमार लोगों की चर्चा का विषय बन रहा था । क्या याचक-जन और क्या सुजन, सभी कुमार को भूरि, भूरि प्रशंसा करते थे ।

प्रद्युम्न कुमार की पाँच सौ सौतेली माताएं थीं और पाँच सौही उसके सौतेले भाई थे । उसके यश और गुणों की प्रशंसा से अगर कोई प्रसन्न नहीं था तो वस यही लोग ! सौतेली माताएं सौचती थी-देखो, हमारे कुमार को कोई टके सेर भी नहीं पूछता है और प्रद्युम्न की सभी प्रशंसा करते हैं ! उनके मन में ईर्ष्या की आग प्रज्वलित हो गई । ज्यों-ज्यों कुमार की प्रतिष्ठा और प्रशंसा में वृद्धि होती जाती थी, त्यों-त्यों उनकी ईर्ष्याग्नि प्रज्वलित होती हुई बढ़ती जा रही थी । ठीकही कहा है:—

दह्यमानाः सुतीव्रेण नीचा परयशोऽग्निना ।

अशक्नास्तत्पदं गन्तु, ततो निन्दा प्रकुर्वन्ते ॥

निम्न श्रेणी के लोग जब किसी की बराबरी में असमर्थ होते हैं तब दूसरे के यश रूपी अत्यन्त तीव्र आग से जलते हुए

उसकी निन्दा करने में तत्पर हो जाते हैं। जो स्वयं उच्चता नहीं पा सकते वे उच्चता पाने वाले की निन्दा करके ही सन्तोष मान लेते हैं।

विवेकशील पुरुष कभी ईर्ष्या नहीं करते। वे किसी को अपने से अधिक गुणवान्, ज्ञानवान्, वैभववान्, सुन्दर या सदाचारी पाते हैं तो उसे देखकर प्रमोद-भाव धारण करते हैं व हर्ष मानते हैं। ऐसा करने से उनके अन्तःकरण को शान्ति प्राप्त होती है और गुणों के प्रति प्रीतिभाव धारण करने से उनको भी गुणों की प्राप्ति होती है। किन्तु अविवेकी और क्षुद्र आशय वाले जीव व्यर्थ ही ईर्ष्या की ज्वालाओं में अपनी शान्ति और सुख को भस्म करके संतप्त होते हैं।

प्रद्युम्न कुमार के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत होने पर उसकी सौतेली माताओं ने अपने-अपने पुत्रों को बुलाकर कहा—देखो, यह प्रद्युम्न थोड़े ही दिनों में युवराज बन बैठा है और निश्चितरूप से उसी को राज्य मिलने वाला है। प्रद्युम्न राजा होगा और कनकमाला को राजमाता की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तुम और हम सब मुंह ताकते रह जायेंगे ! तुम भी तो राजकुमार हो, सब एक ही बीज से उत्पन्न हुए हो ! फिर निरुत्साह और निराश क्यों हो रहे हो ? मन में कायरता धारण किये क्यों बैठे हो ? इस प्रकार लालची होकर, नगण्यों की श्रेणी में अपना नाम लिखवाकर जीवित रहनेवाले धिक्कार के योग्य हैं।

गुणिगणगणनारम्भे, न पतति कंठिनी सुसम्भ्रमाद्यस्य ।
तेनाम्बा यदि सुतिनी, वद वन्ध्या कीदृशो नाम ? ॥

गुणीजनों की गणना करते समय जिस पुरुष के ऊपर गणना करने वाले की उंगली नहीं पड़ती, अर्थात् जो गुणियों की गिनती में नहीं गिना जाता ऐसे पुत्र को जन्म देकर अगर माता पुत्रवती कहलाती हो तो बताओ वन्ध्या किसँ कहते हैं ? सारांश यह है कि उस पुत्र का जन्म लेना और न लेना बराबर ही हैं ?

इस प्रकार अपनी माताओं के द्वारा भड़काये हुए राजकुमार किस मार्ग का अवलम्बन करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह वृत्तान्त आगे के पृष्ठों में अंकित किया जायेगा।

— — —
: ९ :

सफलता का श्री गणेश

— — XXXXXX — —

प्रद्युम्न कुमार की कथा एक प्रकार से पुण्य के प्रबल परिपाक से मनुष्य की क्या स्थिति होती है और संकटों के समय पुण्य किस प्रकार सहाय्यक होता है, यह बात प्रद्युम्न के चरित से एकदम स्पष्ट हो जाती है। उसके जीवन पर यह उक्ति सोलहों आना चरितार्थ होती है—

अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं ।

सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति ॥

पुण्य जिसका रक्षक है वह विना रक्षा के भी सुरक्षित रहता है, और जिसका पुण्य क्षीण हो गया है या जिसने पुण्य का उपार्जन ही नहीं किया है, उसके सहस्रत्रो रक्षक हो तो भी वह विनष्ट हुए विना नहीं रह सकता ।

राजा यमसंवर के दूसरे पुत्र और प्रद्युम्न के सौतेले भाई अपनी-अपनी माता के द्वारा उत्तेजना पाकर ईर्ष्या की अग्नि-ज्वालाओं में दग्ध होने लगे । वे बोले—माता, प्रद्युम्न कुमार जैसे आपके हृदय में चुभ रहा है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी चुभ रहा है । वह हमारे हृदय में चुभा हुआ तीक्ष्ण काँटा है । उसे नष्ट करके ही दम लेंगे । यदि हम इस संकट को दूर न कर सकें तो अपने बाप के बेटे नहीं ! हम आपको अपना मुँह नहीं दिखलायेंगे ! !

अहां ! कितनी विपरीत विचार धारा है ! कैसा अविचार पूर्ण निर्णय है ! अगर यह कुमार सद्गुण प्राप्त करने की भावना को लेकर प्रद्युम्न की प्रतिस्पर्धा करते तो उनका कल्याण हो जाता ! उन्होंने सोचा होता कि हम प्रद्युम्नकुमार की अपेक्षा अधिक वीरता और धीरता प्राप्त करके उससे भी अधिक प्रशंसा और प्रतिष्ठा के पात्र बनने का उद्योग करेंगे तो कितना अच्छा होता ! उनका भी जीवन उच्च, पवित्र और यशपूर्ण बन जाता ! मगर उन्होंने विपरीत ही

रास्ता पकड़ा। वे प्रद्युम्न का अनिष्ट करने के लिए उद्यत हुए।

सब कुमारों ने मिलकर प्रद्युम्न का प्राण लेने का संकल्प किया। यो तो वे उसका कुछ विगाड़ नहीं सकते थे, अतः कपट का आश्रय लेने का मार्ग उन्होंने अपनाया। कायर हृदय कपट को ही अपना हथियार बनाता है। वे लोग योजना निश्चित करके प्रद्युम्न के पास पहुँचे। उससे बोले—बन्धुवर ! आप युवराज हैं। अतएव हमारे स्वामी के समान हैं। आप बुद्धि और बल के भण्डार हैं। हम सब आपके दास के समान हैं। हमपर सदा दयाभाव रखना।

प्रद्युम्न ने कहा—बन्धुओ ! तुम्हारे और मेरे बीच कोई अन्तर नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब एक दूसरे के लिए प्राणों के समान प्रिय होने चाहिए। युवराजत्व का उत्तरदायित्व मुझपर डाला गया है, नगर उस सब के समान में आप सब का समान अधिकार है।

इस प्रकार मीठी-मीठी बातें करके इनके राजकुमार प्रद्युम्न के संसर्ग में रहने लगे। सभी उनके कर्तव्यकार बन गये। वह जो भी कुछ कहता, तत्काल से मान्य वह कर वे उसे स्वीकार करके और अत्यन्त उत्साह से श्रम करने साथ-साथ सँभर करने जाते। नगर उनकी मुझ कारवाइयों चालू ही थी। भोजन-पानी ने वे सब को मिलकर प्रद्युम्न को खिला-पिला देते थे। नगर—

अरक्षितं तिष्ठति देवस्यतः !

सौभाग्य जिसका सहायक हो, उसका कौन क्या विगाड़ सकता है ? प्रद्युम्न के लिए विष भी पीयूष के रूप में परिणत हो जाता था ! मगर उससे प्रद्युम्न का किंचित् भी अनिष्ट नहीं होता था । कभी बार गाढ़ निद्रामे सोये हुए प्रद्युम्न पर शस्त्रों का प्रहार किया गया, मगर शस्त्र भी उसके लिये पुष्प के रूप में परिणत हो गये ! जब कुमारो ने देखा कि इस वज्र-कुमार पर शस्त्र प्रहार भी निरर्थक सिद्ध हो रहा हैं तो उन्होंने मांत्रिकों की सहायता ली । मगर मंत्र भी उस पर नहीं चल सके । भूत, प्रेत आदि व्यन्तर भी प्रद्युम्न कुमार के प्रकृष्ट पुण्य के आगे नतमस्तक और पराजित हो गए ।

इस प्रकार द्वेष-दग्ध राजकुमारो ने प्रद्युम्न के प्राण लेने के सभी उपाय किये, मगर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । उनके मंसूत्रे मिट्टी में मिल गये । अपनी असफलता देखकर और प्रद्युम्न के पुण्य की प्रबलता का विचार करके वे चकित रह गये । फिर भी वे अपनी दुष्टता से बाज न आये । उन्होंने अप्रशस्त मार्ग छोड़ कर प्रशस्त मार्ग की ओर अपने पैर नहीं बढ़ाये । बल्कि दुष्टता की पराकाष्ठा पर पहुँचने का सकल्प किया ।

सभी कुमारों ने मिलकर इस बार बड़ा ही भीषण षड्यन्त्र रचकर उसे कामयाब करने की तरकीब भी सोच ली ।

सभी कुमार मिलकर युवराज प्रद्युम्न के पास पहुँचे और उनके सामने कन्दुक-क्रीड़ा (गेंद खेलने) का प्रस्ताव उपस्थित

किया। युवराज तैयार हो गये। सब गोपुर गुफा के पास आये। एक तरफ अकेले प्रद्युम्न और दूसरी तरफ पाँचसौ राजकुमार मिलकर गेंद खेलने लगे।

प्रद्युम्न ने गेंद में ज्यों ही डण्डा लगाया, गेंद गोपुर गुफा में चला गया। उसके विरोधी कुमार यही चाहते थे। उनकी योजना यही थी की प्रद्युम्न को किसी वहाने गुफा में भेजा जाय। गुफा में घुसने के पश्चात् वह वापिस नहीं लौट सकेगा। गुफा का निवासी राक्षस उसे यमलोक पहुंचा देगा। अब, जब कि गेंद गुफा में चला गया तो सभी राजकुमार कहने लगे—आपने गुफा में गेंद डाला है, इसलिए आप ही लाइए।

प्रद्युम्न निर्भय वीर थे। गुफा में क्या, पाताल लोक तक जाने में भी वे डरते नहीं थे। अतएव विना आनाकानी किये वे गुफा में घुस पड़े। गुफा अत्यन्त भीषण थी और उसमें रहनेवाला राक्षस तो साक्षात् यमराज मालूम होता था। कुमार ने ज्यों ही गुफा में प्रवेश किया और राक्षस को पता चला कि वह भयानक गर्जना करता हुआ और ताल ठोंकता हुआ कुमार की ओर दौड़ा। साधारण व्यक्ति होता तो राक्षस का डरावना रूप देखते ही चेतना हीन हो जाता, प्राण छोड़ देता मगर प्रद्युम्न सच्चा मर्द था और आदर्श क्षत्रिय था। क्षणभर के लिये भी वह भयभीत नहीं हुआ। वह वीरता के साथ राक्षस से भिड़ गया। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। कुमार ने अपनी भुजाओं का बल,—विद्या बल और पुण्य के बल से राक्षस को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती-

पर चढ़ बैठा । राक्षस प्रद्युम्न का अलौकिक बल और साहस देखकर चकित हुआ । उसने दीनतापूर्वक कहा—अब मैं आपका दास हूँ । कृपा कर के मुझे छोड़ दीजिये ।

कुमार ने राक्षस को उसी समय छोड़ दिया । राक्षस अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । राक्षसने कुमार को मन्त्र, भण्डार, राजमुकुट तथा आभूषण भेंट रूप में दिये । इस प्रकार गेंद और राक्षसका उपहार लेकर कुमार सकुशल वापिस लौट आया । उसके विरोधियों की आशाएं धूल में मिल गई ।

मगर वे लोग भी सरलतासे मानने वाले नहीं थे । उन्होंने इसी प्रकार दुसरा कट रच कर प्रद्युम्न को दूसरी गुफा में भेजा । वहाँ भी उसे एक असुर से युद्ध करना पडा । इस असुर ने भी पराजित होकर कुमार को भेंट रूपमें बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की । इसने एक सुन्दर छत्र, शाही चामर का जोडा और सदैव खिले रहने वाले फूलों का वस्त्र दिया । यह चार चीजें लेकर कुमार फिर लौट आया ।

कपटी कुमार इतने करने भी शान्त नहीं हुअे । उन्होंने अब कौ बार तीसरी गुफा में उसे भेजा । उनका ख्याल था कि इस वारि प्रद्युम्न अवश्य मारा जायगा । मगर 'जाको राखे साँड़या, मार सके नहीं कोय ।' पुण्य जिसकी रक्षा करता है उसे मारने की शक्ति जगत् में किसी में नहीं है ।

हाँ तो कुमार तीसरी गुफा में वेधड़क चला गया । उसमें नागराज का निवास था । प्रद्युम्न को देखते ही नाग ने भीषण

फुत्कार मारी। नाग की विषमयी फुत्कार से वायुमंडल विपैला हो गया, मगर चरमशरीरी प्रद्युम्न का बाल भी बाँका न हुआ। वह मुस्कराता हुआ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। नागराज ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। यह अपूर्व पुण्य का पुतला कोई असाधारण पुरुष है। नागराज प्रद्युम्न की निर्भयता, साहसिकता और धीरता देखकर परम प्रसन्न हुआ। उसने कुमार को दिव्य सिंहासन दिया, बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण दिये और दो विद्याएँ प्रदान की। एक विद्या सुन्दर भवन निर्माण कर लेने की और दूसरी विद्या सेना की रक्षा करने की दी। तत्पश्चात् कुमार हर्षित होता हुआ वहाँ लौट आया जहाँ दूसरे कुमार खेल रहे थे।

इस प्रकार चौथी बार उन्होंने प्रद्युम्न को एक वापी में भेजा। प्रद्युम्न वापी में चला गया और जितनी गहराई में जाना संभव था, चलता ही गया। वहाँ मकरध्वज नामक एक असुर निवास करता था। उसने कुमार के प्रखर पुण्य से प्रभावित होकर मकर चिन्ह वाली ध्वजा उपहार में दी। उसी समय से प्रद्युम्न 'मकरध्वज' कहलाने लगे। प्रद्युम्न जब मकरध्वज होकर सकुशल और सानन्द लौट आया तो उसके भाइयों के आश्चर्य का पार न रहा।

इस बार कुमारों ने मिलकर आपस में यह निश्चय किया कि हम लोग अग्निकुण्ड वाली गिरि पर खेलने चलें और जो हार जायगा उसे उस अग्निकुण्ड में गिरना पड़ेगा। प्रद्युम्न ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब तक उसे जो सफलताएँ मिली थीं, उनसे उसे असीम साहस और अमित

विजयी हुआ। सुर ने संतुष्ट होकर उसे एक अश्वरत्न प्रदान किया और शरीर की अमोघ रक्षा के लिये एक दिव्य कवच भी दिया। उसने जगत मोहिनी एक मुद्रिका भी भेंट की। वह वस्तुएँ पाकर कुमार वापिस लौट आया।

दशवी वार में कुमार ने श्रावमुख नामक पहाड़ के ऊपर एक दैत्य को पराजित किया। उसने रत्नमय कंठी और करधनी (कटिसूत्र) उपहार में देकर अपना सन्तोष प्रकट किया।

ग्यारहवीं वार कुमार ब्रह्मान नामक वन में गया। वहाँ उसे पुष्प-धनुष्य की प्राप्ति हुई और शत्रुओं को उद्विग्न व भय-भीत कर देने वाले जय-शंख की प्राप्ति हुई।

बारहवीं वार कुमार पंकजवन में पहुँचा। वहाँ एक विद्याधर निवास करता था। उसे पराजित करके कुमार ने बाँध लिया। मुक्ति की प्रार्थना करने पर कुमारने उसे छोड़ दिया। उसने इन्द्राणी के समान अपनी सुरूपवती कन्या प्रद्युम्न कुमार को व्याह दी। साथ ही दो विद्याएँ भी दहेज के रूप में दी। उनमें एक विद्या रूप बदलने की थी। दूसरी भी इसी प्रकार की थी। हार पहनकर वह मन चाहा रूप बना सकता था।

तेरहवीं वार कुमार ने काल-वन दैत्य पर विजय प्राप्त की। दैत्य ने उसे पुष्पमय धनुष्य और वाण प्रदान किया। साथ ही युवती जन में उन्माद पैदा करने वाला, ज्वरादि

बल प्राप्त हो गया था। अतएव वह इस कठोर शर्त को स्वीकार करने में तनिक भी नहीं झिझका। यही नहीं, उसे अग्निकुण्ड में कूदने की लालसा भी हुई। संभवतः इसी कारण कुमार हार गया। हार कर वह अग्निकुण्ड में प्रविष्ट हुआ। वहाँ भी एक देवता को सन्तुष्ट करके उसने कनक-वस्त्रों का एक जोड़ा प्राप्त किया इन वस्त्रों की विशेषता यह थी कि उन्हें पहन लेने पर शरीर पर आग का असर नहीं होता था।

इसी प्रकार छठी बार वह मेषाकार कूट में गया। वहाँ गेंद खेलने में हारने पर साहस पूर्वक उसके बीच में से निकला। कुमारकी शीघ्रता देखकर देवता प्रसन्न हुआ और उसने कुण्डलों की जोड़ी भेंट की।

सातवीं बार कुमार एक आम्र-वृक्ष पर चढ़ा। वहाँ एक असुर से युद्ध करके और उसे पराजित करके उसने खड़ाऊँ उपहार में प्राप्त की। उस खड़ाऊँ की करामात यह थी कि उसे पहन लेने पर वह आकाश में उड़ सकता था।

आठवीं बार में प्रद्युम्न एक वन में गया। वहाँ हाथी का रूप धारण किये हुए एक असुर से उसका सामना हुआ। असुर पराजित हो गया। वह कुमार के अधिन होकर बोला—आप जब कभी मुझे स्मरण करेंगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा।

नौवीं बार कुमार ने एक पर्वत पर आरोहण किया। वहाँ भुजंग-सुर के साथ उसकी भिडन्त हो गई। कुमार

विजयी हुआ। सुर ने संतुष्ट होकर उसे एक अश्वरत्न प्रदान किया और शरीर की अमोघ रक्षा के लिये एक दिव्य कवच भी दिया। उसने जगत मोहिनी एक मूर्द्रिका भी भेंट की। वह वस्तुएँ पाकर कुमार वापिस लौट आया।

दशवी वार में कुमार ने श्रावमुख नामक पहाड़ के ऊपर एक दैत्य को पराजित किया। उसने रत्नमय कंठी और करधनी (कटिसूत्र) उपहार में देकर अपना सन्तोष प्रकट किया।

ग्यारहवीं वार कुमार ब्रह्मान नामक वन में गया। वहाँ उसे पुष्प-धनुष्य की प्राप्ति हुई और शत्रुओं को उद्विग्न व भय-भीत कर देने वाले जय-शंख की प्राप्ति हुई।

बारहवीं वार कुमार पंकजवन में पहुँचा। वहाँ एक विद्याधर निवास करता था। उसे पराजित करके कुमार ने वाँध लिया। मुक्ति की प्रार्थना करने पर कुमारने उसे छोड़ दिया। उसने इन्द्राणी के समान अपनी सुरूपवती कन्या प्रद्युम्न कुमार को व्याह दी। साथ ही दो विद्याएँ भी दहेज के रूप में दी। उनमें एक विद्या रूप बदलने की थी। दूसरी भी इसी प्रकार की थी। हार पहनकर वह मन चाहा रूप बना सकता था।

तेरहवीं वार कुमार ने काल-वन दैत्य पर विजय प्राप्त की। दैत्य ने उसे पुष्पमय धनुष्य और बाण प्रदान किया। साथ ही युवती जन में उन्माद पैदा करने वाला, ७

ताप नाश करने वाला, कामदेव को वश करने वाला, मनमोहन रूप देनेवाला, मनमोहिनी वाणी प्रदान करने वाला पाणी भी प्रदान किया। यह भेट पाकर प्रद्युम्न साक्षात् कामदेव के रूप में प्रकट हुए। तभी से प्रद्युम्न का नाम 'मदनकुमार' विख्यात हो गया।

चौदहवीं वार कुमार भीम गुफा में गये। वहाँ उन्हें कीर्तिकारक पुष्पमय शय्या और पुण्यमय छत्र की प्राप्ति हुई।

प्रद्युम्न कुमार को जो दिव्य वस्तुएँ प्राप्त हुईं, सब पुण्य के प्रताप से ही। इस जगत् में पुण्य की महिमा असीम है। अतएव जो जीव सुख की अभिलाषा करते हैं, उन्हें पाप का परित्याग करके पुण्य का संचय करना चाहिए। लोग समझते हैं कि धन-सम्पत्ति, सेना, परिवार के लोग और नौकर-चाकर हमारी रक्षा करते हैं, किन्तु यह उनका भ्रम है। वास्तव में पुण्य ही एक मात्र रक्षक हैं। पुण्य जब प्रबल होता है तो देवता भी कुछ नहीं विगाड़ सकते और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो हितैषी भी शत्रु बन जाते हैं और कोई भी भौतिक शक्ति काम नहीं आती। कहा भी है:—

विपिन वन्हि जलनिधि विषे, पुण्य एक रखवाल ।

जिण संच्यो सुकृत सिरे, तिणथी डरपै काल ॥

पुण्यात्मा पुरुष चाहे अटवी में चला जाय, वन्हि के कुण्ड में प्रवेश कर जाय अथवा समुद्र में चला जाय, उसका बाल भी त्राँका नहीं हो सकता। जिन्होंने प्रबल पुण्य का उपार्जन किया है, उनसे यमराज भी भयभीत होता है !

प्रद्युम्न को उसके शत्रु कुमारो ने ऐसे स्थानो पर भेजा, जहाँ यमराज का नृत्य हो रहा था, मगर वहाँ से वह असाधारण वस्तुएं उपहार में लाया । उसके लाभ को देख-देख कर शत्रुओं के हृदय में दाह उत्पन्न होने लगा ।

फिर भी उसके शत्रुओं की आँखें न खुली । दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से उपरत न हुए । प्रद्युम्न को छलने के लिए उन्होंने जो नीचतापूर्ण कृत्य किये, उनका दिग्दर्शन आगे कराया जायगा ।

: 90 :

पाणिग्रहण

विपुल नामक वन अत्यन्त भयानक था । इतना भयानक कि जो भी भुल-चूक से वहाँ जा पहुँचा, वापिस नहीं लौटा । उसे यमलोक का ही रास्ता पकड़ना पड़ा । प्रद्युम्न कुमार पन्द्रवी वार इसी वन में कन्दुक क्रीड़ा करने गया । उसके अशुभ-चिन्तक भाइयों ने सोचा—इस वार प्रद्युम्न अवश्य मारा जायेगा और हमारे रास्ते का काँटा सदा के लिये दूर हो जायेगा ।

प्रद्युम्न भाइयों के साथ वहाँ पहुँचा । खेल आरम्भ में उछल कर बड़ी दूर चला गया । निर्भय प्रद्युम्न किसी

का संकोच किये बिना ही गेंद के पीछे लपका। उसे विपुल वन की भयानकता का भली-भाँति पता था, फिर भी वह साहसी वीर उसमें बेधड़क चला गया।

उस वन में नगाजयंती नाम की एक नदी थी। नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे, शिला पर एक ध्यान-मग्न बाला बैठी थी। वह असाधारण सौन्दर्य सम्पत्ति से सुशोभीत हो रही थी। नवयौवन के झूले में झुल रही थी। ऐसी रूपवती थी कि इन्द्र का मन हरण करने वाली शची भी उसके सामने तुच्छ थी। साक्षात् रति की प्रतिकृति थी। चन्द्रबिम्ब के समान सौम्य मुख और गौर वर्ण उसकी शोभा बढ़ा रहा था ! उसके सिर के बाल खुले हुए थे। वह श्वेत स्फटिक की शिला पर बैठी हुए थी और श्वेत वस्त्रों से ही उसका शरीर वेष्टित था। दाहिने हाथ में स्फटिक की माला लिये वह रूपराशि अनिन्द्य-सुन्दरी कुमारी किसी प्रयोजन से उस वीहड़ एकान्त में तपश्चर्या में लीन थी। उसका असदृश सौन्दर्य बड़ा ही मनोहर था।

कुमार प्रद्युम्न संयोगवश उसके निकट जा पहुँचा। सुन्दरी पर दृष्टि पड़ते ही प्रद्युम्न पंचशर-काम से आहत हो गया। उसका मुख मण्डल देखते ही वह बेसुध हो गया।

कुमार का आगमन और काम से पीड़ित होना देख एक विद्याधर वहाँ पहुँचा। 'उसने' कुमार को 'जुहार' करके शिष्टाचार का पालन किया। कुमार दूसरे पुरुष को अपने सामने देखकर और अपनी स्थिति का विचार करके कुछ

लज्जित हुआ । वह अभी तक उस सुन्दरी को अनिमेष दृष्टि से देख रहा था, अब उसने दूसरी और दृष्टि घुमाई । तब विद्याधर ने कुमार से निवेदन किया—हे पुण्य के अक्षय कोप ! आपके लज्जित और संकुचित होने का कोई कारण नहीं । यह वाला आपके लिए ही हैं ।

प्रद्युम्न ने फिर भी लज्जाते हुए कहा—अनुग्रह कर यह तो बतलाइये कि यह सुन्दरी किस उद्देश्य से यहाँ ध्यान कर रही है ?

विद्याधर बोला—सुनिए, आपको समग्र वृत्तान्त बतलाता हूँ ।

इतना कहकर विद्याधर ने वृत्तांत सुनाना आरम्भ किया—नगपुर के अधीश्वर, विद्याधरों के राजा प्रभंजन हैं । उनकी पटरानी का नाम वाग्देवी है ! यह सुन्दरी उनकी कन्या है ।

एक बार राजा प्रभंजन के दरवार में अष्टांगनिमित्त के वेत्ता एक विद्वान का आगमन हुआ । राजा ने अपनी कुमारी के वर के विषय में उनसे प्रश्न किया । तब निमित्तवेत्ता ने कहा—विपुल वन में गेंद खेलते हुए प्रद्युम्न कुमार आएंगे और वही इस कुमारी के वर होंगे । उन्होंने तिथि, वार, नक्षत्र और आने के सूचक लक्षण—सभी कुछ बतला दिया था । इस प्रकार यह वाला पति-प्राप्ति की कामना से, स्थिर-चित्त होकर साधना कर रही है । इसके पुण्य के उदय से, बतलाये हुए लक्षणों के अनुसार आपका पदार्पण हुआ है । नहीं कहा जा सकता

कि इसका पुण्य आपको यहां खींच लाया है अथवा आपका पुण्य इसे यहाँ ले आया है ? कुछ भी हो, यह सुन्दरी आपके सर्वथा योग्य है। आप महाराजा प्रभंजन के नगर में पधारीये और इसे विधिपूर्वक अंगीकार करके हम सबको उपकृत कीजिए।

विद्याधर की बात सुनकर प्रद्युम्न को अत्यन्त हर्ष हुआ। वह विद्याधर के साथ ही नगपुर की ओर खाना हो गया।

प्रद्युम्न को वन में गये काफी समय हो चुका था। उसके भाइयों ने सोचा—वह अब तक नहीं लौटा है तो अब कभी नहीं लौटेगा। वह निश्चित ही यमधाम पहुँच चुका है! चलो, इतने दिनों का परिश्रम सार्थक हुआ। अभीष्ट सिद्ध हो गया। हमारे रास्ते का रोड़ा हट गया! हाथ खून से रंगे बीना ही दुश्मन का विनाश हो गया।

इसी प्रकार की कल्पनाएं करके वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा हर्ष हुआ, मानो गंवाया हुआ राज्य फिर मिल गया हो! वे प्रसन्न होते हुए नगर में पहुँचे। सबने अपनी-अपनी माता के पास जाकर अपनी सफलता की घोषणा कर दी। उनकी माताओं को भी असीम आनन्द हुआ।

कनकमाला के पास भी यह दुःसंवाद पहुँचा। इसे सुनते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आया तो 'प्रद्युम्न' के नाम को रटने लगी और बिना पानी की मछली के समान तड़फड़ाने लगी। उसकी वेदना का पार न रहा।

राजा यमसंवर को कनकमाला का हाल मालूम हुआ तो वह दौड़े हुए आए। उन्होंने रानी को आश्वासन देते हुए कहा— प्रिये ! चिंता करने का कोई कारण नहीं है। आंसू बहा कर अमंगल मत करो। प्रद्युम्न महान् पूण्यशाली है। निश्चित समझो कि वह मारा नहीं जा सकता, उसका रंचमात्र अनिष्ट भी नहीं हो सकता वह जहां कहीं भी होगा, सकुशल होगा, आनन्द में होगा। शीघ्र ही तुम उसे देख सकोगी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अकाल में ही काल के गाल में चला जाय।

अपने पति से इस प्रकार आश्वासन पाकर रानी कनकमाला को कुछ धीरज बंधीं, फिर भी उसका हृदय शान्त नहीं हो सका। उसका एक-एक क्षण युग के समान व्यतीत होने लगा। वह प्रद्युम्न को देखने के लिए अतीव आतुर रहने लगी।

उधर प्रद्युम्न जब नगपुर पहुंचे तो राजा प्रभंजन का समस्त परिवार उन्हें देखकर हर्षित हो उठा। शुभ मूहूर्त में उनका पाणिग्रहण संस्कार किया गया। कामदेव और रति को जोड़ी मिल गई। कुमारी के माता-पिता की अभिलाषा पूर्ण हुई। उन्हें जैसा जामान चाहिए, वैसा ही मिल गया।

कुछ दिन नगपुर में निवास करके प्रद्युम्न पत्नी आदि परिवार के साथ वापिस लौटा। लौटते समय उसी भीम वन से दिशान लेने के लिए उहरा। तब उन वन का स्वामी मण्डानुर, उन पर दृष्टि हो उठा व दोनों में युद्ध ठन गया। आगिर मण्डानुर को पराजित होना पड़ा। मण्डानुर, हुनार

की वीरता, धीरता और गुणगरिष्ठता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रेम-भाव से कुमार को दो उत्तम पदार्थ भेंट में दिये-एक दूध पीने के लिए कामधेनु और दूसरा पुष्पों का सुन्दर रथ !

प्रद्युम्न अपनी नव-वधू के साथ पुष्प-रथ पर आरूढ़ हो कर आगे बढ़े और अपनी नगरी के बाहर आकर ठहर गये। उसने अपने मन्त्री को पिता के पास भेजा। मन्त्री ने राजा यमसंवर के दरबार में उपस्थित होकर प्रद्युम्नकुमार के आगमन का संवाद सुनाया और पिछला समग्र वृत्तान्त भी कह सुनाया। उस समय दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे, सब को अपूर्व हर्ष हुआ, फिर माता-पिता के हर्ष का तो कहना ही क्या था ! उनके लिए तो प्रद्युम्न प्राणों से भी अधिक प्यारा था। उसके सकुशल और सफलता के साथ आने का समाचार सुनकर कनकमाला के हृदय में हर्ष की हिलोरे उठने लगी। राजा भी अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

सभी ने कुमार को स्वागत के साथ नगर में लाने का निश्चय किया। चतुरंगी सेना सजाई गई। सैनिकों और नागरिकों में सजावट को लेकर होड़-सी मच गई। समग्र नगर ध्वजापताका आदि से सजाया गया। क्या नर और क्या नारी, हर्ष की उत्ताल तरंगों में बहने लगे। बाजों की ध्वनि से दूर-दूर तक वायुमण्डल ध्वनित हो उठा। सब लोग बड़े ठाठ के साथ कुमार का स्वागत करने के लिए रवाना हुए। कुमार ने माता, पिता, नगर-निवासियों और सैनिकों को आते देखा

तो वह भी आगे बढ़ा। माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया और सब के प्रति यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित किया।

उस समय प्रद्युम्न के साथ जो वैभव था, उसे देखकर सब लोग आश्चर्यान्वित हो गये! कोई मन ही मन और कोई वाणी से उसके पुण्य की सराहना करने लगे। किसी ने कहा—कुमार के माता-पिता धन्य है, जिन्हें ऐसे पुण्यशाली पुत्र की प्राप्ति हुई है! कोई बोला—यह सब पुण्य का प्रभाव है! जो प्राणी पूर्व में पुण्य का संचय करके आया है, उसी को इस प्रकार का असाधारण वैभव प्राप्त होता है। अतएव संसार में सुखी रहने के लिए पापाचार से बच कर पुण्य का उपार्जन करना ही योग्य है।

: 99 :

पानी में भी आग



कुमार प्रद्युम्न एक विशाल शाही जुलूस के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। प्रशस्त सूहृत् में पुष्परथ पर आरूढ़ होकर, मदन, रति के साथ देव की भांति सुशोभित हो रहे थे। दिग्गधर नुन्दरियां उनके सिर पर चंबर टुला रही थी, नुंदरी छत्र लिये खड़ी थी। किसी ने जल की झारी ले

की वीरता, धीरता और गुणगरिष्ठता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रेम-भाव से कुमार को दो उत्तम पदार्थ भेंट में दिये-एक दूध पीने के लिए कामधेनु और दूसरा पुष्पों का सुन्दर रथ !

प्रद्युम्न अपनी नव-वधू के साथ पुष्प-रथ पर आरूढ़ हो कर आगे बढ़े और अपना नगरी के बाहर आकर ठहर गये। उसने अपने मन्त्री को पिता के पास भेजा। मन्त्री ने राजा यमसंवर के दरबार में उपस्थित होकर प्रद्युम्नकुमार के आगमन का संवाद सुनाया और पिछला समग्र वृत्तान्त भी कह सुनाया। उस समय दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे, सब को अपूर्व हर्ष हुआ, फिर माता-पिता के हर्ष का तो कहना ही क्या था ! उनके लिए तो प्रद्युम्न प्राणों से भी अधिक प्यारा था। उसके सकुशल और सफलता के साथ आने का समाचार सुनकर कनकमाला के हृदय में हर्ष की हिलोरे उठने लगी। राजा भी अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

सभी ने कुमार को स्वागत के साथ नगर में लाने का निश्चय किया। चतुरंगी सेना सजाई गई। सैनिकों और नागरिकों में सजावट को लेकर होड़-सी मच गई। समग्र नगर ध्वजापताका आदि से सजाया गया। क्या नर और क्या नारी, हर्ष की उत्ताल तरंगों में बहने लगे। बाजों की ध्वनि से दूर-दूर तक वायुमण्डल ध्वनित हो उठा। सब लोग बड़े ठाठ के साथ कुमार का स्वागत करने के लिए रवाना हुए। कुमार ने माता, पिता, नगर-निवासियों और सैनिकों को आते देखा

तो वह भी आगे बढ़ा। माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया और सब के प्रति यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित किया।

उस समय प्रद्युम्न के साथ जो वैभव था, उसे देखकर सब लोग आश्चर्यान्वित हो गये! कोई मन ही मन और कोई वाणी से उसके पुण्य की सराहना करने लगे। किसी ने कहा—कुमार के माता-पिता धन्य हैं, जिन्हें ऐसे पुण्यशाली पुत्र की प्राप्ति हुई है! कोई बोला—यह सब पुण्य का प्रभाव है! जो प्राणी पूर्व में पुण्य का संचय करके आया है, उसी को इस प्रकार का असाधारण वैभव प्राप्त होता है। अतएव संसार में सुखी रहने के लिए पापाचार से बच कर पुण्य का उपाजन करना ही योग्य है।

: 99 :

पानी में भी आग



कुमार प्रद्युम्न एक विशाल शाही जुलूस के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। प्रसस्त मुहूर्त में पुष्परथ पर आरूढ़ होकर मदन, रति के साथ देव की भाँति सुशोभित हो रहे। विद्याधर सुन्दरियाँ उनके सिर पर चंद्र दृला रही थी, सुंदरी छत्र लिये खड़ी थी। किसी ने जल की झारी ले

थी, कोई फूलों के गुलदस्ते लिए थी। तम्बोली पान के वीड़े बना रहा था। सामने की ओर छड़ीदार और चोबदार खड़े-खड़े जय-विजय की ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे।

प्रद्युम्न के पांच सौ भाई भी साथ थे। शिष्टाचार का प्रदर्शन करने और अपनी उत्कंठा को तृप्त करने के लिए वे कुमार के सामने गये थे। प्रद्युम्न का असीम और विस्मयजनक वैभव देख-देख कर उनके मन में कुढ़न हो रही थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था।

आगे बढ़ता हुआ जुलूस नगर में प्रविष्ट हुआ और बाजार के बीच में होकर जाने लगा। नर-नारी कौतुक देखने लिए अपने-अपने मकानों के छज्जों पर इकट्ठे हो गये। बाल, वृद्ध और तरुण रमणियों के झुण्ड दोनों ओर जमा हो गये। उत्कंठा की प्रबलता इतनी थी कि उन्हें अपने तन और वसन की भी सुध नहीं रही। कोई घाघरा सिर पर और ओढ़नी कमर पर पहनकर छज्जे की ओर दौड़ी। जो आभूषण पहन रही थी उनमें से किसी ने करधनी गले में और हार कमर में लटका लिया। जल्दबाजी के कारण किसी का हार टूट गया और मोतियों के दाने धरती पर बिखर गये। किसी किसी ने आँखों में कुंकुम और ललाट पर काजल लगा लिया। कोई कोई तो कपड़ा पहने बिना ही लाज-शर्म भूल कर प्रद्युम्न को देखने के लिए दौड़ पड़ी। जो पति को जिमा रही थी, वे यों ही दौड़ आईं—पति को परोसना भूल गईं। किसी-किसी का बालक रोता ही रह

गया। कोई कोई घर द्वार उघाड़ा छोड़ कर भागी। एक चाहती थी—में आगे निकल जाऊँ और दूसरी चाहती थी कि मैं उसके भी पहले पहुँच जाऊँ ! प्रद्युम्न कुमार को देखकर कितनीक स्त्रियाँ इतनी विमुग्ध हो गईं कि उन्हें श्वशुर, जेठ, धेवर आदि की उपस्थिति का भान ही नहीं रहा।

इस प्रकार नगर के बाजार में एक अपूर्व और अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। प्रद्युम्न के पूर्वार्जित पूण्य के प्रभाव ने, क्या नर और क्या नारियाँ, सभी को विस्मय-विमुग्ध कर दिया। स्त्रियों पर जैसे जादू चल गया। वे एक दूसरी पर गिरने पड़ने लगीं, एक दूसरी के आगे होने का प्रयत्न करने लगीं। कोई-कोई कहने लगी—अहा ! यह रमणीरत्न रति धन्य है जिसे मदन के समान पति की प्राप्ति हुई है। किसी ने कहा—मदन कुमार भाग्यशाली हैं जिन्हें रति के सदृश पत्नी प्राप्ति हुई है ! इन प्रकार आपस में तरह तरह की बातें करती हुई स्त्रियाँ प्रद्युम्न की सराहना करने लगीं। रास्ता और छज्जे भीड़ से भरे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानों समग्र नगर उसी राजपथ पर जमा हो गया है। नर-नारियों के दृष्ट के दृष्ट लगे थे। सभी निनिमेष दृष्टि से प्रद्युम्न और रति के अनुपम सौन्दर्य को देख रहे थे।

इस तरह आठ के साथ चलता हुआ जल्द ही धीरे-धीरे राजद्वार पर आ पहुँचा। प्रद्युम्न राजसभा में पहुँचे। जिन्होंने उन्हें सिरासन पर बिठलाया। उस समय प्रद्युम्न

के वश होकर फिर पिता के चरणों में नतमस्तक हुए । पिता ने उन्हें छाती से लगा लिया और प्रेम तथा हर्ष से विभोर होकर चुम्बन किया ! चिरंजीव होने का आशिवाद दिया ।

माता कनकमाला की उस समय की स्थिति का वर्णन करना सम्भव नहीं है । उसे मानो गये हुए प्राण वापिस मिल गये । उसका हृदय हर्ष की अधिकता को संभालन में असमर्थसा हो गया ! जिस समय कुमार ने माता के चरणों में नमस्कार किया, माता ने इन्द्राणी को भी अपने सामने तुच्छ समझा ! उसने प्रद्युम्न को अपने हृदय से चिपका लिया ! कुमार भी माता की अद्भुत ममता देखकर गद्गप हो उठा । वह माता के पास ही एक किनारे बैठ गया ।

किसी कवि ने यथार्थ ही कहा है—

न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः ।

तथापि जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम् ॥

अर्थात्—कामदेव का हथियार न कठोर है और न तीक्ष्ण ही है, फिर भी उसने समस्त संसार को पराजित कर दिया है

वास्तव में काम-वासना प्राणी की सब से बड़ी वैरिणी है । इसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेक से विकल हो जाता है । काम-वासना की प्रबल बन्धि विवेक रूपी वाटिका को दग्ध कर डालती है । प्राणी मात्र इसके वश में होकर घोर यातनाएँ सहन करता है । कहा है—

क्षणमित्त-सुखी बहुकालदुःखा,
पगाम-दुःखा अणिगामसुखा ।
संसार-मोक्षस्स विपक्खभुया,
खाणी अणत्याणा उ कामभोगा ॥

कामभोग क्षणिक सुख देने वाले हैं किन्तु दीर्घकाल पर्यन्त पोर दुःख प्रदान करते हैं। थोड़े सुख और बहुत दुःख के कारण हैं। जन्म-जरा-मरण से छुटकारा पाने में बाधक है। फर्हा तक कहा जाय यह अनर्थों की खान है !

मनुष्य के अन्तःकरण मे जब घासना की तीव्र ज्वाला जलने लगती है तो वह कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, उचित, अनुचित; निन्दनीय, अनिन्दनीय का भेद समझने मे असमर्थ हो जाता है। उसकी बुद्धि पर प र पड़ जाता है। कुल और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने मे संकोच नहीं करता।

कानकमाला जैसी विवेकवती नारी को भी काम-वासना ने गिरा दिया। प्रद्युम्न कुमार के अनुपम और सजीव सौन्दर्य को वह अपलक दृष्टि से देखने लगी। उसने देखा-अनुपम रूप है, नक्षत्रीयन से समस्त शरीर खिला हुआ है, तन पर के सुन्दर आभूषण उस रूप को और अधिक विकसित कर रहे हैं, सिर पर मुकुट सजा हुआ है, साँवला सलीला रूप असाधारण है ! दोनों नयन कमल-पत्र के समान आभासस्वर हैं, कंबुध्रीय है, मुख-मण्डल चन्द्रमा के समान शीम्य और देदीप्यमान हैं, भीहें कमान की तरह बाँकी हैं, श्छरों की अरुणता अपनी निराली हटा दिखला रही है।

के वश होकर फिर पिता के चरणों में नतमस्तक हुए । पिता ने उन्हें छाती से लगा लिया और प्रेम तथा हर्ष से विभोर होकर चुम्बन किया ! चिरंजीव होने का आशिवाद दिया ।

माता कनकमाला की उस समय की स्थिति का वर्णन करना सम्भव नहीं है । उसे मानो गये हुए प्राण वापिस मिल गये । उसका हृदय हर्ष की अधिकता को संभालन में असमर्थसा हो गया ! जिस समय कुमार ने माता के चरणों में नमस्कार किया, माता ने इन्द्राणी को भी अपने सामने तुच्छ समझा ! उसने प्रद्युम्न को अपने हृदय से चिपका लिया ! कुमार भी माता की अद्भुत ममता देखकर गद्गद हो उठा । वह माता के पास ही एक किनारे बैठ गया ।

किसी कवि ने यथार्थ ही कहा है—

न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः ।

तथापि जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम् ॥

अर्थात्—कामदेव का हथियार न कठोर है और न तीखा ही है, फिर भी उसने समस्त संसार को पराजित कर दिया है ।

वास्तव में काम-वासना प्राणी की सब से बड़ी वैरिन है । इसके वशीभुत होकर मनुष्य विवेक से विकल हो जाता है । काम-वासना की प्रबल बन्धि विवेक रूपी वाटिका को दग्ध कर डालती है । प्राणी मात्र इसके वश में होकर घोर यातनाएँ सहन करता है । कहा है—

खणमित्त-सुखा बहुकालदुखा,
पगाम-दुखा अणिगामसुखा ।
संसार-मोक्खस्स विपक्खभुया,
खाणी अणत्थराणा उ कामभोगा ॥

कामभोग क्षणिक सुख देने वाले हैं किंतु दीर्घकाल पर्यन्त शरीर दुःख प्रदान करते हैं। थोड़े सुख और बहुत दुःख के कारण हैं। जन्म-जरा-मरण से छुटकारा पाने में बाधक है। कहीं तक कहा जाय यह अनर्थों की खान है !

मनुष्य के अन्तःकरण मे जब वासना की तीव्र ज्वाला जलने लगती हैं तो वह कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, उचित, अनुचित; निन्दनीय, अनिन्दनीय का भेद समझने मे असमर्थ हो जाता है। उसकी बुद्धि पर पर्ण पड़ जाता है। कुल और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने मे संकोच नहीं करता।

कनकमाला जैसी विवेकवती नारी को भी काम-वासना ने गिरा दिया। प्रद्युम्न कुमार के अनुपम और सजीव सौन्दर्य को वह अपलक दृष्टि से देखने लगी। उसने देखा-अनुपम रूप है, नवयौवन से समस्त शरीर खिला हुआ है, तन पर के सुन्दर आभुषण उस रूप को और अधिक विकसित कर रहे हैं, सिर पर मुकुट सजा हुआ है, साँवला सलीना रूप असाधारण है ! दोनों नयन कमल-पत्र के समान आयताकार हैं, कंबुग्रीव है, मुख-मण्डल चन्द्रमा के समान सौम्य और देदीप्यमान हैं, भीहें कमान की तरह बाँकी हैं, अधरों की अरुणता अपनी निराली छटा दिखला रही है।

दन्तावली मुक्तावली का उपहास कर रही है ! निकलती हुई छोटी-छोटी मूँछे अनूठी सुन्दरता को प्रकट करती है ।

प्रद्युम्न कुमार के अंग-अंग में सौन्दर्य समाया हुआ था । उसकी नाक तोते की नाक के समान थी । मुख से निकलने वाली वाणी ऐसी मधुर थी मानो इधुरस हो ! वक्षस्थल चौड़ा था, भुजाएँ लम्बी थीं और नाखून रक्तवर्ण थे । उरुयुगल हाथी की सूंड से सदृश थे । जंघाएँ परिपुष्ट और बलिष्ठ थी । समस्त शरीर स्वर्ण की भाँति दमकता था ! उसका रूप सौन्दर्य विस्मय और विमोह को उत्पन्न करने वाला था !

कनकमाला कुमार की यह सुन्दरता देखकर उन्मत्त हो उठी । वह मन ही मन कुमार की प्रशंसा करने लगी । उसकी सद्बुद्धि विलीन हो गई और मन दुर्भावनाओं से अभिभूत हो गया । रानी ने विचार किया वह धन्य है, उसका नारी जीवन सफल है, जो कुमार के साथ रमण करती है और अपनी इच्छाओं को तृप्त करती है ! इस प्रकार विचार करके कनकमाला अपनी आन्तरिक दुष्ट अभिलाषा की शिकार हो गई !

आह ! मनुष्य का मन कितना चंचल है ! वह कहाँ से कहाँ ले जाता है ! मनुष्य को किस सीमा तक पतित कर देता है ! कनकमाला काम के तीक्ष्ण वाणों से बिंध गई । उसी समय उसका चेहरा उदास हो गया । वह अपने कपोल को हथेली पर रखकर जमीन की ओर देखने लगी । उसके

नेत्रों से नीर प्रवाहित होने लगा। लम्बी-लम्बी सांसे लेने लगी। आंखें लाल हो गईं।

माता का यकायक परिवर्तित हुआ यह ढंग देखकर कुमार को बहुत विस्मय हुआ। वह समझ नहीं सका कि माता को क्या हो गया है? उसने आशंका के साथ पूछा—माताजी, क्या बात है? आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है?

कुमार के इस प्रश्न का उत्तर देना कनकमाला के लिए बड़ा ही कठिन काम था! लज्जा की मारी वह अपने अन्तःकरण की भावनाको व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतएव वह मौन ही रही। कटाक्ष करके कुमार की ओर देखा भर लिया।

मगर वासना-विहीन कुमार को कनकमाला की वास्तविक भावना की कल्पना तक नहीं हो सकती थी! अतएव उसने सोचा-जान पड़ता है, माता का शरीर स्वस्थ नहीं है। यह सोचकर कुमार वहाँ से उठकर अपने महल में चला गया। उसे क्या पता था कि पानी में आग लग रही है।



द्वितीय खण्ड

: १ :

धिक्कार !



कुमार प्रद्युम्न जब कनकमाला के पास से उठकर अपने महल में चला गया तो कनकमाला के चित्त में काम की ज्वाला और भी उग्र हो उठी। वह बिना पानी की मछली के समान तड़फने लगी ! मन ही मन दुःख का अनुभव करने लगी। उसे रात में नींद नहीं आती थी और दिन में सुहाता नहीं था ! खाने-पिने की रुचि चली गई थी। उठते-बैठते प्रत्येक समय, बस गहरी साँसे लेती रहती थी। उसके नेत्र लाल-लाल बने रहते थे, शरीर उष्ण रहता था और बार-बार जँभाई लिया करती थी उसने सुन्दर वस्त्रों का और समस्त आभूषणों का परित्याग कर दिया। मतवाली-सी फिरने लगी।

जैसे ग्रीष्म ऋतु की लता दिन-दिन सूखती जाती है, उसी प्रकार कनकमाला दिनों दिन सूखती जा रही थी। वासना की वन्धि उसे सुखा रही थी। बावन चन्दन के लेप

से भी उसका दाह शान्त नहीं होता था ! अन्तरिक दाह-
वाह्य लेप से शान्त भी कैसे होता ?

काम-वासना अशान्ति उत्पन्न करने वाली है । उससे मनुष्य का मन बेचैन और व्याकुल बन जाता है । कनकमाला निरन्तर उद्विग्न, अशान्त और अतृप्त रहने लगी । वह कभी महल में जाती और वहाँ मन न लगता तो उद्यान को ओर चल देती ! उद्यान से चित्त ऊबता तो वाटिका की शरण लेती ! वहाँ भी चित्त शान्त न होता तो आकाश-विहार के लिए चल पड़ती थी । मगर चैन कहीं न पाती !

अज्ञानी जीव समझते हैं कि संसार के पदार्थों में सुख-प्राप्त करने की क्षमता है ! इसी भ्रम से प्रेरित होकर वे सुख शांति प्राप्त करने के लिए वाह्य पदार्थों का संयोग खोजते फिरते हैं । किन्तु ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि वास्तविक सुख और शान्ति का आगार तो मनुष्य का अन्तःकरण ही है ! सुख आत्मा का निज गुण है और ज्यों ज्यों पर-पदार्थोंसे सम्पर्क हटाकर आत्मा अपने आप में निरत होती जाती है, त्यों-त्यों सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है ! अतएव सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों की ममता का परित्याग करके आत्मोन्मुख होना चाहिए । जो मनुष्य ऐसा नहीं करते और संसार के पदार्थों में सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें सुख के बदले दुःख की ही प्राप्ति होती है ।

कनकमाला ने अज्ञानियोंका मार्ग पकड़ा । उसने विलास में सुख की कल्पना की । परिणाम यह हुआ कि उसे जो सुख

पहले प्राप्त था, वह भी नष्ट हो गया। वह दुःख के दावानल में जलने लगी। उसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी पदार्थ से शान्ति नहीं मिलने लगी। सारा संसार उसे दुःखमय प्रतीत होने लगा। उसकी व्याकुलता ने उसे अत्यन्त बेचैन बना दिया।

राजा यमसंवर ने अपनी प्रियसी रानी की यह हालत देखी तो उसे बहुतही चिन्ता हुई। राजा ने कुशल वैद्यों को बुलवाया। वैद्य ऋशास्त्र में अत्यन्त निपुण अनेक राजवैद्य आये। उन्होंने मल, मूत्र, नेत्र, गंध, वस्त्र, जिब्हा, गला और नाड़ी की सावधानी के साथ परीक्षा की। किन्तु रानी के रोग का निदान कोई न कर सका। किसी भी वैद्य को बीमारी का कारण ज्ञात न हो सका! उन्होंने अनेक औषधियां खिलाई, पिलाई, मगर कोई कारगर नहीं हुई।

जब औषधोपचार सफल न हुआ तो मन्त्र-तन्त्रका उपचार किया गया। बड़े-बड़े मन्त्रवेत्ता आये, फिर भी अभिष्ट परिणाम नहीं निकला। अन्ततः समस्त वैद्य और मान्त्रिक निराश होकर चले गये। रानी की अवस्था में किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ।

ज्यों-ज्यों रानी की अवस्था गिरती जाती थी और दुर्बलता बढ़ती जाती थी, त्यों-त्यों राजा यमसंवर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने कुमार को अपने पास बुला कर कहा—वत्सा, तुम्हारी माता की हालत दिनोंदिन विगड़ती जा रही है। वह बहुत दुखी है।

उसका एक-एक दिन एक-एक कल्प के समान कट रहा है ! और तू अपने सुख में मग्न है। तू ने अपनी माता का समाचार तक नहीं पूछा ! साता पूछने भी नहीं आया ! तू अत्यन्त बुद्धिशाली है। कोई ऐसा उपाय निकाल, जिससे माता का दुःख दूर हो जाय।

कुमार ने हाथ जोड़ कर कहा—पिताजी, मुझे माताजी की अवस्था का पता ही नहीं था। मैं माताजी को देवता के समान समझता हूँ। संसार में माता के समान उपकारक और कौन है ? यह अंग और यह जीवन माता की ही अनुपम देन है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि रचता है, मगर वह ब्रह्मा तो कपोल कल्पित है। माता ही है। माता की अनुकम्पा से ही बालक के जीवन का निर्माण होता है ! माता ममता की मूर्ति है, अनुकम्पा की साक्षात् प्रतिमा है, उसमें वात्सल्य और उदारता का अद्भुत संमिश्रण होता है। पुत्र के लिए घोर कष्ट सहन करती है। सवा नौ मास तक गर्भ में धारण करके और फिर जन्म देने के बाद पालन-पोषण करके माता अपनी सन्तान पर असीम उपकार करती है। माता के सुख के लिए पुत्र अपने शरीर को निछावर कर दे तो भी वह उन्मत्त नहीं हो सकता !

इस प्रकार अपनी मनोभावना व्यक्त करके प्रद्युम्न उसी क्षण माता के निकट पहुंचा। माता की अवस्था देखकर कुमार को गहरी चिन्ता हुई। चरणों में नतमस्तक होकर और आँखों से आँसू बहा कर, गद्गद् कंठ से कुमार ने

कहा—हा दैव ! यह क्या हुआ ? मेरी माता का अरिरीर क्यों सूख कर कांटा हो गया है ।

कुमार फिर सोचने लगा—जैसे इस देह को दोनों नेत्रों का आधार है, उसी प्रकार मुझको माता और पिता का आधार है । मैं माता को औषध के द्वारा अथवा मन्त्रप्रयोग के द्वारा बहुत शीघ्र स्वस्थ कर दूंगा !

तत्पश्चात् कुमार ने माता का हाथ अपने हाथ में लिया । नाड़ी पर तीन उंगलियाँ रक्खीं । बहुत देर तक सोच-विचार करता रहा खूब उपयोग लगाया । परन्तु उसे नाड़ी में किसी भी रोग का आभास नहीं हुआ । हृदय की वह बीमारी नाड़ी से मालूम भी कैसे पडती !

कुमार चकित रह गया । वात, पित्त, कफ आदि में से किसी की न्यूनता या अधिकता नहीं प्रतीत हुई । तब कुमार बोला—माताजी आपको क्या कष्ट प्रतीत होता है ? बिना कहे तो कोई बीमारी समझ में नहीं आती । आप बतलाएँगी तभी पता चलेगा और तभी उसका ठीक तरह उपचार किया जा सकेगा ।

कनकमाला— सबके सामने मैं अपने कष्ट की बात नहीं कहती । सबको यहाँ से अलग कर दो तो अपनी पीड़ा मैं बतला सकूँगी ।

वहाँ जो लोग उपस्थित थे कुमार का संकेत पाते ही बाहर चले गये । रानी और कुमार के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं

रहा। उस समय रानी के चेहरे पर एक आनोखा भाव प्रकट हुआ-कुछ रौनक-सी दिखलाई दी ! रानी ने निर्लज्जता धारण करके अँगड़ाई ली, लम्बी जँभाई ली और कटाक्ष किया। वह अपने गले में अत्यन्त मधुरता लाकर स्नेहपूर्वक बोली-‘प्राणेश’ ! मेरी वीमारी तन की नहीं, मन की है। वह वात, पित्त या कफ के प्रकोप से नहीं, तुम्हारे इस दिव्य सौन्दर्य से उत्पन्न हुई है इस वीमारी को दूर करने के लिये तुमही वैद्य हो और तुम्ही औषध हो। यह और किसी से मिटने वाली नहीं है। प्रियतम ! तुम्हारे विरह ने मेरे शरीर में भयानक संताप उत्पन्न कर दिया है। उस संताप में मैं जल रही हूँ, वचाना चाहो तो वचा सकते हो !’

रानी की यह अटपटी बात सुनकर कुमार हतबुद्धि हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं माता के मुख से यह क्या सुन रहा हूँ ! यह सोचकर वह चकित रह गया !

कनकमाला फिर कहने लगी-‘कुमार ! आपने यहाँ पदार्पण करके मुझे पर अत्यन्त उपकार किया है। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आप मेरे पूर्वभव के पति हैं। पुरातन संस्कार आज पुनः जागृत हो उठे हैं और आपने मेरा मन हर लिया है। अब स्थिति यह है कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। आपके विरहमे मेरे लिए महल श्मशान से भी अधिक भयानक प्रतीत होता है। वस्त्र और आभूषण भार मालूम होते।

यातनाएँ सहन करनी पड़ेगी । माता ! सम्यग् ज्ञान के अंकुश से अपने मन रूपी मत्तंग को वश में करो !

माता ! मैं समझ गया कि तुम मेरी जननी नहीं हो, तथापि पालन-पोषण करने के कारण तुम मेरी माता ही हो । मैं कृतज्ञ हूँ कि तुमने मेरे प्राणोंकी रक्षा की है । मैं तुम्हारा ऋणी हूँ । उस ऋण को चुकाने के लिए चाहो तो मेरे प्राण ले लो, मगर धर्म नहीं ले सकती ।

शास्त्र में कहा है कि माता के महान् उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता । अलवत्ता उसे चुकानेका उपाय माता को धर्म-मार्ग पर आरूढ़ कर देना हैं । ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें घोर पाप के गड़हे में गिराकर तुम्हारे महान् उपकार का बदला किस प्रकार चुका सकता हूँ ? मुझे अपने प्राणों का परित्याग कर देना और जीवन का सहर्ष अन्त कर देना स्वीकार है, मगर पाप की प्रचण्ड ज्वालाओं में गिरना स्वीकार नहीं है ।

माता ! इस कलंकमय दुष्ट विचार को अपने मन से निकाल दो । यह अमंगल विचार है । इससे बड़ा पातक और कोई नहीं हो सकता ।

इस प्रकार समझाने पर भी जब कनकमाला की बुद्धि ठिकाने न आई तो कुमार वहाँ से उठकर चल दिया । घृणा और क्षोभ से उसका हृदय व्याप्त हो गया ।

कनकमाला निर्लज्ज भाव से, सतृष्ण नयनों से कुमार की ओर देखती ही रह गई । कुमार ने दृष्टि उठाकर एकबार

भी उसकी ओर न देखा। उसका हृदय बोल उठा—
'धिक्कार!'

— — — — —
: २ :

रहस्य का उद्घाटन

— (०) —

कुमार प्रद्युम्न कनकमाला के प्रति घृणा और निन्दा की तीव्र भावना लेकर रवाना हुआ। कनकमाला की नीचता का विचार करते-करते उसे स्त्री-जाति के प्रति भी तिरस्कार उत्पन्न हुआ। वह तरह-तरह के विचार करता हुआ नगर के बाहर एक उद्यान में जा पहुंचा।

उस उद्यान में चरण-करण के आगार एक मुनि स्फटिक शिलापर विराजमान और कायोत्सर्ग में लीन दिखलाई पड़े। पुण्यशाली पुरुष धर्मात्माओं को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, फिर मुनिराज के दर्शन की बात क्या? कुमार की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी तो उसके रोम-रोम में हर्ष व्याप गया। वह भक्ति-भाव से प्रेरित होकर मुनि के निकट पहुंचे। अत्यन्त विनम्र होकर उसने मुनिराज को विधि पूर्वक वन्दना की। तत्पश्चात् कुमार ने प्रार्थना की—तपोधन! अनुग्रह करके ध्यान को पार लीजिए।

मुनिराज प्रकृति से ही करुणा-निधान होते हैं। वे अवसर के ज्ञाता और जगत् के उपकारक हैं। कुमार की नम्र प्रार्थना श्रवण कर मुनिराज ने फर्माया-देवानुप्रिय ! दया पालो ।

तत्पश्चात् मुनिराज कुमार को उपदेश देते हुए बोले—कुमार ! इस मानव भव की सार्थकता धर्म और नीति का आचरण करने में ही है। तुम अनीति से दूर रहकर धर्म का आचरण करना !

कुमार—गुरुदेव ! आपके वचन तथ्य हैं । मैं अपनी शक्ति के अनुसार और धर्म और नीति का अनुसरण करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। किन्तु दयामय ! मेरी एक जिज्ञासा है। अनुग्रह करके उसका उपशमन कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे रूप को देखकर मेरी माता के मन में दुर्भावना क्यों उत्पन्न हुई।

मुनि—साधारण व्यक्ति की दृष्टि इहलोक तक ही सीमित रहती है, परन्तु ज्ञानी-जन अपनी दीर्घ दृष्टि से आगे-पीछे की बातों का भी विचार करते हैं। कोई भी जीव जब नवीन जन्म ग्रहण करता है तो वह पहले के अनेक भवों के संस्कार-साथ में लाता है। वे संस्कार उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। तुम्हारी माता के विषय में भी यही बात है। पूर्वभव में तुम्हारी माता राजा हेमरथ की पत्नी इन्द्र-प्रभा थी। तुम राजा मधु थे। मद और मोह से तुम मतवाले हो रहे थे। तुमने इन्द्रप्रभा का शील भंग किया था।

वही इन्द्रप्रभा अब कनकमाला के रूप में जनमी है। इस प्रकार पुरातन संस्कारों के कारण तुम्हारे प्रति उसे मोह उत्पन्न हुआ है।

कुमार-भगवन् ! मेरे असली माता-पिता कौन हैं और कहां है ?

मुनि-असली माता-पिता की बात पूछते हो कुमार ? असल में तो यह आत्मा अजन्मा है और अमर है। न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। अतएव पारमार्थिक दृष्टि से संसार से कोई किसी का पिता, माता या पुत्र नहीं है। परन्तु कर्मोदय के कारण जीव जन्म-मरण का पात्र बनता है। अनादि काल से वह जन्म-मरण कर रहा है। संसार के अनन्तानन्त जीवों में एक भी ऐसा नहीं है, जिसके साथ जीव के सभी प्रकार के सम्बन्ध न हो चुके हो !

हैं असार संसार न करना पल भर राग सयाने ।
 यहां जीव ने अब तक पहने हैं कितने ही वाने ।
 सब जीवों से सब जीवों के सब सम्बन्ध हुए हैं,
 लोक-प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित वार छुए हैं ॥

x

x

x

x

एक जन्म की पुत्र मर कर, है पत्नी बन जाती,
 फिर आगामी भाव में माता बनकर पैर पुजाती ।
 पिता पुत्र के रूप जन्मता, वैरी बनता भाई,
 पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई ॥

कुमार ! संसार की असली स्थिति तो यह है ।

कुमार—कृतार्थ हुआ भंते ! आपने सत्य का प्रकाश किया है । तथापि अपने इस जन्म के माता-पिता का नाम जानने की मेरी बड़ी उत्कण्ठा है । कृपा करके उसे शान्त कीजिए ।

कुमार की तीव्र इच्छा जानकर मुनिराज ने उसके माता-पिता का नाम प्रकट कर दिया । द्वारिका के वासुदेव श्रीकृष्णजी की ऋद्धि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया । कहा—तुम श्रीकृष्ण के पुत्र और उनकी पटरानी रुक्मिणी के आत्मज हो । राजा हेमरथ की पत्नी को छीन लेने के कारण उसे तुम्हारे प्रति तीव्र विद्वेष हुआ । उन्हीं संस्कारों के साथ हेमरथ देवता के रूप में उत्पन्न हुआ और उसने तुम्हारा अपहरण किया । किस प्रकार उसने शिला के नीचे दबा दिया और किस प्रकार यमसंवर ले आया आदि-आदि समग्र वृत्तान्त मुनि ने कुमार को कह सुनाया ।

कुमार—दीनानाथ ! कृपा करके यह भी बतलाइये कि किस कर्म के उदय से मुझे माता का वियोग सहन करना पड़ा ?

मुनि—राजकुमार ! यह भी सुनो । कौशम्बीनगरी के राजा महीश्वर थे । मोहिनी या मोहनावती उनकी रानी थी । राजा और रानी में प्रगाढ़ प्रेम था । दोनों आनन्द में अपना समय व्यतीत करते थे । खाते खेलते और धन तथा यौवन का मजा लूटते ।

एक बार वसन्त ऋतु का आगमन हुआ। राजा और रानी ने वसन्त-क्रीड़ा करने का विचार किया। दोनों एक सुन्दर रथ पर आरूढ़ होकर मनोरम नामक उद्यान में पहुँचे। उद्यान में जाकर उन्होंने मनोज्ञ भोजन किया। फिर एक हीज में रंग भरवा कर दोनों ने फाग खेली। फाग खेलते-खेलते थक गये तो एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर उमंग के साथ वनभूमि में विचरण करने लगे।

उद्यान के एक किनारे, एकान्त में मोरनी ने अंडे दिये थे। राजा और रानी को उसी ओर आते देख, आतंकित होकर मयूरनी ने क्री-रव किया। राजा-रानी को उसकी आवाज सुनकर कुछ विस्मय हुआ और वे दोनों उसी ओर आगे बढ़े। उन्हें विलकुल निकट आया देख मयूरनी भयभीत हुई। माता को अपनी सन्तान प्यारी होती है। परन्तु अपने प्राण सन्तान से भी अधिक प्यारे होते हैं। मयूरनी संकट की कल्पना करके वहाँ से उड़ी और पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठ गई।

राजा-रानी अंडों के पास पहुँचे। देखा, वहाँ दो अंडे थे। रानी ने कुतूहल से प्रेरित होकर एक अंडा अपने हाथ में उठा लिया। रानी फाग खेलकर आई थी और उसके हाथों में रंग लगा हुआ था। हाथ का रंग अंडे में लग गया और इस प्रकार अंडे का स्वाभाविक रंग बदल गया! जब रानी ने अंडा हाथ में उठाया तब मयूरनी ने अत्यन्त करुण चीत्कार किया। उसके दर्दभरे चीत्कार को सुनकर राजा-रानी का दिल दया

से द्रवित हो उठा रानी ने उसी समय अंडा यथास्थान रख दिया ।

राजा रानी वहाँ से चल दिये । ज्यों ही वे कुछ दूर पहुँचे कि मयूरनी फिर अंडो के पास पहुँची । मगर रानी का रंगभरा हाथ लगने से जिस अंडे का रंग बदल गया था, उसे मयूरनी पहचान न सकी । उसे भ्रम हो गया और उसने उस अंडे का सेवन नहीं किया ।

सोलह घड़ियाँ बीत गई । संयोगवश आकाश में मेघ मंडराये और गहरी वर्षा हुई । वर्षा की बूंदों ने अंडे का रंग धो दिया । अंडा अपने असली रूप में प्रकट हो गया । मयूरनी ने तब अंडे को पहचान लिया और उसका सेवन किया । इस प्रकार अंडे को सोलह घड़ी का अन्तराय हुआ ।

जीव कुतूहल से प्रेरित होकर, हँसी-हँसी में कर्म बन्ध कर लेता है, परन्तु उस कर्म का विपक दुस्सह हो जाता है । हँसकर बाँधे हुए कर्म रो-रोकर भुगतने पड़ते हैं । इसी कारण ज्ञानी-जनों का उपदेश है कि बिना विचारे कार्य करना योग्य नहीं है ।

इस प्रकार राजा-रानी आनन्द-विनोद में अपना समय यापन कर रहे थे । एक वार विमल सती का उपदेश सुनकर रानी को विरक्ति हुई । उसने संसार के भोगों को दुःख का कारण समझकर त्याग दिया । वह दीक्षा लेकर आर्यिका हो गई । आर्यिका के योग्य उग्र तपश्चरण करके और अन्त में एक

मास का संथारा करके मोहिनी सती वारहवें देवलोक में उत्पन्न हुई ।

देवलोक की स्थिति पूर्ण होने पर मोहिनी के जीव ने रुक्मिणी के रूप में जन्म ग्रहण किया और श्रीकृष्ण की वल्लभा पटरानी का पद प्राप्त किया ।

रुक्मिणी को सोलह वर्ष तक पुत्र-वियोग की पीड़ा सहनी पड़ी, इसका कारण यही है की उसने पूर्वभव में सोलह बड़ी का अंडे को अन्तराय लगाया था ।

कुमार ! उपाजित कर्म भोग विना नहीं छूटते । अतएव जो कर्मों के दुर्विपाक से बचना चाहता है, उसे कर्मों के बन्धन से बचने का प्रयत्न करना चाहिए । सुख के बदले सुख और दुःख के बदले दुःख प्राप्त होता है !

अन्त में मुनिराज बोले—कुमार ! कनकमाला के पास रोहिणी और प्रजप्ति नामक दो विद्याएँ है । वे दोनों तुम्हारे भाग्य में हैं । उनकी सहायता से चिन्तित कार्य की सिद्धी होती है । कनकमाला मोह के वशीभूत होकर दोनों विद्याएँ तुम्हें दे देगी ।

कुमार—अनाथों के नाथ ! आपने मेरा मंशय निवारण करके अत्यन्त अनुग्रह किया है । मैं कृतज्ञ हूँ ।

इस प्रकार कहकर और वन्दना करके वह चल दिया । कुमार दोनों विद्याएँ ग्रहण करने की उत्कंठा से कनकमाला के पास पहुँचा । इस वार उसने कनकमाला को न प्रणाम किया,

न विनयभाव ही व्यक्त किया। उसके सामने जाकर सिर्फ खड़ा हो गया और उसका मुख-चन्द्र देखने लगा।

— — —

: ३ :

विद्या-दान

— ❖❖❖❖ —

प्रद्युम्न को सामने खड़ा देख कनकमाला का हृदय बाँसों उछलने लगा। उसने सोचा—कुमार मेरे रूप पर मुग्ध हो गया है। अब वह मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा। इस प्रकार सोचकर वह बोली—हे पुरन्दर ! आपने यहाँ पधारकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा तन, मन और धन सर्वस्व आपको समर्पित हैं। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी होकर रहूँगी।

कुमार—देखो, यह घटना साधारण नहीं है। यह बात प्रगट हो जायगी तो भारी तहलका मच जायगा। समस्त राजपरिवार मेरे विरुद्ध हो जायगा। उस समय मैं अकेला वालक किस प्रकार सबका मुकाबिला कर सकूँगा ?

कनकमाला—कुमार ! इसकी चिन्ता न करो। मेरे पास दो विद्याएँ हैं जो तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। उन्हें पाकर आप इतने सामर्थ्यवान् बन जाएंगे कि आपका कोई वाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। मेरी अभिलाषा पूरी करोगे तो वह दोनों विद्याएँ मैं आपको दे दूँगी।

कुमार—कौन कौन सी विद्याएँ हैं आपके पास ?

कनकमाला—रोहिणी और प्रज्ञप्ति । रोहिणी विद्या के प्रभाव से नाना प्रकार के अभीष्ट रूप बनाये जा सकते हैं और प्रज्ञप्ति विद्या के बल से मनचाही सेना का निर्माण किया जा सकता है । यह दो विद्याएँ प्राप्त हो जाने पर किसी की शक्ति नहीं जो आपका कुछ भी विगाड़ कर सके ।

प्रद्युम्न, रानी की विद्याएँ ग्रहण करने के अभिप्राय से मीठी-मीठी बातें करने लगा । बोला मैं आपका किकर हूँ । आज तक मैंने आपकी कोई आज्ञा नहीं टाली है । यदि आप दोनों विद्याएँ मुझे देने को तैयार हैं तो आपका सेवक हूँ ।

कामान्ध कनकमाला विवेकभ्रष्ट हो ही चुकी थी । उसने प्रद्युम्न की बात सुनकर और अपना मनोरथ पूर्ण हुआ समझकर विधि-सहित दोनों विद्याएँ कुमार को सिखला दीं ।

कुमार ने कहा—अभी मैं जाता हूँ और दोनों विद्याएँ सिद्ध करके शीघ्र ही आपके पास आऊंगा । फिर आपका आज्ञाकारी होकर रहूँगा ।

तत्पश्चात् कुमार एकान्त में चला गया । वह महान् पुण्यशाली और शीलवान् था । पुण्य की प्रबलता के कारण थोड़ी ही देर में दोनों विद्याएँ सिद्ध हो गई ।

न विनयभाव ही व्यवत किया। उसके सामने जाकर सिर्फ खड़ा हो गया और उसका मुख-चन्द्र देखने लगा।

— — —
: ३ :

विद्या-दान

— — ❖❖❖❖ — —

प्रद्युम्न को सामने खड़ा देख कनकमाला का हृदय बाँसों उछलने लगा। उसने सोचा—कुमार मेरे रूप पर मुग्ध हो गया है। अब वह मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा। इस प्रकार सोचकर वह बोली—हे पुरन्दर! आपने यहाँ पधारकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा तन, मन और धन सर्वस्व आपको समर्पित हैं। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी होकर रहूँगी।

कुमार—देखो, यह घटना साधारण नहीं है। यह बात प्रगट हो जायगी तो भारी तहलका मच जायगा। समस्त राजपरिवार मेरे विरुद्ध हो जायगा। उस समय मैं अकेला बालक किस प्रकार सबका मुकाबिला कर सकूँगा ?

कनकमाला—कुमार! इसकी चिन्ता न करो। मेरे पास दो विद्याएँ हैं जो तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। उन्हें पाकर आप इतने सामर्थ्यवान् बन जाएंगे कि आपका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। मेरी अभिलाषा पूरी करोगे तो वह दोनों विद्याएँ मैं आपको दे दूँगी।

कुमार-कौन कौन सी विद्याएँ हैं आपके पास ?

कनकमाला—रोहिणी और प्रज्ञप्ति । रोहिणी विद्या के प्रभाव से नाना प्रकार के अभीष्ट रूप बनाये जा सकते हैं और प्रज्ञप्ति विद्या के बल से मनचाही सेना का निर्माण किया जा सकता है । यह दो विद्याएँ प्राप्त हो जाने पर किसी की शक्ति नहीं जो आपका कुछ भी विगाड़ कर सके ।

प्रद्युम्न, रानी की विद्याएँ ग्रहण करने के अभिप्राय से मीठी-मीठी बातें करने लगा । बोला मैं आपका किकर हूँ । आज तक मैंने आपकी कोई आज्ञा नहीं टाली है । यदि आप दोनों विद्याएँ मुझे देने को तैयार हैं तो आपका सेवक हूँ ।

कामान्ध कनकमाला विवेकभ्रष्ट हो ही चुकी थी । उसने प्रद्युम्न की बात सुनकर और अपना मनोरथ पूर्ण हुआ समझकर विधि-सहित दोनों विद्याएँ कुमार को सिखला दीं ।

कुमार ने कहा-अभी मैं जाता हूँ और दोनों विद्याएँ सिद्ध करके शीघ्र ही आपके पास आऊंगा । फिर आपका आज्ञाकारी होकर रहूँगा ।

तत्पश्चात् कुमार एकान्त में चला गया । वह महान् पुण्यशाली और शीलवान् था । पुण्य की प्रबलता के कारण थोड़ी ही देर में दोनों विद्याएँ सिद्ध हो गईं ।

उधर कनकमाला अत्यन्त आतुरता के साथ कुमार की बाट जोह रही थी। एक एक पल उसे एक एक संवत्सर के समान प्रतीत हो रहा था। दोनों विद्याएं सिद्ध करके कुमार प्रसन्न-चित्त होकर कनकमाला के पास जा पहुंचा। उसके चरणों में प्रणाम करके वह बोला—आपकी मुझपर असीम कृपा है। आपकी कृपा से मैंने दोनों विद्याएं सिद्ध कर ली हैं। अब आप आज्ञा दीजिए, वही करूंगा।

कनकमाला के पैरों तले की जमीन खिसक गई! कुमार ने उसे जो प्रणाम किया, उससे वह घबरा उठी। फिर बोली—मैं तो आपकी दासी हूँ। दासी के पैरों में गिरना आपको शोभा नहीं देता!

कुमार—मैंने अपनी माता को कभी आंखों नहीं देखा। अतः आप ही मेरी माता हैं। आपने मातृ धर्म का पालन करके मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र के समक्ष माता को इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। जरा सोच विचार कर बोलिए।

कनकमाला के मंसूबों का महल ढहने लगा। वह क्या सोच रही थी और क्या घटित हो रहा है? उसके हृदय को भारी आघात लगा। दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त दीनभाव से वह कहने लगी—प्यारे! अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। बात कहकर बदल जाना उचित नहीं है। प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए रामचंद्रजी ने वनवास अंगीकार किया था। अपनी बात को रखने के लिए अनेक पुरुषों ने घोर से घोर कष्ट सहन

किये हैं। आप अपनी बात पर दृढ़ रहेंगे तो आपको तो कोई दुःख होने वाला नहीं है, उलटा सुख ही प्राप्त होगा ! फिर कहकर क्यों बदलना चाहते हैं ? उत्तम पुरुष वही है जो की हुई प्रतिज्ञा से विचलित न हो। कहा भी है—

न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः ।

धीर-वीर पुरुष एक बार निश्चित की हुई बात को छोड़ते नहीं हैं। अतः हे प्रियतम ! अब अधिक खींचतान न करो। मेरी मनोकामना पूरी करो।

प्रद्युम्न—महारानीजी ! इस समय आपकी विवेक बुद्धि लुप्त हो रही हैं। इसी कारण आप मुझे दोष दे रही हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा की है, प्राण देकर भी उसका पालन करने को उद्युत हूँ और रहूँगा। मैंने आपका सेवक होकर रहने का वचन दिया है। सेवक का धर्म सेवा करना है और मैं उसके लिए तत्पर हूँ। अपने स्वामी अथवा स्वामिनी को धर्म से भ्रष्ट करना सेवक का धर्म नहीं। सेवक का धर्म स्वामी को ऊंचा उठाना है, गिराना नहीं। अतएव मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे आपका अधःपतन हो।

कनकमाला—इसमें अधःपतन का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं सुख का अनुभव करना और दूसरे को सुख पहुँचाना क्या अधःपतन है ? ब्रम्हा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, बृहस्पति आदि सभी प्रणय के पाश में बंधे थे। सभी ने ऐसा किया है। हमारी तुम्हारी गिनती ही क्या !

प्रद्युम्न—ठीक है, लेकिन आपने कभी यह भी सोचा है कि व्यभिचार का फल उन्हें किस प्रकार भुगतना पड़ा ? अनुचित विषयवासना के प्रभाव से चन्द्रमा कलंकयुक्त हुआ, बृहस्पति का मान भंग हुआ, इन्द्र को दण्ड भोगना पड़ा और ब्रम्हा का खर मुख हुआ ! रावण जैसे प्रचण्ड शक्ति सम्पन्न राजा को नरक का अतिथि बनना पड़ा ! व्यभिचार की बदौलत आज तक किसने सुख पाया है ? माता ! यह घोर पातक है । इहभव और परभवको बिगाड़ने वाला है । व्यभिचारी पुरुष और स्त्री इहभव मे घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते है और मरने के पश्चात दुर्गति पाकर भीषण यातनाएँ भोगते हैं ।

महारानी ! भले ही आपने मुझे जन्म नहीं दिया है, मगर दूध तो पिलाया है । इसलिए आप मेरी माता हैं । फिर विद्याएँ देने के कारण आप गुरुणी भी बन गई हैं । इस प्रकार मैं आपके चरणों का चाकर हूँ, आपकी गोदी का बालक हूँ । मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे कोई अयोग्य बात न कहिए ।

कुमार की बात सुनकर कनकमाला के चित्त मे घोर निराशा छा गई । निराशा की दशा मे मनुष्य कभी-कभी अत्यन्त विकराल हो उठता है । कनकमाला ने भी व्याघ्री की तरह विकराल रूप धारण किया । वह क्रोध से कापने लगी । अंग-अंग में ज्वालाएँ उठने लगी । उसके नेत्र जलने लगे । वह अपने आसन से उठकर कुमार के निकट आई और कुमार का पल्ला पकड़ने लगी । कुमार पल्ला छुड़ाकर बाहर भाग गया और अपने महल मे पहुंच गया ।


कुमार को भाग गया देख कनकमाला की जो हालत हुई, उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तत्काल धरती पर गिर पड़ी। जोर-जोर से चिल्लाने लगी। हाथ मसलने लगी, छाती पीटने लगी और सिर धनने लगी। हाय दुद्वै !' कह-कह कर चीत्कार करने लगी। उसका हृदय पश्चाताप की ज्वालाओं से दग्ध होने लगा। सोचने लगी- हाय ! मेरे जन्म को धिक्कार हैं ! मैंने अपनी लज्जा भी त्यागी और मनोरथ भी पूरा नहीं हुआ। उस छलिया ने मुझे छल लिया। प्रद्युम्न ने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ विश्वासघात किया ! मैंने अपनी विद्याएं भी गंवा दी। हाय ! अब मैं किस प्रकार जीवित रह सकुंगी और कैसे किस को अपना मुंह दिखलाऊंगी।

कनकमाला फिर सोचने लगी-प्रद्युम्न ने मेरे साथ कपट किया है। इसका बदला न लिया तो फिर मैं विद्याधरी ही कैसी ? मैं भरपूर बदला लूंगी। प्रद्युम्न को बेईमानी का मजा चखाऊंगी। उसे भयंकर विपत्ति में डालूंगी। तभी मेरे मन का सन्तोष होगा।

इस प्रकार का दुष्ट संकल्प करके कनकमाला ने त्रियाचरित करने का निश्चय कर लिया। उसने सोच लिया कि किसी भी उपाय से प्रद्युम्न के प्राणों का विनाश करना ही उचित होगा। ऐसा किये विना न मेरी लज्जा रहेगी और न मुझे सन्तोष ही होगा।

: 8 :

षड्यन्त्र



स्त्रियो ह्यकरुणाः क्रूरा, दुर्मर्षा प्रियसाहसाः ।
घनन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रद्धं, पतिं भ्रातरमप्युत ॥

स्त्री जब निर्दय हो जाती हैं तो भयानक क्रूर रूप धारण कर लेती है। उसका प्रतिकार करना कठिन हो जाता है, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने में वह हिचकती नहीं और साधारण से प्रयोजन के लिए भी अपने पति या भ्राता का घात करने में भी नहीं चूकती।

कवि का यह कथन कनकमाला के सम्बन्ध में पूरी तरह सत्य उतरता है। वह थोड़ी देर पहले प्रद्युम्न कुमार पर जान देने को तैयार थी, अब थोड़ी देर बाद ही उसके प्राण लेने को तैयार हो गई! उसने देखा कि कुमार किसी प्रकार भी मेरे चंगुल में नहीं फंसता तो उसने उसे घोर संकट में फंसाने का निश्चय कर लिया।

कनकमाला का रुदन और चित्कार सुनकर आसपास के दास, दासियाँ और परिवार के लोग दौड़े आये। उसकी कई सौते भी आ पहुँची। सबने रोने का कारण पूछा, बार-बार

आग्रह करके कारण जानना चाहा, मगर कनकमाला को रोने और चिल्लाने से फुर्सत ही कहाँ थी कि किसी से बात करती ! वह अविश्रांत रूप से रोने लगी ।

कहा जाता है स्त्री का फंदा बड़ा ही बिकट होता है । विवेकवान् पुरुष को उसमें फंसना नहीं चाहिए । नारी की प्रकृति बहुत कुछ कुक्कुरी के समान होती है । कुक्कुरी खीझने पर चाटती है और खीझने पर काटती है । इसी प्रकार स्त्री का तोष और रोष दोनों ही पुरुष के लिए हानिकारक होते हैं ।

कनकमाला को, वहाँ उपस्थित सभी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया मगर वह कब मानने वाली थी ? आखिर एक दासी राजा यमसंवर के पास दौड़ी-दौड़ी गई । उसने राजा को सब वृत्तान्त बतलाया । राजा भी सब काम-काज छोड़कर उसी समय कनकमाला के पास आया । राजा को आता देख रानी और भी अधिक चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगी । रानी की यह स्थिति देखकर राजा के हृदय को तीव्र आघात लगा । वह वेदना से उद्विग्न होकर रानी से रोने का कारण पूछने लगा । रानी थोड़ी देर रोती रही । अनेक बार पूछने पर उसने कहा—“प्रियतम ! मेरा स्पर्श मत कीजिए मैं तो आपके पुत्र की प्रियतमा हूँ—पुत्रवधू हूँ !”

राजा चकित रह गया । रहस्य उसकी समझमें नहीं आया । आखिर रानी से पूछा—स्पष्ट कहो, बात क्या है ?

रानी—बात क्या है ? बेटे को सिर पर चढ़ाने का फल भुगतना पड़ रहा है ! आपने सिर चढ़ाया, मुझे फल भोगना पड़ा ! आज आपके लाडले लाल ने मेरी आबरू लेली ।

राजा—किस लड़के ने क्या किया है ? किस प्रकार तुम्हारी आबरू ली है ? झट बतलाओ, मैं अभी-अभी उसकी चमड़ी उधड़वा लूंगा ।

रानी—परदेशी पंछी कभी अपना नहीं होता ! प्राणेश ! जिसे अपने पेट जाये पुत्र की भांति पाला-पोसा, प्यार किया, बड़ा किया, वही आज मेरी बेइज्जती का कारण बन गया ! किसे पता था कि हम अपने हाथों विष-वृक्ष को रोप रहे हैं और उसके फल हमारे प्राण ले लेंगे ? हमने प्रद्युम्न को क्या पाला, काले नाग को पाला ! यह तो गनीमत हुई कि आपकी कृपा से मेरे शील की रक्षा हो गई, मगर उसने अपनी तरफ से कुछ भी कमी नहीं रक्खी । ऐसे दुष्ट और पापी के प्राणों का हरण न किया गया तो मेरा जीवन किस काम का ?

राजा—हा ! प्रद्युम्न इतना नीच और जघन्य हैं, यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ! यदि यह बात प्रकट हो जायगी तो हम लोग मुंह दिखलाने योग्य ही नहीं रहेंगे ! अतएव उसे गुप्त रूप से मरवा डालना ही योग्य है । प्रिये ! विश्वास रखो, प्रद्युम्न को शीघ्र ही तुम निष्प्राण हुआ देखोगी ।

इस प्रकार रानी को आश्वासन देकर यमसंवर ने अपने पांच सौ पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा—पुत्रगण ! प्रद्युम्न

कुमार को मैंने तुम लोगों का अधिकार छीनकर युवराज बना दिया है। उसके जीतेजी युवराज पदवी छीन लेना उचित नहीं है। तुम किसी उपाय से उसे मार डालो तो तुम्हारे रास्ते का काँटा दूर हो जायगा। तुम मे से ही किसी को मैं युवराज-पदवी देना चाहता हूँ। मगर एक बात ध्यान में रखना। इस रहस्य का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। उसे मार डालने की बात प्रकट हो जायगी तो हम सब की घोर निन्दा होगी और प्रजा भी असन्तुष्ट हो जायगी क्यों कि उस धूर्त ने प्रजा के मन को मोह लिया है। बोलो यह काम तुमसे हो सकेगा ?

कुमारों को पिता की बात सुनकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वे समझते थे कि पिताजी प्रद्युम्न को ही सब से अधिक चाहते हैं। किन्तु पिता के मुख से आज यह बात सुनकर उनकी प्रसन्नता का पार न रहा वे स्वयं जो करना चाहते थे, पिता का आदेश भी वही करने को मिल गया, इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है ? उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और राजा वहाँ से चल दिया।

कुमारों का हर्ष उनके हृदय में समाता नहीं था। वे आपस में मिलकर प्रद्युम्न को मार डालने का उपाय खोजने लगे। आखिर उन्होंने कपटी मित्र बनकर उसके प्राण लेने का निश्चय किया।

मगर पुण्य की महिमा असाधारण है। पुण्य जिसका मित्र हो, उसका शत्रु कुछ भी विगाड़ नहीं सकते। विद्यादेवी ने कुमारों के कपट की बात तत्काल कुमार को प्रकट कर दी। कुमार सावधान हो गया और विद्यादेवी के कथनानुसार ही कार्य करने लगा।

सब कुमारों ने मिलकर खेल का कार्य-क्रम निश्चित किया। वे प्रद्युम्न को साथ लेकर एक अन्ध-वापिका में खेल खेलने चले। सबने प्रद्युम्न को उस वापिकामें गिरा देने का निश्चय कर लिया था। किन्तु विद्या के प्रसाद से प्रद्युम्न उनकी इस योजना से परिचित हो गया था। उसने अपना दूसरा रूप बना लिया और उसी रूपसे वह कुमारों के साथ खेलने लगा। असली रूप में अलग ही बना रहा।

खेल आरम्भ हुआ। सब कुमार एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बावड़ी में कूदे। बावड़ी में वे प्रद्युम्न कुमार को खोजने लगे। उनकी योजना यही थी कि प्रद्युम्न को इसी बावड़ी में पकड़ कर दबोच लिया जाय। मगर प्रद्युम्न कुमार लापता था। इधर-उधर सब तरफ खोजने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला।

उधर प्रद्युम्न ने कुमारों की दुष्टता का फल उन्हें चखाने के अभिप्राय से बावड़ी के नाप की एक बड़ी शिला की विक्रिया की और वह शिला बावड़ी पर ढक्कन की भाँति ढँक दी। फिर अपनी विद्या के बल से सब कुमारों के पैर उस शिला से चिपका दिये। सब चमगीदड़ की भाँति उलटे लटक गये। दुःख और परेशानी के मारे वे चीखने-चिल्लाने लगे और प्रद्युम्न कुमार अलग बैठा तमाशा देखने लगा।

पाँच सौ कुमार में से सिर्फ एक कुमार किसी प्रकार बच रहा था। उसने अपने भाइयों की दुर्दशा देखी तो वह चीख मारता हुआ अपने पिता के पास गया। कहा—पिताजी, गजब हो गया! भारी अनर्थ हो रहा है! दौड़िये जल्दी दौड़िये। भाइयों के प्राण बचाइए!

राजा यमसंवर ने पूछा—इतना क्यों घबड़ा रहा है ? क्या हुआ, साफ-साफ बतला तो सही ! तेरे और सब भाई कहाँ हैं ?

वह कुमार बोला—प्रद्युम्न कुमार ने सबको प्राण-संकट में फँसा दिया है। वे बावड़ी में थे, तब उसने एक भारी शिला से बावड़ी ढँक दी है। सब भाई उसके नीचे दबे चिल्ला रहे हैं !

यमसंवर के कोप का पार न रहा। क्रोध से काँपते हुए उसने कहा—वह अश्रम पापी प्रद्युम्न इतना सिर चढ़ गया है ? उसे विद्याओं का घमण्ड हो गया है ! दुष्ट कहीं का अपने भाइयों की जान लेने पर उतारू हो गया है ! उस धृष्ट छोकरे का पुण्य अब समाप्त हो चुका है ! उस कृतघ्न को समझ लेना चाहिए कि विद्याधरों का स्वामी उस पर कुपित हो गया है। अब उसकी खैर नहीं। अभी उसकी करतूत का फल चखाता हूँ !

विद्याधरनाथ यमसंवर ने उसी समय सेनापती को बुलवा कर सेना सुसज्जित करने का आदेश दिया। कहा—इसी समय चतुरंगी सेना तैयार करो। यह आदेश मिलते ही सेना तैयार हो गई। यमसंवर हाथी पर सवार हुए। शूरवीर सैनिकों के साथ वह उसी ओर रवाना हुए जिस ओर बावड़ी थी। बावड़ी पर पहुँच कर यमसंवर ने कहा—दुराचारी मूर्ख ! अब विद्या की सहायता से छिप क्यों रहा है ? अघम कीट ! अपने गरीब भाइयों की जान लेने को तैयार हुआ है ? अब अपना कलंकित मुख क्यों छिपाता है ? हिम्मत है तो सामने आ, मैं

तुझे तेरी करतूत का मजा चचाऊँगा । दूसरी माता का दूध न पिला दूँ तो मेरा नाम यमसंवर नहीं ! यमसंवर आज तेरे लिए यम का रूप धारण करके आया है ! समझ ले, तेरा पुण्य क्षीण हो चुका है । अब तुझे पाप का फल भोगना पड़ेगा । कलंकी कपूत ! आ, मेरे सामने आ !



: ७ :

पिता-पुत्र का युद्ध

पिता के हीनता से परिपूर्ण और चुनौती देने वाले वचन सुनकर प्रद्युम्न कुमार के अंग-अंग से क्रोध की चिनगारियाँ निकलने लगी । वह सोचने लगा—मैं सर्वथा निर्दोष हूँ । न्यायनीति और धर्म के पथ पर चल रहा हूँ । मैंने अपने और अपनी माता के शील की रक्षा की है । क्या यही मेरा अपराध है ? शील की रक्षा करने के कारण ही मैं अधम और कलंकित हो गया हूँ ! पाँच-सौ राजकुमार मिल कर मेरे प्राण लेना चाहते हैं । मैंने अपना वचाव दिया और उन्हें मौख दी । क्या यह मेरा अपराध है ? आन्दोलन में मैंने कौन-सा दृष्टकर्म किया है, जिससे पिताजी भी इतनी बड़ी सेना लेकर चढ़ आये हैं और मुझे दूसरी माँ का दूध पिलाना चाहते हैं ? पिताजी इन अनाचारों का पक्ष लेकर आये हैं और एक प्रकार से अनाचार का पोषण करना चाहते हैं । अगर मैं डग मग

चुपचाप रहता हूँ तो असली बात प्रकट नहीं होगी और भविष्य अनर्थकारी होगा। उचित यही है कि अब इनका मुकाबला किया जाय और इन्हें अपनी शक्ति का तथा असलियत का परिचय दिया जाय।

इस प्रकार का संकल्प करके महावली प्रद्युम्नकुमार ने विद्या के बल से उसी समय विराट सेना तैयार कर ली। पहाड़ सरीखे विशालकाय हाथी, वायुवेग के समान चंचल घोड़े, सुदृढ़ एवं सुन्दर रथ तथा गमदूत के सुदृश बलवान पैदल सिपाही तैयार हो गये। कृष्ण वर्ण के हाथी मेघों की घटाओं के समान प्रतीत होते थे और उनके ऊपर स्वर्णमय हौदे जैसे चमक रहे थे, मानों बिजली चमक रही हो ! उनके घण्टे मेघगर्जना के समान गम्भीर ध्वनि कर रहे थे। उत्तम जाति के घोड़े अपनी छटा अलग ही दिखला रहे थे। थोड़े-थोड़े करते हुए वे पृथ्वी पर नाच-से रहे थे। उन पर रणनिपुण शूरवीर सवार थे। रथ संग्राम के योग्य थे और उनमें सुन्दर और बलिष्ठ बैल जुते थे। उनकी घरघराट का शब्द शत्रुओं का दिल दहला रहा था। मदमाते पैदल युद्धोन्माद से मानों उन्मत्त हो रहे थे। उनके शरीर पर फौलाद के वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। ढाल तलवार आदि से सुसज्जित थे। वे वीर-रस की मूर्ति के समान जान पड़ते थे।

युद्ध का नगाड़ा बज उठा। सैनिकों का उत्साह सौ गुना हो गया। रण छिड़ गया। हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े, रथ से रथ और पैदल से पैदल भिड़ गये। रक्त की नदियाँ बहने

लगी, मांस का कीचड़ हो गया। विकराल दृश्य दिखलाई देने लगा। उस दृश्य को देखकर कायरों का कलेंजा कांपने लगा और शूरो का उत्साह बढ़ने लगा।

थोड़ी ही देर हुई थी कि प्रद्युम्न की सेना ने राजा यमसंवर की सेना का बहुत सा भाग मार गिराया। प्रद्युम्न अब राजा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। राजा ने देखा कि अब मेरा बचाव होना कठिन है तो वह रणक्षेत्र से भागकर कनकमाला के पास पहुँचा। घबराये हुए राजा ने अपनी पटरानी से कहा— अपनी और हमारी कुशल-क्षेम चाहती हो तो अपनी दोनों विद्याएँ जल्दी से मुझे दे दो। उस महान् धूर्त व कृतघ्न प्रद्युम्न ने मेरी सारी सेना का सफाया कर डाला है। अब तुम्हारी विद्याओं के बल से ही हमारी आवरु कायम रह सकती है और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है।

राजा की बात सुनकर रानी की क्या दशा हुई होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है। वह अत्यन्त चिन्तित, उद्विग्न और लज्जित होकर बोली—प्राणनाथ, विद्याएँ तो मेरे पास रही नहीं !

राजा—कहां गई ? तुमने किसे दे दी है ?

रानी लज्जा और पश्चात्ताप के कारण जमीन के और देखने लगी। वह प्रद्युम्न का नाम लेने में झिझकने लगी। अगर चुप्पी साधने का समय नहीं था। अतएव उसने लजाते हुए कहा—स्वामिन् ! प्रद्युम्न महाधूर्त हैं। उसने मुझे ठग लिया है।

कनकमाला की च़ेष्टएँ देखकर राज़ा ने वास्तविक बात का अनुमान कर लिया । कनकमाला का कपटाचार उससे छिपा नहीं रहा । उसने अंगारों के समान दहकते हुए नेत्रों से रानी के चेहरे की ओर देखा । रानी उन नेत्रों का सामना न कर सकी वह सहम उठी और धरती की ओर देखने लगी ।

राजा सुस्त हो गया । सब कुछ समझ गया । सोचने लगा—मैंने विना विचारे कदम उठाया है ! प्रद्युम्न महान पुण्यशाली हैं, भाग्यवान् है, सुशील और संतोषी है । वह कदापि दुष्कर्म नहीं कर सकता । वह विवेकवान् कु मार मर्यादा को भंग नहीं कर सकता । यह कनकमालाही दुराचारिणी है । पुत्र के रूप पर मुग्ध होकर, काम से विव्हल होकर ही सने उसे विद्याएँ दे दी हैं । यह सब इसी की करतूत हैं । इसी ने त्रिया चरित किया है । वास्तव मे मैंने इसकी बात पर विश्वास करके बड़ी भूल की हैं । लेकिन अब क्या करना चाहिए? कुमार को जीतना सम्भव नहीं है और हारने से अपमान होता है ।

इस प्रकार संकल्प विकल्प मे पड़ा हुआ यमसंवर फिर अपनी सेना की ओर चल पड़ा । मगर उसकी समस्या अनायास ही हल हो गई ।

साधारण लोग स्थूल पदार्थों की शक्ति को लोहा मानते हैं किन्तु अन्तःकरण की भावना मे कितनी अद्भुत शक्ति निहित हैं, यह वे नहीं समझ पाते । वास्तव मे भावना बड़ी प्रबल होती है । दूसरों के दिल-दिमाग पर प्रभाव डालने की जितनी

क्षमता भावना मे है, उतनी जगत् के किसी भी अन्य पदार्थ मे नही है। हम प्रत्यक्ष देखते है कि परस्पर वार्तालाप करते हुए दो व्यक्तियों मे से जब एक कुपित होता है तो उसके क्रोधमय भाव का दूसरे पर तत्काल असर हो जाता है और दूसरा भी क्रुद्ध हो उठता है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रबल उपशम भाव से विभूषित हो और सामने वाले के क्रोध करने पर भी क्षमा का त्याग न करे तो उस व्यक्ति का क्रोध भी उसी प्रकार शान्त हो जाता है—जिस प्रकार पानी मे गीरकर अग्नि शान्त हो जाती है। इसी कारण शास्त्रों मे भावना शुद्धि पर बहुत भार दिया गया है। प्रबल भावना से सम्पन्न व्यक्ति के लिए तीन लोक मे कुछ भी असाध्य नही रह जाता।

राजा यमसंवर की कुमार प्रद्युम्न पर अभी तक विरोधी भावना थी, मगर कनकमाला की चेष्टाओं को देखकर उसने सत्य का अनुमान कर लिया। उसे कुमार के सुशील होने का विश्वास-सा हो गया और इस कारण उसकी विरोधी भावना भी शिथिल पड़ गई। राजा की इस भावना का प्रभाव अज्ञात रूप से कुमार की भावना पर भी पड़ा।

कुमार विचार करने लगा—ओहो, मैंने आज कितना अविचारपूर्ण कृत्य कर डाला है ! मैंने किसके साथ युद्ध किया ? पिता के साथ ? पिता तो प्रत्येक अवस्था में पूजनीक है। उनकी कृपा से ही मैं इस स्थिति पर पहुँचा हूँ। उनकी अनुकम्पा न होती तो मैं असुर की प्रतिशोध-भावना का शिकार होकर जंगल मे शिला के नीचे ही दब कर मर गया होता !

उन्होंने मेरी प्राण रक्षा की, मेरा पालन-पोषण किया, मुझे स्नेह का दान दिया और युवराज बनाकर अपने राज्य का भावी स्वामी भी बना दिया ! ऐसे उपकारक और उदार पिता का सामना करना मेरे लिए अनुचित है । पिताजी से तो पराजित होने मे ही पुत्र की शोभा है शरीर मे नासिका का महत्वपूर्ण स्थान है । वह सभी अंगों की शोभा बढ़ाती है, फिर भी मस्तक के नीचे ही रहती है । इसी प्रकार मुझको भी पिता के सामने नम्र होकर ही रहना चाहिए ।

इस प्रकार विचार करके कुमारने समस्त शस्त्रों का परित्याग कर दिया । निश्शस्त्र होकर पिता के समीप आकर कुमार पिता के पैरों मे गिर गया । बोला—तात, मैं आपका कपूत बेटा हूँ । मगर माता-पिता कपूत बेटे पर भी दया-भाव रखते है ! मेरे कृत्य के लिये इस वार क्षमा कीजिए ।

इसके पश्चात् उसने अपने भाइयों को भी बन्धनमुक्त कर दिया । सब राजा के समीप आये और कहने लगे—अब हम प्रद्युम्न से कभी नही उलझेंगे—सदा दूर ही रहेंगे !

आखिर सब मिलकर नगर में आये । सब हिल-मिल कर रहने लगे । मगर उनके मन का मैल नही गया । एक वार हृदय फट जाता है तो फिर मिलना बड़ा ही कठीन होता है । इसके अतिरिक्त प्रजा मदनकुमार की प्रशंसा किया करती थी अपने भाइयों को और पिता को पराजित करने के कारण वह और अधिक प्रशंसनीय बन गया था । उसकी कीर्ति और अपनी अपकीर्ति सुन-सुन कर माता-पिता का मन मुरझाया रहता

था। प्रद्युम्न महलों में आता जरूर था, किन्तु पहले के समान आदर उसे नहीं मिलता था।

यह नवीन परिस्थिति प्रद्युम्न कुमार के दिल में शूल की तरह चुभ रही थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था खाना-पीना आदि कुछ भी नहीं सुहाता था। दिन रात उदासी ही उदासी बनी रहती थी।

एक दिन प्रद्युम्नकुमार गम्भीर चिन्ता में डूबे एक उद्यान में बैठे थे। मन में तरह-तरह के विचार आ रहे थे। सोचते थे—देखो, इतने विशाल संसार में मेरा कोई अपना नहीं है—सभी मेरे लिए पराये हैं। सभी मुझे पराया समझते हैं। आत्मीयता के भाव से अपनाते वाला कोई नहीं है!

नारद ऋषि ने व्योम में विचरण करते हुए पिता-पुत्र का संग्राम देखा था। रुद्रिणी के अंगजात की वीरता देखकर उन्हें आनन्द हुआ था। वही नारदजी अब घूमते-फिरते उस उद्यान में आ पहुँचे। प्रद्युम्न को चिन्तातुर देखकर उन्होंने कहा—वत्स! तुम्हें किस बात की चिन्ता है? मेरे सामने कोई बात मत छिपाओ। जो मन में हो, स्पष्ट कह दो।

ऋषि को देखकर प्रद्युम्न अतीव प्रमुदित हुआ। संभ्रम के साथ उठकर उसने नारदजी को नमस्कार किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वह बोला—ऋषिवर! मुझे चिन्ता इस बात की है कि इतने बड़े संसार में मेरा कोई भी नहीं है! माता-पिता जन्म बने हुए हैं और भाई निरन्तर प्राण लेने का अवसर ढूँढते

रहते हैं। कहीं स्नेह नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता। जीवन में जरा भी माधुर्य नहीं, रस नहीं। मैं अपने जीवन को बोझ की तरह ढो रहा हूँ। ऐसी जिन्दगी की अपेक्षा तो मृत्यु ही अच्छी है ! मुझे मे रूप है, मगर इस बळ ने भी अनर्थ कर रक्खा है। मुझे सरीखे अभागी के लिए किसी के हृदय में रंचमात्र भी स्थान नहीं है !

नारदजी का हृदय भर आया। वह बोले—वत्स ! ऐसा न कहो। तुम सरीखा सौभाग्यशाली पुरुष तीन खण्डों में और कोई नहीं हैं। तुम पुण्य-पुरुष हो। विपुल ऋद्धि के स्वामी हो। मैं तुम्हारे परिवार का और तुम्हारी ऋद्धि का तुम्हें किंचित् परिचय देता हूँ।

: ६ :

प्रस्थान

नारद ऋषि ने अपने गले में अधिक से अधिक मधुरता लाकर मदनकुमार से कहा—वत्स, सुनो। सौराष्ट्र जनपद में स्वर्ग के समान सुशोभित द्वारिका नामक नगरी हैं। वहाँ अर्धचक्रवर्ती, महान् तेजस्वी वासुदेव श्रीकृष्ण प्रजा का पालन

करते हैं। वही वास्तव मे तुम्हारे पिता हैं। कृष्णजी की बत्तीस हजार रानियों मे अन्यतम पटरानी रुक्मिणी देवी हैं। वह तुम्हारी माता हैं। महाराजा वसुदेव तुम्हारे दादा होते हैं। बहत्तर हजार तुम्हारी दासियाँ हैं। बलदेवजी तुम्हारे ताऊ लगते हैं। तुम्हारे परिवार मे दस महाबली दशार्ह हैं, पाँच सौ महावीर हैं, साठ हजार दुर्दान्त है। तुम्हारा यह परिवार है!

बयालीस हजार हाथी, बयालीस हजार रथ और बयालीस हजार ही अश्व हैं। अड़तालीस हजार पैदल सैनिक है। छप्पन कोटि परिवार है। तुम्हारी ऋद्धि अत्यन्त विपुल है। यहाँ की ऋद्धि तो द्वारिका के ऋद्धि की तुलना मे अत्यन्त तुच्छ और नगण्य हैं। तुम्हारे माता-पिता तुम्हें देखने के लिए अत्यन्त आतुर हो रहे हैं।

वत्स प्रद्युम्न, यहाँ के राजपाट का मोह छोड़ो और शीघ्र ही द्वारिका के लिए खाना हो चलो। वह तुम्हारा अपना घर है। पर-घर मे मौज मानना व्यर्थ है। मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ और एक महान अवसर देखकर आया हूँ। संसार मे अवसर का बड़ा महत्व है। अवसर पर ही महान् प्रयोजन सिद्ध होते हैं, अवसर पाकर ही मनुष्य अपनी योग्यता का सिक्का जमाता है, अवसर पर ही प्रतिष्ठा और आदर पाता है। अवसर चूका सो चूका। गई वाजी फिर हाथ नही आती।

कुमार प्रद्युम्न ने ऋषि से निवेदन किया—आप मेरे हितैषी हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। आपके आदेश का उल्लंघन करना

में योग्य नहीं समझता। मैं द्वारिका चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। किन्तु माता-पिता से आज्ञा प्राप्त किये बिना चलना उचित नहीं प्रतीत होता। आप अनुमति दे तो मैं उनकी आज्ञा ले लूँ।

नारदजी—वत्स, निःसन्देह तुम विनीत, विवेकवान् हो। माता पिता के समीप जाकर भले उनसे आज्ञा ले आओ। मगर विलम्ब न करना। जल्दी लौट आना। हमे विमान में बैठकर शीघ्र द्वारिका पहुँचना है।

प्रद्युम्नकुमार नारदजी के पास से रवाना होकर पिता के पास पहुँचा। इस समय कुमार की अवस्था विचित्र-सी हो रही थी। उसकी आंखे आसू वरसा रही थी। पिता के सामने जाते ही उसका हृदय विवहल हो उठा। वह चरणों में गिरकर बोला—पिताजी, मैं आपका कपूत बेटा हूँ। मैंने आपको बहुतेरा क्लेश पहुँचाया है। मैं अपने समस्त अपराधों के लिए वार-वार क्षमा चाहता हूँ।

राजा यमसंवर भौंचक रह गये। इस समय अचानक प्रद्युम्न किस प्रयोजन से आया है और क्षमायाचना कर रहा है यह बात उनकी समझ में नहीं आई। आखिर प्रद्युम्न ने सब बात कह सुनाई और द्वारिका जाने का अपना संकल्प प्रकट कर दिया। यमसंवर प्रद्युम्न का संकल्प जानकर अत्यन्त दुखी हुए। उनके हृदय में ऐसी वेदना हुई, मानो एक साथ सैकड़ों विच्छुओं ने डंक मारा हो।

पिता से मिलकर प्रद्युम्न माता कनकमाला के पास पहुँचा। माता के चरणों में प्रणाम करके, हृद्ध कण्ठ से, हाथ जोड़कर

कहने लगा माता ! आपने मेरी सब इच्छाएँ पूर्ण की हैं । मैं आपके असीम ऋण को चूकाने में असमर्थ हूँ और असमर्थ ही रहूँगा । आप माता-पिता के समान उपकारक तीन लोक में और कोई नहीं हो सकता । मैं सुनसान जंगल में विशाल शिला के नीचे दवा अपने जीवन की अन्तिम श्वास ले रहा था, किन्तु आपने अनूकम्पा करके मेरे प्राण बचा लिये । सुख में मेरा पालन पोषण हुआ । आपके प्रसाद से मुझे विपुल ऋद्धि की प्राप्ति हुई । औरस पुत्र न होने पर भी आपने अपनी उदारता से मुझे युवराज पद प्रदान किया । इन सब महान् उपकारों का बदला मैं जन्मा-जन्मन्तर में भी नहीं चुका सकता । अब मैं अपने कुल में जाना चाहता हूँ । माता-पिता से दूर होते मेरा हृदय अत्यन्त व्याकुल हो रहा है, मगर भाग्य का विधान कौन टाल सकता है ? माताजी और पिताजी ! मुझे छाती से लगा लीजिए और चुम्बन लेकर मुझे आशीर्वाद दीजिये ।

राजा यमसंवर और कनकमाला के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी । प्रद्युम्न सदृश सुयोग्य पुत्र का वियोग कोई साधारण बात नहीं थी । उनकी छाती फटने लगी । कलेजा कटने लगा । मुख से बोल न निकला । वे सोचने लगे—आखिर पराया तो पराया ही रहा ! हाय, आज प्रद्युम्न हमें छोड़कर चलने को तैयार हो गया !

इसके बाद मदन ने अपनी पांच सौ माताओं को झुक-झुक कर प्रणाम किया और अपने अपराधों की क्षमा मांगी । सब भाइयों से भी विदाई ली और उन्हें सन्तोष तथा सान्त्वना

दी। फिर मन्त्रियों और सामन्तों के प्रति यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित किया उनके आगे मस्तक झुका कर कहा—मेरे अपराधों को क्षमा करना और कृपाभाव बनाये रखना। बदले में सबने कुमार को दुःखित हृदय में आशीर्वाद दिया। सभी लोग कुमार के खानगी का समाचार जानकर अत्यन्त शोकाकुल थे। सभी के नेत्रों से आंसू बरस रहे थे। सब गद्गद् हो रहे थे। किसी के मुख से पूरा वाक्य नहीं निकलता था। सर्वत्र बेचैनी फैल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि राजमहल की, नगर की और समस्त राज्य की श्री चली जा रही है। उस समय महल श्मशान की भांति भयानक प्रतीत होने लगा। समस्त प्रजाजन स्तब्ध रह गये !

कुमार राजमहल के समस्त दास-दासियों से भी प्रेम-पूर्वक मिले, सब को सान्त्वना दी और स्नेहभाव बनाये रखने का आग्रह किया।

सबके पश्चात् कुमार अपनी पत्नियों के पास पहुंचे। उनसे कहा—प्रियाओ ! संयोगवश मैं तुम से विदाई ले रहा हूँ। तुम सुख में रहना। यहाँ मन न लगे तो अपने पीहर चली जाना। मैं अपने माता-पिता से मिल कर शीघ्र ही तुम्हें बुला लूंगा। किसी भी प्रकार की चिन्ता न करना बहुत जल्दी हमारा-तुम्हारा मिलाप होगा।

कुमार की पत्नियों ने अश्रुजल से कुमार का अभिषेक करते हुए कहा—प्राणनाथ ! आपका पथ प्रशस्त हो ! आपके समस्त मनोरथ सिद्ध हों। आप द्वारिका के लिये पदार्पण करते हैं

तो भले कीजिए, किन्तु वहां जाकर हमे भूल न जाना। कृपा करके शीघ्र ही दर्शन देना। आप ही हमारे प्राणधार हैं। इस जगत् मे सिवा आपके हमारा और कोई नहीं है।

इस प्रकार कुमार सब से मिल-जुल कर और विदा लेकर रवाना हुआ। उसे विदाई देने के लिए सब उसके साथ चले। नगर के मुख्य बाजार मे होता हुआ कुमार उसी उद्यान की ओर चला जिसमें नारदजी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर-निवासी कुमार को जाता देख चकित और विषण्ण हो रहे थे। कोई-कोई आपस मे पूछते—यह पुण्यवान कुमार कहां जा रहा है? इनके माता पिता कौन है?

आखिर कुमार नारदजी के समीप पहुंचा। नारदजी ने कुमार के माता-पिता आदि का परिचय दिया और द्वारिका ले जाने की बात कह कर सब की जिज्ञासा और उत्कण्ठा पूर्ण की।

कुमार ने पुनः माता-पिता को प्रणाम किया और सबसे आज्ञा ली। उस समय का दृश्य अद्भुत था। कुमार के वियोग की वेदना सभी लोगों को विमूढ़ बना रही थी। सब एकाग्र भाव से उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे और आँसू बहा रहे थे। उसी समय नारदजी का संकेत पाकर कुमार प्रद्युम्न विमान पर आरूढ़ हुआ और पक्षी की भांति उड़ चला।

कुमार उड़ गया। लोग देखते रह गये। जब तक विमान आंखो से ओझल न हो गया, लोग खड़े खड़े उसी की ओर देखते रहे। उसके बाद ठगे हुए से, शोक और विषाद से

व्याकुल होकर रोने लगे। सबके हृदय में प्रेम उमड़ आया। विरह बढ़ गया, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगीं सर्वत्र शून्यता का आभास होने लगा। बाजारों में, गलियों में, घरों और महलों में, सर्वत्र कुमारकी चर्चा होने लगी। राजमहल और राज-सभा सुनसान दिखाई देने लगी। जैसे नाक के बिना देह और नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, चन्द्रमा के अभाव में रजनी और जल के अभाव में जलाशय सुहावना नहीं लगता उसी प्रकार कुमार के बिना नगर और विशेषतः राजमहल फीका जान पड़ता था। लोग प्रयत्न करके क्षण भर के लिए भी कुमार को भूल नहीं पाते थे। बार-बार स्मरण करके आँसू बहाते थे। ठीक ही है—सज्जन पुरुष का मिलना सुखद और बिछुड़ना अत्यन्त दुःखद होता है।



: ७ :

द्वारिका के पथ पर



इधर नारदजी कुमार प्रद्युम्न का तेज देखकर प्रसन्न और प्रभावित हो रहे थे। वास्तव में पुण्यवान् पुरुष का प्रभाव निराला होता है। पुण्यशाली पुरुष को पद-पद पर निधान

प्राप्त होते हैं। अपने घर तो सभी आदर और स्नेह पाते हैं, किन्तु पुण्यवान् परायें घर भी असाधारण आदर सम्मान पाता है ! प्रद्युम्न कुमार ने अब तक जो सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह सब उसके प्रकृष्ट पुण्य का ही प्रभाव था ! पुण्य के ही प्रभाव से नारदजी जैसे विरक्त महापुरुष भी कुमार की मन ही मन प्रशंसा करने लगे ।

बूढ़े बाबा नारदजी का विमान जीर्ण हो रहा था । कुमार ने उसे भली-भाँति देखा । इच्छा हुई, इसे तोड़कर बाबाजी को नया विमान भेंट किया जाय । यह सोचकर कुमार ने विमान में एक लात लगाई और विमान खण्ड-खण्ड हो गया । फिर नारदजी से कहा—बाबाजी, बड़े-बड़े राजाओं—महाराजाओं और विद्याधरों के पूजनीक होकर भी आपने यह सड़ा-गला विमान क्यों रख छोड़ा है ? इस प्रकार कह कर कुमार हँसने लगा ।

नारद मुस्करा कर बोले—भाई, मैं, बूढ़ा हो गया हूँ ! मेरे लिए अब अच्छा-बुरा सब समान है । बूढ़े आदमी को बूढ़ा विमान ही भला लगता है । तू जवान है और जवानी का जोर जतला रहा है । तन का और विद्या का बल तुझे प्राप्त है । जो इच्छा हो सो कर ।

कुमार—मगर आपको ऐसा विमान सुहाता कैसे है ?

नारद—जैसा-तैसा काम तो दे रहा था ! तू ने तो काम ही अटका दिया ! अब ठिकाने पहुंचना भी दुर्लभ हो गया !

कुमार—चिन्ता न कीजिए । आप जैसा आदेश देंगे, वैसा ही विमान बन कर तैयार हो जायगा ।

इस प्रकार कहकर कुमार ने तत्काल विद्या के योग से एक सुन्दर विमान बना दिया । उस विमान का तल अत्यन्त मजबूत और चित्रों से सुशोभित था । उसमें सुवर्ण के स्तम्भ चित्र-विचित्र मणियों और रत्नों से जडित थे । हारों और पुतलियों के चित्रों से वे शोभायमान थे । विमान में चारों ओर पद्मवरवेदिका बनी थी । उसके नीचे की ओर झुके हुए छज्जे बहुत रमणीक थे । उसमें जगह-जगह वृषभ, हिरण, सर्प हाथी, अष्टापद, सिंह, शार्दूल आदि चतुष्पदों के तथा आम, जामुन, केला, कचनार अशोक पलाश आदि वृक्षों के चित्र सुशोभित हो रहे थे । कहीं कहीं इतिहास की घटनाएँ अंकित थीं । राम-रावण के युद्ध का दृश्य चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता था तो कहीं कोई दूसरा दृश्य आंखों को अपनी तरफ खींचता था । कहीं हंस, सारस, कीर मंना, कोकिल आदि पक्षियों के जोड़े बेजोड़ सुन्दरता से मन को मुग्ध कर रहे थे ! विमान का शिखर बड़ा ही मनोहर था । चारों तरफ गुम्बज बने थे और उन पर पांच मणियों के कलश स्थापित किये हुए थे । ध्वजाएँ और पताकाएँ फहराती हुई प्रद्युम्नकुमार के पुण्य और यश को प्रकट कर रही थी । विमान में मुलायम गद्दी, तकिया, दरी, गलीचा आदि यथा स्थान सजे हुए थे ।

उस नवनिर्मित विमान में कई खण्ड थे । खाने-पीने के लिए एक खण्ड अलग था । सोने के लिए कमरा अलग था और बैठक का भाग भी अलग था ।

इस प्रकार अत्यन्त सुन्दर और मनोहर विमान तैयार करके कुमार ने हाथ जोड़कर नारदजी से कहा—लीजिए बाबाजी, यह विमान स्वीकार कीजिए। यह आपकी महिमा के अनुरूप है। नारदजी कुमार के कौशल को देख कर हर्षित हुए।

दोनों विमान में सुखशांती पूर्वक बैठ गये। कुमार विद्या के बल से विमान चलाने लगा। आकाश में चलता हुआ विमान ऐसा लगता था, मानों सहस्रत्र किरणों से झिलमिल-झिलमिल करता हुआ सूर्य चल रहा हो !

विमान धीमे-धीमे चल रहा था। यह देखा नारदजी बोले—वत्स, हम लोगों को जल्दी पहुँचना है। इतनी धीमी गति से चलने पर तो विलम्ब हो जायगा ! जरा जल्दी चलाओ।

प्रद्युम्नकुमार कुतूहल-प्रिय था। नारदजी की आज्ञा पाकर उसने प्रबल वेग से विमान चलाना शुरू किया। विमान का वेग धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि नारदजी का सम्भलना कठिन हो गया। उनके दण्डकमंडल इधर-उधर लुढ़कने लगे। यह देख प्रद्युम्नकुमार अपनी हँसी न रोक सका।

नारदजी ने कहा—तू बड़ा चपल है कुमार ! अपनी इच्छा के अनुसार विमान चला ! तेरी हँसी मेरे लिए मुसीबत हो रही है।

कुमार ने नारदजी को सीधा विठाया और विमान का वेग कुछ कम कर दिया।

चलते-चलते रजत पर्वत को लाँघ कर विमान समभूमि पर आगया। खदिरा अटवी में आने पर नारदजी ने वह शिला बतलाई, जिसके नीचे असुर ने प्रद्युम्नकुमार को दबा दिया था। आगे चलकर वनगिरि, किनरी नदी आदि का परिचय देते हुए दोनों अपना मार्ग तय करने लगे।

इस प्रकार आनन्द पूर्वक चलते-चलते प्रद्युम्नकुमार ने एक बड़ा विशाल सैन्यदल देखा। उसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सभी थे। बड़े-बड़े राजा, राजकुमार, शूरवीर योद्धा थे। गगन को कम्पित करने वाले वाजे वज रहे थे। यह दृश्य देखकर कुमार ने हाथ जोड़ कर नारदजी से पुछा—वावाजी ! यह क्या है ? यह कौन महाराजा है और किस प्रयोजन से इतनी विशाल सेना लेकर, कहाँ जा रहा है ? ऐसी सेना तो मैंने विद्याधरों में भी नहीं देखी। भूचरों की यह सेना देखकर मेरा मन अत्यन्त उल्लसित हो रहा है।

नारदजी—वत्स, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें आदि से अन्त तक समग्र वृत्तान्त बतलाता हूँ। इस सेना के साथ तुम्हारे और तुम्हारी माता के भविष्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। तुम ध्यान-पूर्वक सुनो।



: ८ :

पूर्व वृत्तान्त

नारदजी ने प्रद्युम्नकुमार से कहा—मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि द्वारिका नगरी के अधिपति और यादव-कुल के चन्द्रमा श्रीकृष्ण वासुदेव तुम्हारे पिता हैं। सत्यभामा उनकी पटरानी हैं, रूप में अप्सरा को भी मात करने वाली ! मगर वह बड़ी अभिमानिनी हैं और दूसरों का तिरस्कार करने में तनिक भी संकोच नहीं करती ।

उन्हीं दिनों हस्तिनापुर के राजा ने, जिसके साथ कृष्णजी की परम प्रीति थी, अपना दूत द्वारिका भेजा । दूत सन्देश लेकर आया कि अगर मेरे यहां कन्या और आपके यहां कुमार का जन्म होगा तो उनकी सगाई कर देंगे । कदाचित् मेरे यहां कुमार और आपके यहां कुमारी का जन्म होगा तब भी दोनों की सगाई करेंगे । श्रीकृष्ण ने कुरुराज का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

वासुदेव ने यह बात सत्यभामा से कही । सुनकर सत्यभामा फूली नहीं समाई । वह उस समय गर्भवती थी । उसे विश्वास था कि मैं पुत्र का प्रसव करूंगी और बड़े घर में उसका विवाह हो जायगा !

आखिर सत्यभामा ने रुक्मिणी को अपने महल में बुलाकर, बलदेव और श्रीकृष्ण की साक्षी में, किस प्रकार शर्त की, इत्यादि वर्णन, जो पहले किया जा चुका है, नारदजी ने प्रद्युम्न-कुमार को कह सुनाया। किस प्रकार एक ही रात्रि में रुक्मिणी के उदर से प्रद्युम्न का और सत्यभामा के उदर से भानुकुमार का जन्म हुआ, किस प्रकार छठे दिन प्रद्युम्न का अपहरण हो गया, आदि आदि वृत्तान्त भी उन्होंने प्रद्युम्न को बतला दिया। सर्व वृत्तान्त के पश्चात् अन्त में नारदजी बोले—भानुकुमार उम्र में तुम्हारे बराबर ही हैं। अब उसका विवाह हो रहा है। दोनों तरफ बड़ी-बड़ी तैयारियां हुई हैं। हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा दुर्योधन की कन्या उदधिकुमारी रूप में देवांगना के समान है। उसका श्रृंगार करके और उसे पालकी में बिठला कर कुरुराज दुर्योधन द्वारिका जा रहे हैं। वहाँ दोनों का विवाह-संस्कार होगा। भानुकुमार का विवाह होते ही सत्यभामा हृष्टित होकर तुम्हारी माता रुक्मिणी के मस्तक के बाल मुंडवा लेगी। बेचारी रुक्मिणी की बनोवेदना का पार नहीं रहेगा।

यह विशाल सेना, जिसे तुम देख रहे हो, दुर्योधन की ही है। यह उदधिकुमारी के साथ द्वारिका जा रही है। वत्स प्रद्युम्न ! यह सेना क्या जा रही है रुक्मिणी की साक्षात् विपत्ति जा रही है। तुम सरीखे समर्थ सपूत की विद्यमानता में भी क्या माता पर ऐसी घोर विपदा आ पड़ेगी ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। माता का संकट टालने के लिए तुमसे कुछ बन सकता हो तो करो।

नारदजी की बात सुनकर प्रद्युम्नकुमार को विपाद भी हुआ और जोश भी आया। अपनी माता की स्थिति को

सोचकर उसको खेद हुआ और सहज वीरत्व की प्रेरणा से जोश भी आया ।


प्रद्युम्नकुमार ने नारदजी से कहा—इस पृथ्वी पर कौन माई का लाल है जो मेरे जीते जी मेरी माता के केश ले सके ! यह सेना क्या चीज है, इससे सौ गुनी हो तोभी मैं उसका सामना कर सकता हूँ, उसके छक्के छुड़ा सकता हूँ । आप देखते रहिए, मैं क्या चमत्कार दिखलाता हूँ ! दुर्योधन को, उसके वीरों को और उसकी सारी सेना को अभी-अभी अपनी करामात दिखलाता हूँ । अगर मैंने इसका तेज फीका न कर दिया तो मैं अपनी माता का पुत्र नहीं !

प्रद्युम्न कहता गया—बाबाजी, मुझे कुतूहल बड़ा ही प्रिय है । कौतुक किये बिना मुझसे रहा नहीं जाता । आप यही ठहरिये और मेरे कौतुक को देखिए । मैं समस्त राजाओं को किस प्रकार नचाता हूँ और किस प्रकार उनके दर्प को चूर्ण करता हूँ, यह आप शीघ्र ही देख लेंगे । उदधिकुमारी को आपके चरणों में झुकाने के लिए लेकर आऊंगा !

नारदजी स्वभावतः कलहप्रिय थे । फिर भी रुक्मिणी पर उनका स्नेह भी था । इस कारण वे यही चाहते थे । प्रद्युम्न-कुमार का कथन सुनकर उन्हें हार्दिक सन्तोष हुआ । उन्होंने कहा—शाबास बटा ! तुमसे ऐसी ही आशा थी । तुम सरीखे पुत्र अपनी माता का संकट नहीं टालेंगे तो फिर कौन टालेगा ? तुम शूरवीर हो क्षौर विद्यावान् हो । तुम्हारे कौशल और बल का मुकाबला करने की किसी में शक्ति नहीं है । तुम जाओ,

अवश्य जाओ। मैं तुम्हारी कुशलता और वीरता को यही से देखूंगा।

इस प्रकार नारदजी की अनुमति पाकर मदनकुमार प्रसन्न हुआ। वह किस प्रकार कुरुराज को छलता है और उदधिकुमारी को प्राप्त करता है, यह वृत्तान्त आगे बताया जायगा।



: ९ :

चुनौती

—❖❖❖—

प्रद्युम्नकुमार कुरुराज को छलने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने असली वस्त्र और आभूषण उतारकर नारदजीके सामने रख दिये और विद्या के बल से वैक्रिय रूप धारणकर लिया। नारद उसकी चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रद्युम्न विमान से बाहर आया।

प्रद्युम्नकुमार अब भीलराज वन गया था। उसका रूप बड़ा ही कुरूप दिखलाई पड़ता था। उसका शरीर ताड़-सा ऊंचा, कोयला समान काला और रूखा था। मस्तक पर बिखरे हुए विरले बाल थे, उनमें कोई पीले, कोई सफेद थे। ललाट

इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर वीर भीलराज सेना के सामने अड़कर खड़ा हो गया। आगे चलने वालों ने उसे एक ओर हट जाने का आदेश दिया तो अत्यन्त उपेक्षा के साथ मुस्कराकर वह बोला—मेरा कर चुका दो और आगे बढ़ो। बिना कर चुकाये एक कदम किसी को भी आगे न बढ़ने दूंगा।

लोगों ने भील को समझाने का बहुत यत्न किया, कुरुराज का भी भय दिखलाया, मगर भील टस से मस न हुआ। जब और लोग समझाते-समझाते हार गये तो स्वयं दुर्योधन को आना पड़ा। दुर्योधन ने आकर कहा—'भीलराज ! क्यों हमारे सामने अड़ गये हो ? क्या चाहते हो, जरा साफ-साफ बतलाओ न भाई । '

भीलराज दृढ़ स्वर में बोला—'यहाँ मेरी चौकी है और हरेक आने-जाने वाले को कर चुकाना पड़ता है। आप आगे जाना चाहते हैं तो कर अदा कर दीजिए और प्रसन्नतापूर्वक जाइये।

भीलराज का कथन सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया। वह कड़क कर बोला—'कर चुकाना वणिकों का काम है। तूने हमें क्या वणिक समझ रक्खा है ? तेरे लिए थैलियाँ भर कर लाये हैं जो कि अभी तेरे सामने रख देंगे !

भीलराज—तो फिर आगे बढ़ने की आशा छोड़ दीजिए।

दुर्योधन के गुस्से का पार न रहा। उसने कहा—चल-हट सामने से ! अनजान में तूने हमें रोक दिया है, इसलिए

तेरी गुस्ताखी को हम माफ कर रहे हैं ! अन्यथा अभी तक तो तेरी चटनी बन गई होती ।

भीलराज—मैंने अनजान में नहीं रोका है, आप स्वयं अनजान में कर अदा करने से इन्कार कर रहे हैं । आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज वासुदेव श्रीकृष्ण ने यह सारा प्रदेश मुझे सौंप रखा है । उनका आदेश है कि इस रास्ते से निकलने वाले प्रत्येक पंथी से तू कर वसूल करना । पथिक के पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वह तू ले लेना । न दे तो उसे योग्य शिक्षा देना ।

दुर्योधन—कृष्णजी के साथ तेरी ऐसी क्या मैत्री है कि उन्होंने तुझे इतना बड़ा अधिकार दे रखा है ?

भीलराज—आप मुझे नहीं पहचानते, मैं कृष्णजी का पुत्र हूँ ।

भील की बात सुनकर लोग अपनी हंसी न रोक सके । दुर्योधन भी हंसा और बोला—अच्छा, यह तो बतलाओ कि यदुपति के तुम सरीखे और कितने पुत्र हैं ?

भीलराज—मेरे समान तो अकेला मैं ही हूँ । आकाशमें तारे बहुत होते हैं, चन्द्रमा तो एक ही होता है कुरुराज !

लोग उपहास करने लगे । किसी ने कहा शावास भाई शावास ! बात तो सच्ची कहता है । हरिवंश में तू अनुपम रत्न है । कौन तेरी बरावरी कर सकता है ? तू यादवनाथ का असाधारण वेटा है !

भीलराज—तुम्हारा कहना ठीक ही है। वास्तव में मैं ही अपने वंश में चिन्तामणि के समान हूँ। हरिवंश में मुझ-सा दूसरा न पाओगे। भला चाहते हैं तो मेरे पैरों में गिरो।

दुर्योधन ने कहा—ठीक ही है, तू पूजा करने योग्य ही प्रतीत होता है। अभी पदत्राण से तेरी पूजा की जायगी। जान पड़ता है, सिर में खुजली बहुत चल रही है।

भीलराज—भला इतनी हिम्मत है किसमें ?

दुर्योधन—चुप रह भील्लड़ ! छोटे मुँह बड़ी बात बकते तुझे शर्म नहीं आती ! किसने तुझे इतनी बातें सिखला दी हैं ? एक तरफ हट जा और हमें जाने दे ! अब तक हमने गम खाई है। गुस्ताखी की तो समझ लेना, अब खैर नहीं है। सिर पर रहे सहे वाल भी झड़ जाएंगे।

भीलराज क्रोध से काँपने लगा। उसकी लाल आँखें और भी लाल हो उठी। होठ फड़कने लगे। वह बोला—धृष्ट कौरव ! मैं तुम्हें भली-भाँति पहचानता हूँ। तुम घोर कपटाचारी हो। तुमने पांडवों को अपने कपट-जाल में फाँसकर उनका राज्य हड़प लिया है ! अंधे बाँप के बेटे तुम भी अंधे हो। तुम्हारी मति मारी गई है ! मगर मैं तुम्हारी मति ठिकाने लादूँगा। तुम्हारे गर्व का नशा उतार दूँगा ! न उतार दूँ तो अपना नाम बदल दूँगा। मैं जानता हूँ, किस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम जैसे के तैसे पैदा हुए हो ! इसीलिए तो मुँह से नीचता भरी बात निकाल रहे हो ! मैं देखता हूँ, तुम्हारे

पास कितनी शक्ति है ! हिम्मत हो तो आ जाओ सामने अपनी फौज के साथ !

: १० :

कुरुराज-पराजय

भीलराज-वेषी प्रद्युम्नकुमार के दृढ़ता और तेजस्विता भरे वचन सुनकर कुरुराज समझ गया कि यह व्यक्ति साधारण भील नहीं हो सकता। इसमें कुछ न कुछ करामात है, रहस्य है, विशेषता है। इसके साथ उलझना याग्य नहीं है।

यह सोचकर दुर्योधन बोला-अच्छा बाबा, अच्छा। तू अपने मन की बात बता। तुझे क्या चाहिए ? घोड़ा चाहिए तो ले ले, मदोन्मत्त हाथी लेने की इच्छा हो तो वह ले ले, और कुछ चाहिए तो बतला दे।

भीलराज--मैं हाथी घोड़ा लेकर क्या करूँगा ? मुझे जो अच्छी लगेगी वही वस्तु लूँगा। पहले सारी चीजें मुझे दिखला दो। मेरे साथ आप सेना में आइए और सब दिखला दीजिए।

दुर्योधन कौतुक से प्रेरित हो, उसकी बात मान गया। भीलराज ने दुर्योधन के साथ घूम-घूम कर एक छोर से दूसरे छोर तक सारी सेना देख डाली। सब कुछ देखने के पश्चात् भील बोला-आपके पास अच्छी से अच्छी वस्तु यह कुमारी है। यही मुझे पसन्द आई है। यही मुझे दे दीजिये।

भील की बात सुन दुर्योधन खीज उठा। बोला-अविवेकी कहीं के ! यह तू क्या कह रहा है ?

भील-मैं लूंगा और इस कुमारी को ही लूंगा। मेरा यह दृढ़ संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। फजीहत से बचना हो तो शीघ्र ही कुमारी मुझे सौंप दीजिए। अगर आपने देने से इन्कार किया तो व्यर्थ ही दुख भुगतना पड़ेगा।

दुर्योधन--धृष्ट ! क्यों बकवास करता है ! तू हृद दजें का निर्लज्ज जान पड़ता है। जरा अपनी जाति, अपने रूप और अपने बल को ता विचार कर देख ! पिशाच की मूर्ति है और राजकुमारी की अभिलाषा करता है। आखिर तो गवार ही रहा न ! अपने भाग्य को देखकर विचार कर !

भील--कुरुराज ! आपकी घृणा व्यर्थ है। मनुष्य का मूल्य न रूप से है, न जाति से है। मनुष्य का मनुष्यत्व तो उसके सद्गुणों में है। मुझे मे सद्गुणों की कमी नहीं है।

यदि सन्ति गुणाः पुंसां, विकसन्त्येव ते स्वयम् ।

न हि कस्तूरिकामोदः, शपथेन विभाव्यते ॥

मनुष्य में गुण होते हैं तो वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। कस्तूरी की गन्ध को प्रकट करने के लिए कसम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नीतिकरों ने और भी कहा है-

गुणानर्चन्ति जन्तूनां, न जाति केवलां बवचित् ।

स्फाटिकं भाजनं भग्नं, काकिन्यापि न ग्रह्यते ॥

मनुष्य के गुणोंकी पूजा होती है, केवल जाति नही पूजी जाती। स्फटिक का पात्र फूट जाने पर भी कौड़ी से नही खरीदा जाता।

भील कहता है—कुरराज ! आप मेरी जातिका विचार न करें—‘ गुणाः पूजास्थानं गणिषु न च लिंग न च वयः। ’ गुणों का ही गुणीजनों का आदर करना चाहिये, वेष का या उम्र का नहीं।

कुरराज—देख, जो छोटे मुँह बड़ी बात कहता है, उसे तमाचा खाना पड़ता है। कोई बीना आदमी ऊँचे आम के फलों को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वह मूर्ख कहा जायगा। तेरा इतना पुण्य नही कि तू राजकुमारी को प्राप्त कर सके। पतंग दीप-शिखा को देखकर सोना लूटने की इच्छा से उस पर टूट पड़ता है किंतु फल क्या होता है? उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। भील ! तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो तू अपनी हैसियत के अनुसार वस्तु मांग ले। अन्यथा मैंने तेरी जिन्दगी का ठेका नही लिया है।

इस प्रकार कुरराज दुर्योधन ने भीलराज को बहुतेरा समझाया, पर वह अपनी मांग से तिल भर भी नही हटा। वह रास्ता रोक कर खड़ा हो गया।

विवश दुर्योधन ने अपनी सेना को आदेश दे दिया। यहाँ खड़े-खड़े बहुत देर हो गई है। यह नही मानता तो इसे पैरों तले रौंद कर आगे बढ चलो। या तो उठा कर एक किनारे

पटक दो या पैरों से चकनाचूर कर डालो। मौत इसके सिर पर नाच रही है तो कोई क्या कर सकता है ?

दुर्योधन की सेना आदेश पाकर आगे बढ़ी, किन्तु भीलराज ने अपने पैर आड़े कर दिये। सैनिक उसके पैर हटाते-हटाते थक गये, किन्तु सफल न हो सके। सेना फिर ठहर गई। किन्तु अब की बार सुभटों को उग्र क्रोध उत्पन्न हुआ। वे भीलराज पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो गये। कोई तीर चलाने लगा, किसी ने तलवार का वार किया, किसी ने अपना जंवूरा आजमाया ! सब सैनिक भयानक कोलाहल करते हुए सावन की झड़ी की तरह शस्त्र-निपात करने लगे। पर उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि भील का कुछ भी नहीं विगड़ा !

इसके बाद भील ने अपना धनुष सम्भाला। धनुष की टंकार सुनते ही कौरव-सेना थर्रा उठी। भीलवेषी कुमार ने वाण चलाना आरम्भ किया। विद्या के प्रभाव से एक वाण के सहस्र रूप होने लगे। कुमार के वाण अचूक थे। उसके प्रहार से अनेक सैनिक मारे गये, अनेक घायल होकर भूमि पर गिर गये और कराहने लगे। भयानक कुहराम मच गया। आखिर जैसे हिरणों की टोली कैसरी सिंह को देखकर भाग खड़ी होती है, उसी प्रकार कुरु देश के सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। अन्त में कुमार ने पर्वत को ऐसा हिलाया कि उसका शिखर टूट कर गिर पड़ा। तब तो हाहाकार मच गया, पर गनीमत रही कि उसके नीचे दब कर कोई मरा नहीं। कुमार की इच्छा आतंक फैलाने की थी, किसी को मारने की नहीं।

कुमार ने देखा—अब सभी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और अपना अभीष्ट सिद्ध करने का यही उपयुक्त अवसर है। यह सोच कर वह उदधिकुमारी के पास पहुँचा। उसने पालकी में से कुमारी को उठा लिया।

राजकुमारी भील का रूप देखकर चीत्कार कर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानों सशरीर यमराज उसे पकड़ कर ले जा रहा है! राजकुमारी का हृदयवेधी चीत्कार सुनकर भी किसी की हिम्मत न हुई कि पास फटके! आखिर कुमार राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ गया। दुर्योधन के योद्धा विस्मयविस्फारित नेत्रों से दूर खड़े खड़े देखते रहे।

इधर नारदजी यह सब कौतुक देख रहे थे और अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे। वह सोच रहे थे—यदुकुल में यह बड़ा ही करामाती बेटा जनमा है।

इसी समय राजकुमारी के साथ कुमार नारदजी के पास जा पहुँचा। कुमारी को विमान में एक ओर बिठला कर बाबाजी से बोला—ऋषिवर! आपके आशिर्वाद से मेरा अभीष्ट सिद्ध हुआ। मैंने कौरव कुल की कीर्ति का ही नहीं हरण किया, वरन् इस लक्ष्मी को भी लाड़ी बना कर ले आया हूँ।


इतना कह कर कुमार ने नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारदजी ने उसकी पीठ ठोक कर आशिर्वाद दिया। कहा—धन्य, वत्स! तुम धन्य हो! तुम हरिवंश के भूषण हो। तुम्हारी

करामात आज मैंने आंखों से देखी । मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ ।
चिरंजीव रहो !



: 99 :

द्वारिका के निकट



नारदजी का विमान चल पड़ा । उदधिकुमारी प्रद्युम्न-
कुमार का भयंकर रूप देखकर कांप रही थी । प्रद्युम्न अब भी
भील के ही वेष में था । कुमारी की समझ में नहीं आता था
कि यह कौन हैं ? किस प्रयोजन से मेरा अपहरण किया गया
है ? मैं कहाँ ले जाई रही हूँ ? वह एक ओर मुंह करके
अतिशय दीनता पूर्वक रुदन कर रही थी । उसे धीरज बँधाने
की नारदजी ने चेष्टा की, पर उसका रोना बंद न हुआ ।
वेहद वेचनी के मारे कुमारी का सारा शरीर काँप रहा था ।

यह देख नारदजी ने प्रद्युम्न से कहा—वत्स ! अब अपना
रूप फलट लो । असली रूप धारण कर लो, जिससे उदधि-
कुमारी को धीरज आ जाय । अब इस भील-वेष की कोई
आवश्यकता नहीं है ।

प्रद्युम्नकुमार ने उसी समय अपना रूप बदल लिया । वह
फिर ज्यों का त्यों असाधारण सुन्दर दिखाई देने लगा । प्रद्युम्न
के इस असली रूप को देखकर कुमारी विस्मित रह गई । उसे

कुमार ने देखा—अब सभी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और अपना अभीष्ट सिद्ध करने का यही उपयुक्त अवसर है। यह सोच कर वह उदधिकुमारी के पास पहुँचा। उसने पालकी में से कुमारी को उठा लिया।

राजकुमारी भील का रूप देखकर चीत्कार कर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानों सशरीर यमराज उसे पकड़ कर ले जा रहा है! राजकुमारी का हृदयवेधी चीत्कार सुनकर भी किसी की हिम्मत न हुई कि पास फटके! आखिर कुमार राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ गया। दुर्योधन के योद्धा विस्मयविस्फारित नेत्रों से दूर खड़े खड़े देखते रहे।

इधर नारदजी यह सब कौतुक देख रहे थे और अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे। वह सोच रहे थे—यदुकुल में यह बड़ा ही करामाती बेटा जनमा है।

इसी समय राजकुमारी के साथ कुमार नारदजी के पास जा पहुँचा। कुमारी को विमान में एक ओर बिठला कर बाबाजी से बोला—ऋषिवर! आपके आशिर्वाद से मेरा अभीष्ट सिद्ध हुआ। मैंने कौरव कुल की कीर्ति का ही नहीं हरण किया, वरन् इस लक्ष्मी को भी लाड़ी बना कर ले आया हूँ।

इतना कह कर कुमार ने नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारदजी ने उसकी पीठ ठोक कर आशिर्वाद दिया। कहा—धन्य, वरस! तुम धन्य हो! तुम हरिवंश के भूषण हो। तुम्हारी

करामात आज मैंने आंखों से देखी । मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ ।
चिरंजीव रहो !



: 99 :

द्वारिका के निकट



नारदजी का विमान चल पड़ा । उदधिकुमारी प्रद्युम्न-कुमार का भयंकर रूप देखकर कांप रही थी । प्रद्युम्न अब भी भील के ही वेष में था । कुमारी की समझ में नहीं आता था कि यह कौन हैं ? किस प्रयोजन से मेरा अपहरण किया गया है ? मैं कहाँ ले जाई रही हूँ ? वह एक ओर मुंह करके अतिशय दीनता पूर्वक रुदन कर रही थी । उसे धीरज बँधाने की नारदजी ने चेष्टा की, पर उसका रोना बंद न हुआ । बेहद बेचैनी के मारे कुमारी का सारा शरीर काँप रहा था ।

यह देख नारदजी ने प्रद्युम्न से कहा—वत्स ! अब अपना रूप पलट लो । असली रूप धारण कर लो, जिससे उदधिकुमारी को धीरज आ जाय । अब इस भील-वेष की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रद्युम्नकुमार ने उसी समय अपना रूप बदल लिया । वह फिर ज्यों का त्यों असाधारण नुन्दर दिखाई देने लगा । प्रद्युम्न के इस असली रूप को देखकर कुमारी विस्मित रह गई । उसे

कुमार ने देखा—अब सभी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और अपना अभीष्ट सिद्ध करने का यही उपयुक्त अवसर है। यह सोच कर वह उदधिकुमारी के पास पहुँचा। उसने पालकी में से कुमारी को उठा लिया।

राजकुमारी भील का रूप देखकर चीत्कार कर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानों सशरीर यमराज उसे पकड़ कर ले जा रहा है! राजकुमारी का हृदयवेधी चीत्कार सुनकर भी किसी की हिम्मत न हुई कि पास फटके! आखिर कुमार राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ गया। दुर्योधन के योद्धा विस्मयविस्फारित नेत्रों से दूर खड़े खड़े देखते रहे।

इधर नारदजी यह सब कौतुक देख रहे थे और अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे। वह सोच रहे थे—यदुकुल में यह बड़ा ही करामाती बेटा जनमा है।

इसी समय राजकुमारी के साथ कुमार नारदजी के पास जा पहुँचा। कुमारी को विमान में एक ओर बिठला कर बाबाजी से बोला—ऋषिवर! आपके आशिर्वाद से मेरा अभीष्ट सिद्ध हुआ। मैंने कौरव कुल की कीर्ति का ही नहीं हरण किया, वरन् इस लक्ष्मी को भी लाड़ी बना कर ले आया हूँ।

इतना कह कर कुमार ने नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारदजी ने उसकी पीठ ठोक कर आशिर्वाद दिया। कहा—धन्य, वत्स! तुम धन्य हो! तुम हरिवंश के भूषण हो। तुम्हारी

करामात आज मैंने आंखों से देखी । मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ ।
चिरंजीव रहो !



: 99 :

द्वारिका के निकट



नारदजी का विमान चल पड़ा । उदधिकुमारी प्रद्युम्न-
कुमार का भयंकर रूप देखकर कांप रही थी । प्रद्युम्न अब भी
भील के ही वेष में था । कुमारी की समझ में नहीं आता था
कि यह कौन हैं ? किस प्रयोजन से मेरा अपहरण किया गया
है ? मैं कहाँ ले जाई रही हूँ ? वह एक ओर मुंह करके
अतिशय दीनता पूर्वक रुदन कर रही थी । उसे धीरज बँधाने
की नारदजी ने चेष्टा की, पर उसका रोना बंद न हुआ ।
बेहद बेचैनी के मारे कुमारी का सारा शरीर काँप रहा था ।

यह देख नारदजी ने प्रद्युम्न से कहा—वत्स ! अब अपना
रूप पलट लो । असली रूप धारण कर लो, जिससे उदधि-
कुमारी को धीरज आ जाय । अब इस भील-वेष की कोई
आवश्यकता नहीं है ।

प्रद्युम्नकुमार ने उसी समय अपना रूप बदल लिया । वह
फिर ज्यों का त्यों असाधारण सुन्दर दिखाई देने लगा । प्रद्युम्न
के इस असली रूप को देखकर कुमारी विस्मित रह गई । उसे

प्रसन्नता हुई और धैर्य बंधा। तब कुमारीने हाथ जोड़कर नारदजी से पूछा—आप कौन हैं ? और कहां जा रहे हैं ? कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रयोजन से मुझे यहाँ लाये हैं ?

ऋषि ने कहा—कुमारिके ! चिन्ता न करो, शोक न करो। तुम्हारे सौभाग्य-सूर्य का उदय हुआ है। यह कुमार यादव-कुल का तिलक है। महाराज श्रीकृष्ण और महारानी रुक्मिणी का नन्दन है। यह अपने माता-पिता आदि से मिलने द्वारिका जा रहा है। तुम भयभीत न होओ। तुम्हारी कामना पूर्ण हुई है। अपने भाग्य की सराहना करो कि तुम्हें कुमार ने अपना लिया है।

नारदजी के वचन सुनकर उदधिकुमारी की प्रसन्नता का पार न रहा। वह उल्लास से मन ही मन उछलने लगी।

विमान आगे चल रहा था। कुमार, नारद मुनि के साथ बातचीत और विनोद करता हुआ अपना मार्ग तय कर रहा था। थोड़ी दूर चलकर कुमार ने एक नवीन दृश्य देखा।

एक नगरी ऐसी दिखाई देती थी जैसे स्वर्ग का एक भाग पृथ्वी पर आ पड़ा हो। उसकी रचना अतीव मनोरम और अद्भुत थी। स्वर्गलोक के सदृश झिलमिल-झिलमिल कर रही थी। अठारह हाथ के स्वर्णमय ऊँचे कोट से आवृत्त थी। उस पर रत्नों के नाना वर्ण के कंगूरे थे, जो ज्योतिष्क विमानों की भाँति दमक रहे थे। विशाल वन और उद्यान नजर आ रहे थे। वे सब फलों और फूलों से सुशोभित नाना प्रकार के

तरुओं और लताओं से व्याप्त थे। नगरी के भीतरी भाग में साठ करोड़ महल थे और बाहरी भाग में चारों वर्णों वालों के बहत्तर करोड़ मकान बने थे। नगरी को देखते ही विद्वित हो जाता था कि वह खूब समृद्ध है, धन्य-धान्य से परिपूर्ण है और मनोहर है।

प्रद्युम्नकुमार उस नगरी को देखकर चकित हो गया। वह अपने स्थान से उठकर नगरी की तरफ जाने को तैयार हुआ। तब नारदजी बोले—कहो वत्स, क्यों उठ रहे हो? अब चित्त में क्या लहर आई है?

प्रद्युम्न—यह नगरी बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती है। इसे देखने की इच्छा है। जरा देख आता हूँ।

नारदजी कुमार के सामने रास्ता रोक कर खड़े हो गए। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। यह कहकर उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर अपनी जगह बैठ लिया।

प्रद्युम्न—बाबाजी, आग्विर बात क्या है? क्यों नहीं जाने देते? मुझे तो बड़ी उत्कण्ठा हो रही है। असली कारण बतलाइए।

नारद—कुमार, तू बहुत चपल है और जहाँ जाता है वही कुछ न कुछ उपद्रव कर बैठता है। तुझसे सीधे रहा नहीं जाता। इस नगरी में जाकर कुछ उत्पात कर बैठेगा तो परिणाम बुरा होगा। महाबलिष्ठ बलभद्र और श्रीकृष्ण यहाँ के राजा हैं। यहाँ यादवों का बड़ा जोर है। यहाँ के सरदार भी अत्यन्त तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। यही द्वारिका नगरी है।


प्रद्युम्न-तो मेरे एक बार देख आने मे हानि क्या है ?

नारद-नही, पहले हम दोनों महारानी रुक्मिणी के पास चलेंगे । पहले माता से मिलकर फिर जो मन मे आवे सो करना ।

प्रद्युम्न-एक बार अकेला जाकर देख आता हूँ । फिर आपके साथ चलूँगा और सबसे मुलाकात करूँगा ।

इस प्रकार कहकर प्रद्युम्न अपने स्थान से उठा और नारदजी के ना-ना करने पर भी चल दिया । विद्या के बल से विमान वही आकाश मे बाँध दिया, जिससे वह इधर-उधर सरक न सके ।

कुमार पृथ्वीपर आकार गुप्त रूप से आगे बढ़ा । महान् पुण्य का निधान कुमार नगरी मे पहुँच कर क्या-क्या कौतुक करता है, यह बात आगे दिखलाई जाएगी ।



तृतीय स्कन्ध

: १ :

भानु-मानमर्दन

त्रिद्या-बल से विभूषित, परम पुण्य का आगार प्रद्युम्न-कुमार अपनी माता को देखने की उत्कंठा से जा रहा था। रास्ते में उसे एक राजकुमार दिखाई दिया। वह राजकुमार एक उत्तम अश्व पर आरूढ़ था। जरीदार सुन्दर केसरिया वाना धारण किये था। उसके सिरपर सुन्दर मंटील बँधा हुआ था और उस पर एक चमकदार अत्यन्त देदीप्यमान कलंगी सुशोभित हो रही थी। कमर-बन्ध कमर में बँधा हुआ था। जरी के तारों की धोती पहने था। हाथ में सुन्दर रूमाल धारण किये था। उसके कानों में बहुमूल्य कुण्डल, वक्षस्थल पर सुन्दर हार, गले में कंठा, उंगलियों में रत्नमय अंगूठियाँ और कमर में कटिसूत्र था ! सभी आभूषण अत्यन्त सुन्दर और अनमोल रत्नों से जड़े हुए अद्भुत चमक-दमक दिखला रहे थे। राजकुमार का सुन्दर घोड़ा आगे-आगे चल रहा था। वह घोड़े को थोड़े-थोड़े नचाता चल रहा था। उसके पीछे-पीछे बहुसंख्यक सरदार थे।

प्रद्युम्न इस राजकुमार को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने कर्णपिशाचिनी से पूछा—यह कौन है ?

कर्ण—यह महारानी सत्यभामा के सुपुत्र भानुकुमार है ।

प्रद्युम्न—अच्छा, यही भानुकुमार है ? कहां जा रहा है ?

कर्ण—कुरुराज की कन्या के साथ शीघ्र ही इनका विवाह होने वाला है । विवाह के उपलक्ष में दावत खाने (विंदौरा जीमने) जा रहे है ।

प्रद्युम्न—(मन ही मन हस कर)ऐसा ! अच्छा, इसे किस चीज का शौक है ? कृपा कर यह बतला दीजिए ।

कर्ण—इन्हें घोड़ों का बड़ा शौक है । घोड़ा नचाने में यह होशियार है ।

देवी से इस प्रकार सूचना पाकर प्रद्युम्नकुमार को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया । वह घोड़ों का व्यौपारी बन गया । बूढ़ा और शरीर से दुबला-पतला ! सिर के बाल रुई की तरह श्वेत ! बिना दांतों का पोपला मुख ! बूढ़ापे के कारण थर-थर काँपती हुई गर्दन ! काँपते हुए हाथ और पैर ! झुकी कमर ! इस प्रकार के रूपधारी कुमार ने विद्या के बल से एक सर्वोत्तम घोड़ा बना लिया । वह घोड़ा लाल रंग का, खूब हृष्टपुष्ट, लम्बे पेट वाला, उच्च स्कन्ध वाला और छोटे कानों से सुशोभित था । उसके कपाल पर सुन्दर दीपक के आकार का तिलक था । समस्त शरीर में सघन रोम थे । उसकी आकृति से और शालिहोत्र-वर्णित लक्षणों से जान पड़ता था कि घोड़ा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है । उसकी पुंछ और गर्दन के बाल बड़े सुन्दर थे, लम्बे थे । खुर भी भले प्रतीत होते थे । अंग-अंग सुहावना लगता था । वह समस्त लक्षणों और व्यंजनों से विभूषित था । उसके ऊपर

रत्नजटित स्वर्ण-निर्मित सुन्दर काठी थी। उसके चारों तरफ मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पाँवड़े अलग ही अपनी सुन्दरता प्रकट कर रहे थे। चमकते-दमकते आभूषणों ने अश्व की शोभा सौ गुनी कर दी थी।

घोड़े का व्यापारी अपने मस्तक को कँपाता हुआ और घोड़े को नचाता हुआ भानुकुमार के सामने आया। कुमार सर्व लक्षणसम्पन्न, सुन्दराकार अश्व-रत्न को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी को अपने समीप बूलवाया। व्यापारी कुमार के पास आया। कुमार ने प्रश्न किया—वावा तुम कौन हो? तुम्हारी जाति क्या है? किस प्रयोजन से यहाँ आये हां? यह घोड़ा साथ में किस लिये लाये हो!

बूढ़े व्यापारी ने उत्तर दिया—मैं परदेशी हूँ और घोड़ों का व्यापारी हूँ। मैंने सुना है कि वासुदेव के सुपुत्र भानुकुमार को घोड़ों का बड़ा शौक है। उनके लिए यह अश्वरत्न लेकर यहाँ आया हूँ। कुमार घोड़े को देखते ही पसन्द कर लेंगे, मुझे मुंह माँगे दाम मिलेंगे! यह घोड़ा उन्हीं के योग्य है।

भानुकुमार—अच्छा, तो कहो घोड़े का मोल क्या है? जो कहोगे, मिलेगा।

व्यापारी—एक करोड़ सोनैया इसका मूल्य है पृथ्वीनाथ! पहले अश्व की परीक्षा कर देखिए और फिर मूल्य दीजिए।

यह सुन भानुकुमार ने घोड़ा सम्भाला। घोड़े पर सवार होकर एक हाथ में लगाम पकड़ी और दूसरे में घोड़ा सम्भाला! मगर घोड़ा एकदम आकाश में उड़ गया। साय के सरदार

और दूसरे लोग यह अद्भुत घटना देखकर सहसा विस्मित हो गये। वे चिन्ता में डूब गये कि—हाय, अब भानुकुमार की न जाने क्या हालत होगी ! आकाश में उड़ते हुए घोड़े को देखकर सूर्य को भी भ्रम हो गया कि वास्तव में यह घोड़ा इसका है या मेरा है ! आकाश में घोड़ा कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी तिरछा जाता हुआ नृत्य करने लगा। वह उछल उछल पड़ता था। रोके रुकता नहीं था। यह हालत देखकर भानुकुमार भी सोचविचार में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए ? घोड़ा थमता ही है, आबरू जाने को तैयार है !

आखिर भानुकुमार की पगड़ी नीचे गिर पड़ी। पगड़ी के गिरते ही कुमार लज्जा के कारण घबड़ा उठा और उसी घबराहट में वह स्वयं भी नीचे आने लगा ! दर्शकों के आश्चर्य और कौतुहल का पार नहीं रहा। कुछ लोग तालियां पीट-पीट कर हँसने लगे और कुछ विषाद व्यक्त करने लगे। व्यापारी बोला—इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि वासुदेव के पुत्र भी अश्व को काबू में न कर सकें ! आप तो युवराज कहलाते हैं, और अश्व-विद्या में अत्यन्त दक्ष सुने जाते हैं ! अगर अश्व को भी काबू में नहीं रख सकते तो इतने बड़े राज्य की कैसे रक्षा कर सकोगे ? क्षमा करना कुमार ! आपके लिए यह बड़ी ही लज्जा की बात है। आप जैसे पुत्रों से कुल की कीर्ति बढ़ नहीं सकती उसका न्हास ही हो सकता है !

भानुकुमार से न रहा गया। लज्जा का मारा कुमार खीज उठा। वह चिढ़कर बोला—अबे नरककाल ! चूप भी रह, क्यों बक-बक करता है ! अब जीभ हिलाई तो खैर नहीं।

बड़ा होशियार बना फिरता है। जरा तू भी तो चढ़कर देख ! मैं भी देखूँ तेरी होशियारी ! देखूँ, तू किस प्रकार सकुशल घोड़े को फिरा सकता है !

व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा—कुमार, क्षमा कीजिए। इस अश्व पर चढ़ने की शक्ति मुझ में होती तो इसे बेचने का विचार ही क्यों करता ? इसके बदले में मूल्य लेकर क्या उसे चवाऊँगा ? हिम्मत नहीं रही, इसी से तो इसे बेचने का विचार किया है। किसी समय मैं भी जवान था और उस समय इससे भी अधिक उत्पाती घोड़ों पर सवारी किया करता था। मैं घोड़ा खेलने की कला में बहुत दक्ष हूँ। किन्तु आज इतनी भी शक्ति नहीं रही कि उछल कर इस पर सवार हो सकूँ ! हा, कोई उठाकर घोड़े पर बिठला दे तो फिर भी चमत्कार बतला सकता हूँ।

भानुकुमार को उत्कण्ठा हुई, देखें यह बूढ़ा किस प्रकार घोड़े को खेलाता है ! यह सोचकर उसने आदमियों की तरफ इशारा किया इशारे को समझ कर पांच-सात आदमी आगे बढ़े और बूढ़े को अधर उठा कर घोड़े पर सवार करने की चेष्टा करने लगे। मगर प्रद्युम्नकुमार ने उस समय अपना शरीर पारे की तरह भारी बना लिया। आदमी जोर लगाकर धक गये, पर वह उठता दिखाई न दिया। थोड़ी देर इस प्रकार परेशान करने के पश्चात् वह कुछ हल्का हुआ। आदमियों ने ऊँचा उठाया कि फिर भारी होकर घड़ाम से उन्ही के ऊपर गिर पड़ा। उठाने वाले स्वयं गिर पड़े और उनके अंग-अंग फूट गये !

कुमार हँसने लगा । दूसरे देखने वाले भी अपनी हँसी नहीं रोक सके । उठाने वाले लज्जित होकर अपना शरीर सम्हालने लगे ।

दूसरी बार कुछ हैकड़ीबाज लोग बूढ़े को उठाने आगे बढ़े । उन्होंने भी भरपूर जोर लगाया, मगर उनकी भी वही दशा हुई जो पहले वालों की हुई थी । किसी की खोपड़ी फूट गई, किसी के दाँत टूट गये ।

आखिर भानुकुमार से नहीं रहा गया । उसे अपने बल का अभिमान था । उसने बूढ़े की कमर में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया । बूढ़ा कुछ ऊपर उठ भी आया । मगर फिर उसके शरीर में ऐसा भारीपन आ गया कि भानुकुमार उसे सम्भाल न सका । सम्भालना तो दूर रहा, स्वयं भी न सम्भल सका । कुमार गिर पड़ा और उसी के ऊपर बूढ़ा भी गिर पड़ा ।

यह सब बूढ़े की ही करामात थी । मगर दिखावटी क्रोध करके उसने कहा-हाय ! पटक-पटक कर मुझे अधमरा कर दिया ! अरे यदुनाथ का माल खा-खाकर क्या गोबर करना ही सीखा है तुम लोगों ने ? एक दुबले-पतले बूढ़े को उठाने में जिनका यह हाल है, वे इतने बड़े राज्य का बोझा कैसे उठाएँगे ? मैं तो समझता था, यादव परिवार बड़ा शूरवीर है, मगर जहाँ युवराज की यह हालत है, वहाँ दूसरों से क्या कहा जाय ?

इस प्रकार भानुकुमार की लानत-मलामत करके बूढ़ा, भानुकुमार की छाती पर पैर रखकर, उछलकर नौजवान की

तरह घोड़े पर सवार हो गया। उसने अपनी कमर कस ली थी और जम कर घोड़े पर बैठा था। वह घोड़े की लगाम खींच कर शान के साथ घोड़े को खेलाने लगा। घोड़ा कभी चकरी की तरह फिरने लगा, कभी दो पैरों पर खड़ा होने लगा और नाचने लगा ! यह अद्भूत और मनोरंजक अश्व-क्रीड़ा देखकर भानुकुमार और दूसरे राजपुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। लोग घोड़े को और घुड़सवार को शावासी देने लगे कुछ समय तक इस प्रकार दर्शकों को चकित करता हुआ घोड़ा और घुड़सवार अचानक ऊपर उड़े और फिर चील की तरह अदृश्य हो गये ! राजकूमार आँखें फाड़-फाड़ कर देखते रह गये, मगर फिर कुछ भी दिखाई न दिया।

घटना अद्भूत थी। किसी की समझ में न आया कि घोड़ा और सवार कहाँ और कैसे गायब हो गए ! सब लोग विस्मित और चकित थे। कोई कहने लगा—यह दैवी माया थी। देव ने आकर कुतूहल किया है !

इधर कई लूले, लंगड़े हो गए थे। कइयों के मुख से रुधिर बह रहा था। भानुकुमार भी अच्छता नहीं बचा था। उसके अंग-अंग में पाड़ा हो रही थी। घुटने छिल गये थे। दाढ़ी की चमड़ी छिल जाने के कारण घोर वेदना हो रही थी। सब लोग मन ही मन लज्जा का अनुभव कर रहे थे और कुद रहे थे। मगर कर कुछ नहीं सकते थे। आखिर सब लोग अपने-अपने घर लौट गये ! भानुकुमार भी अपने महल में चला गया। इतनी लज्जा झेलने का उसके लिए यह प्रथम

अवसर था। उसे किसी को अपना मुंह दिखलाने की इच्छा नहीं होती थी।

: २ :

दूसरा-चमत्कार

भानुकुमार की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाकर प्रद्युम्नकुमार प्रसन्न हो रहा था। वह अपना रूप बदलकर द्वारिका के सौन्दर्य को निहारने के लिए आगे बढ़ा। उसकी दृष्टि एक उद्यान पर पड़ी और उद्यान की मनोहरता देखकर वही ठहर गई। उद्यान वास्तव में अत्यन्त सुन्दर था भाँति-भाँति के पुष्पों से सुशोभित, मनोहर फलों से समृद्ध और सघन लताओं से व्याप्त था। उसकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि वह सभी ऋतुओं में सुखद और अनुकूल था।

कुमार ने उद्यान को देखकर कर्णपिशाचिनी से पूछा—यह उद्यान किसका है ?

कर्ण पिशाचिनी बोली—इसपर सत्यभामा का अधिकार है।

इतना सुनना था कि कुमार ने अश्व का रूप धारण कर के उद्यान के हरे-हरे घास को कुछ चर लिया और कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया। फिर शूकर का रूप धारण करके लताओं को, वृक्षों को और पौधों को उखाड़ डाला। समस्त उद्यान उजड़ गया। उसकी श्री नष्ट हो गई। माली बुरी तरह घबराया। उसने उद्यान को बचाने की लाख चष्टा की, मगर सफल न हो सका।

उद्यान को उजाड़ कर मनमौजी प्रद्युम्नकुमार आगे चला। उसे दूसरा वाग दृष्टिगोचर हुआ। पूछने पर मालूम हुआ कि यह विशाल वाग भी महारानी सत्यभामा का ही है। वाग खूब लम्बा-चौड़ा था। उसमें आम, जामुन, नींबू, नारंगी, केले, कबीठ, खिरनी, न्यग्रोध, केतोड़ी, विल्व, बदरी, पलास, पीपल, ऊमर, अनार, अशोक, वकुल, अंजीर, पूगीफल, शहतूत, वादाम, खजूर, नारियल, आदि-आदि के वृक्ष खड़े थे। वृक्षों की कतारे ऐसी जान पड़ती थी मानो सैगिक खड़े हैं और इस उद्यान की रक्षा कर रहे हैं !

चंपा, चमेली, अंगूर, गडुची, केतकी आदि लताएँ फैली हुई थी। उनके सुन्दर और सुरम्य मंडप बने हुए थे। गुलाब, गेंदा, केवड़ा आदि के फूल अपने सौन्दर्य को देख-देखकर हँसते हुए जान पड़ते थे। उन पर भ्रमर गुंज रहे थे। भ्रमरों की गुन्जार ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे वे सत्यभामा का यशोगान कर रहे हों ! जगह-जगह वावड़िया थी, कहीं कहीं कूप थे जो जल से परिपूर्ण थे। वावड़ियाँ कमलो से मुणोभित थी। वाग की रौनक अद्भुत थी। जिधर देखो, नवीन ही वृक्ष या लता दिखाई देती थी। जगत् में जितनी वनस्पतियाँ हैं, सब का इस वाग में समावेश करने का यत्न किया गया था।

कुमार को कौतुक करना था। उसने इस दफा अनेक रूप धारण किये। गूकर, शृंगाल, भालू, भेड़, बकरी, हिरण, रौद्र, घोड़ा, सच्चर, टांक, काक, चील, और लंगूर तथा लाल मुंह वाले कन्दर आदि के रूप बनाये। सब के सब एक साथ वगीचे

पर टूट पड़े। सब ने मिलकर पल भर में बगीचे का सत्यानाश कर डाला। वृक्ष तहस-नहस हो गये, लताएँ उखड़ गई, पौधे उजड़ गये। मण्डप छिन्न-भिन्न हो गये ! सारा बगीचा मिट्टी में मिल गया। सब पशुओं और पक्षियों ने मिलकर बगीचे को खोद डाला, उखाड़ फेंका, तोड़-मरोड़ डाला। माली और मालिने मिलकर उन्हें हाँकने और भगाने का भरपूर प्रयत्न करने लगे। उनके प्राण सूखे जा रहे थे। वे पत्थर मार रहे थे, ईंटे फेंक रहे थे, गोफण चला रहे थे, तीर मार रहे थे, होहल्ला मचा रहे थे, बाजा बजा रहे थे पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। पशु-पक्षी अपनी जगह से तिल भर भी नहीं सरकते थे। अन्त में जब सारा बाग उजड़ गया तो वे जलाशयों की ओर बढ़े। जलाशयों का पानी पी-कर सोख लिया। फिर उद्यानपालों के घरों की ओर उन्मुख हुए। सब घरों के छप्पर उखाड़ फेंके। उनके घरों की हंडियां फोड़ दी, मटके फोड़ दिये आटा-दाल बिखेर दिया, घी-तेल आदि फैला दिया।

उद्यानपाल हैरत में पड़े शक्ति भर प्रयत्न कर रहे थे कि किसी प्रकार इनसे पिण्ड छुड़ाएँ। मगर उनकी एक न चली। उनके घरों को उजाड़ कर पशु-पक्षियों ने उन पर ही हमला कर दिया। उद्यानपालों के कपड़े फाड़ दिये ! उनके कान, नाक आदि अवयव खरोंच डाले। बेचारे उद्यानपाल अब रोने के सिवाय और क्या कर सकते थे ? झार-झार आँसू बहा कर रुदन करने लगे।

उत्तर सत्यभामा के पास उद्यान के उजड़ने का समाचार

पहुँचा। वहाँ से मुभट अस्त्र-शस्त्र से मुसज्जित होकर उद्यान की ओर भागे-भागे आये। मगर उन्होंने देखा—उद्यान तो धूल में मिल चुका है और कहीं भी, कोई भी पक्षी या पशु दृष्टि-गोचर नहीं हो रहा है ! सब के सब न जाने कहाँ और कैसे विलीन हो गये !

मुभट निराश और चकित होकर वापिस लौट गये।

: ३ :

तीसरा - चमत्कार



वाग को तहम-नहस करके प्रद्युम्नकुमार आगे चला। नगरी में आकर उसने एक अत्यन्त सुन्दर और मुसज्जित रथ देखा। रथ स्वर्णमय था और रत्न जटित था। उसके चारों ओर मोतियों की मालाएँ लटक रही थी। ऊपर पांच गुम्बज थे और उन पर लाल ध्वजाएँ एवं पताकाएँ फहरा रही थी। रथ में जड़े हुए दर्पण बड़े भले मालूम होते थे। छोटी-छोटी घण्टियाँ झनझन की मधुर ध्वनि कर रही थी।

रथ में मनोहर और विशालकाय बेल जूते थे। उनका रंग चितरवरा था। बेलों के कंधे और पान बड़े-बड़े तथा

सींग छोटे-छोटे थे। वे जरी की झूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके गले में बहुमूल्य घूंघर बँधे हुए थे। उस रथ में कुछ रमणियाँ बैठी गीत गा रही थी। अप्सरा के समान जान पड़ती थी और किन्नरियों के सदृश मनमोहक ध्वनि में उल्लास के साथ गीत गा रही थी।

इस उत्तम रथ को देखकर प्रद्युम्नकुमार ने कर्णपिशाचिनी विद्या से पूछा—देवी! यह रथ किसका है और किस प्रयोजन से कहाँ जा रहा है?

देवी ने उत्तर दिया—रथ महारानी सत्यभामा का है। उनकी दासियाँ कुम्भकार के घर कुम्भ लेने जा रही है। भानु-कुमार का विवाह हो रहा है न! उसमें चाकपूजा भी होगी। इस विवाह के साथ तुम्हारी माताजी के भविष्य का गहरा सम्बन्ध है। कुछ प्रतीकार कर सको तो करो।

कुमार ने अपना कर्त्तव्य निर्धारित कर लिया। सत्यभामा की दासियाँ जब प्रजापति के घर से कुम्भ लेकर वापिस आईं तो प्रद्युम्नकुमार ने सारथी का, ऊंट का और गर्दभ का रूप धारण किया। ऊंट और गर्दभ को रथ में जोत दिया और सारथी के रूप में रथ चलाने लगा। रथ कुछ आगे बढ़ा तो देखने वालों की हंसी के फौहारे छूटने लगे! ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर भला किसको हंसी न आती!

प्रद्युम्नकुमार बड़ी तेजी के साथ रथ को दौड़ाने लगा। दासियाँ चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मना करने लगी, मगर

प्रद्युम्नकुमार ने इस ओर तनिक भी कान नहीं दिया। वह और अधिक तीव्रगति से दौड़ाने लगा। कुम्भ भड़ाभड़ फूटने लगे। इस घोर अपशकुन को देखकर दासियों के दिल दहल उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। वे रथ चलाने वाले को गालियाँ देने लगी। गालियों का बदला लेने की नीयत से कुमार ने रथ को इतना उल्लास कर दिया कि उसमें बैठी समस्त महिलाएँ नुदक गईं और एक दूमरी पर गिर पड़ी फिर भी रथ उसी वेग से दौड़ता रहा। अब उनका नम्भलना कठिन हो गया। जितनी रथ में बैठी थी सब नीचे गिर पड़ी।

कुहराम भच गया। चंख-चिल्लाहट की आवाज आने लगी। किमी का पाघरा अटक गया, किमी की ओढ़नी फँस गई और फट गई, कोई नंगी होकर नीचे जा गिरी! किमी का गिर फूट गया और किमी के दाँत टूट गये, किमी की आँख में चाँट आई, किमी का नाक कट गई। किमी को खरोंच आ गई और रक्त धारा बहने लगी। किमी-किमी का हाथ या पैर रथ में अटक गया और धड़ नीचे आ गिरा। ऐसी महिलाएँ रथ के साथ बिसदनी-धिसदनी चलाने लगीं।

लोग देखकर अचम्भे में आ गये। द्वारिका की गली-गली में जोर भच गया। मगर रथ अपनी तीव्रगति से चलता जा रहा था। बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश का मगर वह काहे को रोकने वाला था। लोगों की एक बड़ी भीड़ रथ के पीछे-नीछे दौड़ती जा रही थी। सब लोग होहल्ला मचा रहे थे। मगर किमी का रुठ भी बस नहीं चल रहा था। कुछ लोग हिम्मत

करके रथ को रोकने के लिए सामने आये, मगर उनकी और भी बुरी हालत हुई। कोई दब गये, कोई कुचल गये। रथ मगर नहीं रुका, नहीं रुका।


दुर्ग की जगह विपाद छा गया। गाने की जगह रोने की ध्वनि फैल गई। उस अभूतपूर्व और अनोखी घटना को देखा-देख कर लोग दंग रह गये। किसी की समझ में नहीं आया कि अमर्त्यी बात क्या है? किसी ने कहा—इन्द्रजालिया हैं। कोई कहने लगा—इन्द्रजालिया में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, यह तो कोई देवता होना चाहिए! किसी ने कहा—यह कोई विद्याधर है। एक कहने लगा—नहीं, मालूम तो ऐसा होता है कि नरभवतारी ही है, मगर है बड़ा अद्भुत, जो यादवनाथ से भी नहीं डरता है! इसका माहम गजब का है। जिनमें दुनिया भय जाती है, उसको भी उसे परवाह नहीं है!

कई बड़े-रथ ने आदमी मर्त्यी के एक किनारे सड़े हाथ ऊंचा कर-करके कुमार को मना करने लगे। कहने लगे—अरे भाई, ऐसा काम मत कर।

प्रद्युम्नकुमार ने किसी के कहने और रोकने की परवाह नहीं की। वह रथ को उसी त्वरा के साथ दौड़ाना-दौड़ाता अन्धधुंध गायब हो गया। उसे गायब हुआ देख लोग अत्यन्त भयभीत और चकित हो गये, एक कहने लगा—वह आकाश में चढ़ गया है। दूसरा बोला—नहीं, पृथ्वी में समा गया है। उस प्रयोग जिनके मूढ़ चतनी बातें होनी लगीं। समस्त द्वारिका में उस घटना से भारी आतंक छा गया। सर्वत्र एक साथ यही

बर्षा होने लगी मगर घटना की वास्तविकता किसी की समझ में न आई।

दासियाँ रोती-चिल्लाती सत्यभामा के पास पहुँची। उन्होंने आदि से अन्त तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया। सत्यभामा के विस्मय की कोई सीमा न रही। उसे अपार क्रोध चढ़ आया। मगर जल भुनकर रह गई। करती तो क्या करती? उपद्रव करने वाले का कुछ पता नहीं था। वह उदास, खिन्न चरित्त मौन साध कर बंठ गई।



: 8 :

चौथा चमत्कार

— ❖ ❖ ❖ —

प्रद्युम्नकुमार ने खूब कौतुक करने की ठान ली थी। वह जिहता था कि द्वारिका में एक बार खूब तहलका मच जाय और सत्यभामा का घमण्ड चूर-चूर हो जाय। इस प्रकार के संकल्प से प्रेरित होकर प्रद्युम्नकुमार ने फिर अपना रूप पल्टा। अब की बार उसने ब्रान्हूण पंडित का रूप धारण किया। गौरवर्ण और हृष्ट-पुष्ट शरीर। हिम की भाँति स्वच्छ छाँती धारण

की। गले में जनेऊ पहन लिया और मस्तक पर एक अंगोछा लपेट लिया। गुजराती ढंग के जूते पहने। कानों में सोने के आभूषण और उंगलियों में हीरे की अंगूठियाँ शोभित होने लगी। ललाट पर लम्बा, शैवों के ढंग का तिलक लगाया और दाहिने हाथ में कमंडलु ले लिया। कंठ में रुद्राक्ष की माला थी और बगल में पंचांग देवा हुआ था।

ब्राम्हण वेदध्वनि करता हुआ, भाँति-भाँति के श्लोकों का उच्चारण करता हुआ, अपने कंठ के माधुर्य से श्रोताओं के मन को मुग्ध करता हुआ, गम्भीर चाल से चलने लगा। वह जल से परिपूर्ण उस वापिका के समीप आया। वापिका की रक्षा के लिए एक दासी नियुक्त थी। ब्राम्हण-देवता ने उस दासी को 'चिरंजीव रहो' कह कर आशीर्वाद दिया। वह अत्यन्त प्रसन्नता के साथ अपने स्थान से उठी, पंडितजी के सामने आई और धरती पर माथा टेककर नमस्कार करने लगी। फिर बोली—विप्र महाराज ! मेरे धन्य भाग है कि आपका यहां पदार्पण हुआ। आपके दर्शन क्या हुए साक्षात् ब्रम्हाजी के दर्शन हुए।

ब्राम्हण ने सन्तोष प्रकट करते हुए कहा—वाई मैं यात्री हूँ। दूर देश से आ रहा हूँ। मुझे बड़ी तेज प्यास सता रही है। एक कमंडलु पानी और थोड़ा सा सीधा मिल जाय तो चोला मगन हो जाय !

दासी—देव ! लाचार हूँ। यहाँ मेरा घर नहीं है। घर होता तो आप जैसे अतिथि का आगत-स्वागत करके अपना जनन सफल करती। यह वापिका महारानी सत्यभामा की है। उनका सख्त हुक्म है कि इसका पानी किसी को न दिया जाय !

ब्राम्हण—सीधा नहीं देना है तो न सही, पानी तो ले लेने दो।
प्यास बुझ जायगी तो मेरी भी आत्मा सुख पाएगी और तुम्हें
भी पुण्य होगा।

दासी—नहीं महाराज ! मैं महारानी का आदेश भंग नहीं
कर सकती। आखिर मैं उनकी दासी हूँ और उन्हीं के राज्य
मे रहती हूँ। किसी ने कह दिया तो मेरी शामत आये बिना
नहीं रहेगी ! इस वापिका का जल महाराज श्री कृष्ण, महा-
रानी सत्यभामा और भानुकुमार के सिवाय और कोई नहीं
पी सकता।

ब्राम्हण—मैं तो सिर्फ एक कण्डलु भर पानी चाहता हूँ।
इतना सा पानी ले लेने दोगी तो वावड़ी खाली नहीं हो
जायेगी ! बल्कि मेरे स्पर्श से वावड़ी और उसका जल पावन
ही जायगा। और देखो दासी, मैं पानी को मंत्रित करके
दे दूंगा। उस पानी से स्नान करोगी तो तुम्हारा रूप इन्द्राणी
जैसा बन जायगा। सब तुम्हारी ही तरफ देखेंगे। तुम्हारी
स्वामिनी भी तुम्हारे रूप को देख कर ईर्ष्या की मारी रोएगी।

इस प्रकार की बात-चीत चल ही रही थी कि वहाँ आस-
पास की अन्य स्त्रियाँ भी आ पहुँची। ब्राम्हण देवता न देखा
कि दासी किसी भी प्रकार पानी नहीं लेनी देती तो वह कमा-
ण्डलु उठा कर वापिका का ओर चले। दासी घबराई। उसने
हल्ला मचाया। किसी ने ब्राम्हण देवता की धोती पकड़ कर
खींचना शुरू किया, किसी ने हाथ पकड़ कर और किसी ने
पैर पकड़ कर उन्हे जाने से रोका। सब की सब ब्राम्हण को

पकड़ कर बंदरियों की तरह चिपट गई। संस्कारहीन दासियाँ ही तो ठहरी, उनमें लज्जा नाम की कोई वस्तु नहीं थी। ब्राम्हण देवता जब रुकते दिखाई न दिये तो वे असभ्य और अशिष्ट वचन कहने लगी।

ब्राम्हण बोला— भामा पटरानी कोई भूतनी जान पडती है और तुम सब भी उसी के समान हो ! तुम मेरे गुणों से परिचित नहीं हो, इसी कारण सत्यभामा का पक्ष ले रही हो। मुझे छोड़ दो और पानी लेने दो। मैं पानो लिये बिना नहीं रहूँगा।

दासी— बम्हन कही के। तू क्या वकवास करता है ! बड़े-बड़े राव राजा तो इस पानी के लिये तरसते हैं और पाते नहीं हैं, तू इसे पीने का मनोरथ करता है ! कांच में अपना मुँह देख ! तू है किस खेत की मूली !

ब्राम्हण ने सौम्य मृद्रा धारण करके समझाने का प्रयत्न किया। कहा—बाई ! तुझे मेरे गुणों का पता नहीं है। मेरे जैसे गुरु के चरणों की रज के प्रताप से जगत् पावन हो जाता है, जगत् के पाप दूर हो जाते हैं।

इतना कहने पर भी जब दासियों ने अपना हठ न छोड़ा तो ब्राम्हण देवता ने अपनी करामात दिखलाई। उसने दासी की ओर मुख करके मंत्र की एक ऐसी फूँक मारी कि दासी सहसा और की ओर हो गई। उसके शरीर का कालापन गौरवर्ण के रूप में पलट गया और बदसूरत मिटकर वह रूप-

वती हो गई ! इतना ही नहीं, दासी का शरीर विविध प्रकार के आभूषणों से भूषित हो गया ! अपना यह विचित्र और अचिन्त्य रूप देखकर उसने ब्राम्हण को छोड़ दिया और दूर जा खड़ी हुई ।

दासी का हर्ष हृदय में नहीं समाया । वह कहने लगी— 'ब्राम्हण देवता बड़े करामाती है, बड़ उपकारी है ।' यह कहकर वह वापिका से बाहर आ गई । उधर ब्राम्हण वेषधारी प्रद्युम्नकुमार ने अपनी विद्या के प्रभाव से वापिका का समस्त जल अपने छोटे-से कमण्डलु में भर लिया । जल भर कर वे जब बाहर निकले तो दासी उसके पैरों पड़ने लगी और भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगी ।

जब ब्राम्हण आशीर्वाद देकर चला गया तो दासी की दृष्टि वापिका पर पड़ी । वापिका विलकुल सूखी थी । उसमें चुल्लू भर भी जल शेष नहीं था । यह देखकर दासी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । उसका दिल चिन्ता और भय के कारण उद्विग्न हो उठा । सत्यभामा की भयंकर मूर्ति उसकी आंखों के सामने नाचने लगी । उसे अपना भविष्य संकटमय प्रतीत होने लगा ।

दासी अब क्या करती ? बेचारी उस ब्राम्हण के पीछे दौड़ी और जोर-जोर से उसे पुकारने लगी । कहने लगी—हे देव ! जरा खड़े तो रहो, सारा जल मत ले जाओ । मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । मुझ पर दया करो । वापिका को फिर भर दो । इस वापिका का सूखना तो मेरे प्राणों का सूखना है । मैं बेमौत मारी जाऊंगी ।

दासी के इतना कहने पर भी ब्राम्हण ने कान नहीं दिया। वह निश्चिन्त भाव से, स्वाभाविक गति से आगे चलता गया, मानो कोई बात ही नहीं है ! दासी फिर कहने लगी—विप्र महाराज ! जल जगत् का जीवन है। मनुष्य के प्राण जल के बिना रह नहीं सकते। जल के बिना अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता। जल इस लोक का अमृत है। इसके अभाव में जगत् क्षण भर भी नहीं ठहर सकता। ऐसी उपयोगी और जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु पर आप कोप क्यों करते हैं। दया करो, रहम करो, बाबाजी मैं आपकी सेविका हूँ। वापी को फिर जैसी की तैसी भर दो !

मगर बाबाजी के कान पर जूँ भी न रेंगी। जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं और हाथी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार बेपरवाही के साथ ब्राम्हण आगे चलता जा रहा था। आखिर लाचार और निराश होकर भी दासी उसके पीछे-पीछे चलने लगी। ब्राम्हण आगे चला।

आगे चलकर ब्राम्हण-वेषी कुमार ने एक वाग देखा। उस वाग में भानुकुमार की सेनाशाला थी। कुमार तो कौतुक करने और सत्यभामा के अभिमान को दलित करने के लिये ही निकला था। अतएव उसने अपनी विद्या के प्रभाव से वहाँ के हाथी और घोड़े आदि अदृश्य कर दिये। सेनाशाला के रक्षक हतबुद्धि और आश्चर्य चकित हो गये ! उनकी समझ में ही नहीं आया कि सम्पूर्ण सेना यकायक कहां गायब हो गई ! होहल्ला और शोरगुल मच गया। दौड़-धूप आरम्भ हो गई।

लोग भाग-भाग कर आते और जो सुनते-देखते, उससे उनके आश्चर्य का पार न रहता!

धर ब्राम्हण अपने रास्ते चलता जा रहा था। दासी रोती-चीखती परछाई की भाँति उसके पीछे-पीछे चली जा रही थी। लोगों ने उसके रोने का कारण पूछा तो दासी बोली— यह ब्राम्हण बड़ा ही करामाती है। इसने महारानी की बावड़ी सोखली है! अब मेरी क्या दशा होगी।

कुछ लोगों को क्रोध चढ़ आया। उन्होंने दासी का पक्ष लेकर ब्राम्हण को रोकना चाहा। जब ब्राम्हण न रुकने लगा तो उसे पकड़ने की चेष्टा की। धक्का-धूम होने लगी। ब्राम्हण चुपचाप खड़ा हो गया और उसने अपना कमण्डलु जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। कहा—नहीं मानते तो ले लो अपना पानी!

ब्राम्हण का इतना कहना था और कमण्डलु का फोड़ना था कि आस-पास में पानी ही पानी दृष्टिगोचर होने लगा। कुछ पानी तो वापिका का था ही और कुछ विद्या के बल से बढ़ गया। दिखाई देने लगा, मानो नदी में बाढ़ आ गई है। सारा बाजार जलमय हो गया। जल के प्रवाह में लोग बहने लगे और वहाँ भी चीख-चिल्लाहट मच गई। कपड़े-लत्ते, किराना, पशु, मनुष्य आदि जल के प्रवाह में बहने लगे। घरों में पानी ही पानी हो गया। अनमोल वस्तुएँ खराब हो गईं। घोर हा-हाकार की ध्वनि से आकाश व्याप्त हो गया। ब्राम्हण देवता अब अदृश्य हो चुके थे। खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं था।

सत्यभामा ने अपने जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। यकायक क्या हो गया है, किस देवता का कोप उस पर बरस पड़ा है, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक के पश्चात् दूसरी ओर दूसरी के पश्चात् तीसरी अप्रिय और दिल दहलाने वाली घटना सुन-सुन कर उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। उसे घोरतर अनिष्ट की आशंका होने लगी। विषाद की छाया उसके चेहरे पर नाचने लगी। मगर वह विवश थी। जो कुछ हो रहा था, इतना अद्भुत था कि उसका प्रतिकार करने का भी कुछ उपाय नहीं था। वह मन मार कर बैठी रही। उसकी छाती भय और आशंका से धड़कने लगी।

: ५ :

पाँचवाँ - चमत्कार

प्रद्युम्नकुमार अपनी अनोखी करामाते दिखलाते हुए आगे चले। कुछ ही आगे चलने पर उन्हें एक सुन्दर बाजार दिखलाई दिया। बाजार में खूब चहल-पहल और रौनक थी। वहाँ की सड़कें चौड़ी, सीधी और साफ-सुथरी थी वीच-वीच में विशाल चौक बाजार की शोभा को बढ़ा रहे थे। बाजार की

समस्त दुकानें एक कतार में बनी हुई थीं। माली, तम्बोली, सराफ, बजाज आदि सभी की दुकाने थीं। सब लोग अपनी-अपनी दुकानोंपर माल फैला-फैला कर बैठे थे। हीरा, मोती आदि तरह-तरह के रत्न और मणियां बिक रही थीं, ऊनी और सूती वस्त्र बिक रहे थे, कहीं जरी के कपडे चमचमाते हुए लटके थे। सारा बाजार जगमग-जगमग हो रहा था। अपूर्व शोभा थी उस बाजार की! तंबोली स्वादिष्ट और सुन्दर बीड़ा बना रहे थे, माली हृदयहारी हार गूँथ रहे थे।

कुमार ने कर्णपिशाचिनी से पूछा—बाजार में आज इतनी रौनक क्यों दिखलाई पड़ रही है? कर्णपिशाचिनी बोली—भानुकुमार के विवाह के कारण ही यह रौनक और चहल-पहल है।

कौतुक-कामी प्रद्युम्नकुमार ने कर्णपिशाचिनी का उत्तर सुनकर नवीन रूप धारण किया। अब की बार वह वामन रूपधारी विप्र बन गया। ठिगना कद, गौर वर्ण और उम्र से नवयुवक! गले में तुलस की माला और यज्ञोपवीत! पैरो में खड़ाऊँ। तेजस्वी चेहरा और भव्य रूप। यही कुमार का नवीन वेष था। इस वेष में कुमार कौतुक करने चला।

सर्वप्रथम कुमार माली की दुकान पर पहुँचा। कहा—भाई, दो चार फूल हमें चाहिए। दे दो!

माली बोला—युवराज भानुकुमार के लिए मैं हार गूँथ रहा हूँ। इन फूलों में से आपको एक भी नहीं मिल सकता।

कुमार ने नज़र गड़ा कर फूलों की ओर देखा तो समस्त सुगन्धित परिपूर्ण पुष्प आक और घतूरे के हो गये !

वामन ब्राम्हण चुपचाप आगे बढ़ा। गंधी की दुकान पर जाकर इत्र, तेल और फुलेल माँगा। गंधी ने भी वही उत्तर दिया—यह सब सुगन्धित वस्तुएँ भानूकुमार के लिए हैं। किसी को देने की आज्ञा नहीं है।

यह उत्तर सुन कर वामन खिलखिला कर हँस पड़ा उसके हँसते ही सुगन्ध घोर दुर्गन्ध के रूप में पलट गई। दुर्गन्ध की उग्रता ने आसपास के वायुमण्डल को दूषित कर दिया। गंधी का दम घुटने लगा।

वामन देवता फिर आगे बढ़े। अब की बार वह अनाज की दुकान पर पहुँचे। कहा—भाई, हम ब्राम्हण हैं, परदेश से आये हैं। सेर दो सेर अनाज मिल जाय तो पेट का उपचार कर ले। मगर दुकानदार ने अनाज देने से इन्कार कर दिया। ब्राम्हण ने खीझ कर विद्या के प्रभाव से सारा अनाज उलट-पलट दिया। चावल तुवर बन गये और तुवर के बदले चावल नजर आने लगे। गहूँ कोदों और बाजरा के रूप में परिणत हो गये। इस तरह सभी अनाज में अकस्मात् उलट फेरा हुआ देख कर वणिक् भौंचक्का रह गया। वह चिल्लाने लगा, घबड़ाने लगा और रोने लगा।

ब्राम्हण फिर आगे चला। वह पंसारी की दुकान पर पहुँचा और कहा—भाई, थोड़ी-सी केसर चाहिए। कीमत लेकर

वेचते-हो, आज ब्राम्हण को दक्षिणा-मे ही दे दो ! दुकानदार जब देने को तैयार न हुआ तो ब्राम्हण ने अपना चमत्कार दिखलाया । उसकी दुकान की सारीं केसर गेरू बन गई, कपूर खारा नमक हो गया, कस्तूरी हींग बन गई ! वणिक् अचानक हेर-फेर को देखकर किस प्रकार चिन्तित हुआ, यह कल्पना करना कठिन नहीं ।

ब्राम्हण देवता इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए । आगे चलकर वे एक बजाज की दुकान पर पहुँचे । बजाज से तन ढँकने को कपड़ा माँगा । उसने देने में असमर्थता प्रकट की । तब वहाँ भी ब्राम्हण ने अपनी करामात दिखलाई । उसकी दुकान में जितना भी कपड़ा था, सब उलट-पलट गया सारा वेढंगा और बेरंगा हो गया । रेशमी वस्त्र टाट के रूप में दिखाई देने लगे । और टाट रेशम बन गया ! जिसका रंग लाल था वह काला, काला-लाल, हरा नीला और नीला हरा हो गया । बूटेदार छीट मलमल की भाँति सफेद हो गई और मलमल ने छीट का रूप धारण कर लिया । इस प्रकार समस्त वस्त्रों में आमूल परिवर्तन देखकर बजाज दंग रह गया । उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ ।

इसी प्रकार सराफ की दुकान पर जाँकर ब्राम्हण ने पवीतरी (चरण मृती) माँगी । सराफ ने देना स्वीकार नहीं किया तो उसे क्रोध आ गया । सराफ की दुकान का सारा सोना पीतल रूप हो गया । चाँदी कथील की तरह दिखाई देने लगी । मूंगा मिट्टी हो गये । इस प्रकार के उलट-फेर से सराफ भी हक्का-बक्का रह गया ।

ब्राम्हण आगे बढ़कर जौहरी की दुकान पर जा पहुँचा। जौहरी से कहा—राजाओं और सेठ-साहूकारों को रत्नमय आभूषण दिया करते हो, आज एक विद्वान ब्राह्मण को रत्न-जटित गोप दान में दे दो। मगर जौहरी बहुमूल्य गोप देने को उद्यत न हुआ। ब्राह्मण ने उसी समय क्रुपित होकर समस्त रत्नों को ऐसा कर दिया कि वे साधारण पाषाण के टुकड़े नजर आने लगे। जौहरी मूल्यवान हीरा, पन्ना आदि रत्नों को पाषाण-खंड के रूप में देखकर अपना मस्तक धुनने लगा।

ब्राह्मण को ठहरने का अवकाश ही कहाँ था? जौहरी अपना सिर पीटता रहा और वह आगे चल दिया। ब्राह्मणवेषी प्रद्युम्नकुमार इतना करके ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने सम्पूर्ण बाज़ार की दुकानों में विद्याबल से ऐसी गड़बड़ कर दी कि किसी भी व्यापारी को कोई भी वस्तु अपने स्थान पर न मिलने लगी। सब व्यापारी तिलमिला उठे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक हल्ला-गुल्ला मच गया। कोई रोने लगा, कोई विषाद के सागर में डूब गया, कोई छाती पीटने लगा और कोई चकित होकर नीची गर्दन करके बैठ गया।

दुकानों पर ग्राहक आते और अपनी प्रिय वस्तु माँगते थे। दुकानदार पेट्टी या डिब्बा खोलता तो उसमें कुछ का कुछ पाता। ग्राहक निराश होकर लौटने लगे। व्यापारी अपने नफे के लिए तो रोते ही थे, मूल वस्तु के गुम जाने के लिए भी चिन्तित हो रहे थे। बड़ी-बड़ी तोंद वाले सेठों की घबराहट देखने योग्य थी! सारांश यह है कि सम्पूर्ण बाज़ार में एक अनोखी हलचल उत्पन्न हो गई।

इस प्रकार बाजार के लोगों को चकित, विस्मित और वंचित करता हुआ राजकुमार आगे चला। चलते-चलते वह राजप्रासाद के द्वार पर जा पहुँचा। सब से पहले वसुदेवजी का महल आया। महल के नीचे के भाग में, दहलान में वसुदेवजी रत्नजटित सिंहासन पर सुशोभित हो रहे थे। बत्तीस हजार प्रेमदाओं के पति, दानवीर, धीर, गम्भीर, गुणों के आगार शूरता के सागर और दस दसार के लघुभ्राता का सौम्य और तेजोविराजित मुखमण्डल देखकर प्रद्युम्नकुमार का हृदय हर्ष से विभोर हो गया। कुमार ने विद्या से उनका परिचय पूछा। विद्या ने बतलाया—यह महानुभाव आपके पिता श्रीकृष्ण के पिता और आपके दादा है।

जब कुमार वहाँ पहुँचा तो दहलान के सामने विस्तृत चौक में मीठों का युद्ध हो रहा था। अनेक राजपुरुष अपने-अपने मीठे वहाँ लाये थे और मनोविनोद के लिए उन्हें लड़ाया जा रहा था। उन मीठों में एक बूढ़ा था जो बड़ा ही वलिष्ठ था। दूसरा कोई भी मीठा उसका मुकाबिला करने में समर्थ नहीं था। वह सभी को भगा देता था। कुमार थोड़ी देर खड़ा-खड़ा यह तमाशा देखता रहा। फिर उसने कर्णपिशाचिनी से पूछा—यह बूढ़ा मीठा किसका है।

कर्ण०—यह आपके दादाजी का है। इसके पराक्रम और बल को देखकर दादाजी फूले नहीं समा रहे हैं। मीठे लड़ाने का इन्हे बड़ा शौक है।

कुमार ने तुरन्त विद्या के प्रभाव से एक मीठा बना डाला—

विशालकाय और खूब तगड़ा। उसका शरीर सुन्दर गहरे रंग से रंग दिया। कुमार ने मदारी का रूप धारण किया। पैरों में पायजामा पहन लिया, मस्तक पर छोटा-सा साफा बाँध लिया और गले में मणकों एवं पत्थरों की माला पहन ली। लम्बी घनी मूँछे तथा दाढ़ी बढ़ा ली।

इस प्रकार मदारी का पूरा वेष धारण करके प्रद्युम्न-कुमार मीढ़ा के गले में बँधी रस्सी को दाहिने हाथ में पकड़कर आगे बढ़ा। उसने वसुदेवजी से निवेदन किया—पृथ्वीनाथ ! मैं अपने मीढ़े को भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित करना चाहता हूँ। कृपा करके इस मीढ़े के साथ भी युद्ध कराइये।

वसुदेवजी अभिमान के साथ बोले—अरे मदारी, यह मीढ़ा तेरी जीविका का साधन है। इससे तू अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट पालता है। बड़े-बड़े राजाओं के मीढ़े भी मेरे मीढ़े से पराजित होकर भाग गये तो तेरे मीढ़े की क्या चलाई है? इसलिए तू रहने दे। अपने मीढ़े का सत्यानाश मत कर।

मदारी—एक वार मुकाबिला तो होने ही दीजिए। अगर जीत जाय तो आप शावाशी दीजिएगा।

वसुदेवजी तैयार हो गये। दोनों मीढ़े छोड़ दिये गये। आमने-सामने आये और एक दूसरे को क्रोधभरी दृष्टि से देख कर आपस में भिड़ गये। वसुदेवजी का सिखाया हुआ मीढ़ा बहुत बलवान् था और युद्धकला में निष्णात था, किन्तु विद्या-बल से निर्मित कुमार का मीढ़ा भी कम नहीं था। कभी एक

पीछे हटता, कभी दूसरा पिछड़ जाता। कुछ देर तक इसी प्रकार दोनों की भिड़न्त होती रही। अन्त में कुमार के मीढ़े ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर वसुदेवजी के मीढ़े पर ऐसा आक्रमण किया कि वह सामना करने में असमर्थ हो गया। वह पराजित होकर पीछे हट गया। मदारी का चेहरा खिल उठा और वासुदेवजी के चेहरे पर उदासी छा गई।

इस प्रकार प्रद्युम्नकुमार अपने दादा से भी न चूके! सच है—सिंह किसी का सगा नहीं होता। पराक्रमी पुरुष सर्वत्र अपना पराक्रम प्रदर्शित करता है और कुशल सर्वत्र अपने कौशल को व्यक्त करता है।

कुमार इस विजय से प्रसन्न होकर आगे चल दिया।



० ६ ०

छटवाँ-चमत्कार



प्रद्युम्नकुमार कुछ आगे चले तो उन्हें एक अतीव सुन्दर, इन्द्रभवन के सदृश एक भवन दृष्टिगोचर हुआ। वह भवन रत्नों की ज्योति से जगमगा रहा था। जगह-जगह ध्वजाएँ,

पताकाएं, तोरण और मालाएं उस भवन के सौन्दर्य को शतगुणित कर रही थी। सात मंजिलो का सुशोभित वह भवन आकाश से वाते कर रहा था। सुन्दर जालियां और मनोहर झरोखे दर्शक के चित्त हठात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। दर्शक की दृष्टि उससे हटना नहीं चाहती थी।

प्रज्ञप्ति विद्या ने कुमार को बतलाया—स्वामिन् ! अपना चमत्कार दिखलाने का उपयुक्त स्थान यही है। यह आपकी वैरिन सत्यभामा का भवन है। जो कुछ करना है यहां करो। यहां कोई कसर मत रहने देना। कोई ऐसी करामात दिखलाओ कि अभिमान की पुतली असत्यकामा सत्यभामा का दर्प दलित हो जाय और उसे लोक-हंसाई का पात्र बनना पड़े !

कुमार भी यही चाहता था। अब तक उसने जो कुतूहल किया था, वह तो यों ही आनुषंगिक था। असली करामात उसे यहीं दिखलानी थी। अतः कुमार ने तत्काल ब्राम्हण-बालक का रूप धारण किया। स्नान करके अपने शरीर को सर्वथा स्वच्छ किया। उसके सिर पर बड़े-बड़े बाल खुल्ले लहराने लगे। भाल पर मनमोहक तिलक शोभाय मान होने लगा। गले में रुद्राक्ष की माला सोहने लगी। ब्राम्हण-कुमार आधी धोती पहने और आधी गले में लपेटे हुए था। उसके हाथ में पीतल की एक लुटिया थी। देखने में वह भव्य और सौम्य प्रतीत होता था। बालक संस्कृत भाषा के श्लोकों का अविराम गति से उच्चारण कर रहा था। उसके स्वर में सरसता और मधुरता थी। सबको ब्राम्हणकुमार को देखकर प्रीति उत्पन्न होती थी।

सत्यभामा अपनी दासियों से घिरी हुई बैठे थी। तारिकाओं से आवृत चन्द्रमा की भाँति वह सुशोभित हो रही थी। कुमार उसे देखकर अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ।

बालक सत्यभामा के समक्ष आकर खड़ा हो गया। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा — 'स्वस्त्यस्तु'।

सत्यभामा विप्रकुमार का सौम्य स्वरूप देख प्रसन्न हुई। उसने कहा-विप्र ! कहो, क्या चाहते हो ? जो चाहोगे वही मिलेगा। यहां किसी भी वस्तु की कमी नहीं है।

विप्रकुमार सन्तोष का भाव व्यक्त करके बोला-माताजी ! मुझे भूख लगी है। उदर भर भोजन मिल जाय, वस और कुछ भी नहीं चाहिए। आज सौभाग्य से वासुदेव महाराज की बड़ी पटरानी के दर्शन हुए हैं। माता ! इस प्रकार भोजन कराइए कि खूब तृप्ति हो जाय। उसके बाद मैं आगे चल दूंगा।

कुमार के आने से पहले भोजन के निमित्त एक और ब्राम्हण वहां आया हुआ था। उसने लघ्वयस्क ब्राम्हण की छोटी-सी-याचना सुनकर कहा— तू उम्र से तो बालक है ही, बुद्धी से भी बालक जान पड़ता है। महारानीजी जब मुंहमागा देने को तैयार है तो सिर्फ भोजन क्यों मांगता है ? अरे, कोई अनमोल वस्तु मांग। तीन खण्ड के अश्विपति की पटरानी से पेट भर भोजन मांगना बुद्धीमत्ता नहीं है। भोजन तो घर-घर और गली-गली में मिल सकता है। यहां तो तुझे हाथी, घोड़ा, रथ, हीरा, मोती आदि कोई बहुमूल्य वस्तु मांगनी चाहिए। यहां कमी क्या है ?

विप्र बालक कहने लगा— भूदेव ! तुम विवेकहीन और आचरणहीन ब्राम्हण हो । कनक कामिनी का मेवन करने वाले हो । तुम विद्या बेचकर अपनी आजीविका चलाते हो । मन्त्र—तन्त्र बतलाकर धनोपार्जन करते हो । आज संसार में बहुत से ब्राम्हण ऐसे ही हैं । उन्होंने सच्चे ब्राम्हणत्व का परित्याग कर दिया है । वे लोभ-लालच से घिर गये हैं । ब्राम्हण के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण ही वे अपने को ब्राम्हण कहते हैं, किन्तु ब्राम्हण के लक्षण उनमें लग-मात्र भी नहीं देखे जाते । सच्चा ब्राम्हण कौन है ?

जहा पोम्मं जले जाय, नोवल्लिप्पइ वारिणा ।
 एवं अलित्तं कामेहि, तं वयं बूम माहणं ॥
 अलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिच्चणं ।
 असंसत्तं गिहत्येसु, तं वयं बूम माहणं ॥

हे विप्र ! जैसे कमल जल से उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो समस्त कामों से सदा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राम्हण कहते हैं । जो लोलुपता से रहित हो, निष्काम भाव से जीवन यापन करता हो, घर बनाकर न रहता हो, अकिंचन हों और जो गृहस्थों के साथ वनिष्ठता न रखता हो, उसको हम ब्राम्हण कहते हैं ।

इन लक्षणों से सम्पन्न सच्चे ब्राम्हण को हाथी, घोड़ा लेकर क्या करना है ? हीरा-मोती लेकर वह कहां रखेगा ? भिक्षा पर निर्वाह करने वाला व्यक्ति इन सब वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं रखता ।

गये। वे पागलों की तरह अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करने लगे। आपस में एक दूसरे को गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने सभ्यता, शिष्टता, लोकमर्यादा और लज्जा का परित्याग कर दिया। सब आपस में ही एक दूसरे के साथ भिड़ गये। किसी ने लाठी ली, किसी ने जलती लकड़ी उठाई, किसी के हात लोटा ही आ गया, किसी को मूमल मिल गया, किसी को इंट मिली। जिसे जो कुछ हाथ लगा, वही लेकर वे आपस में लड़ने और मार-पीट करने लगे। जिसे कुछ नहीं मिल पाया था, वे लातों और हाथों का ही उपयोग करने लगे। एक दूसरे की लातों से और घूसों से पूजा उतारने लगे। किसी को और कुछ नहीं सूझा तो अपना सिर ही दूसरे के सिर से टकराने लगे। किसी ने अपनी बगल में खड़े हुए दूसरे ब्राम्हण को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और आप उसकी छाती पर चढ़ बैठा। कोई-कोई अखाड़े में मल्लों की भाँति कुश्ती करने लगे। एक दूसरे के प्रति अपने दाँत मिस-मिसाने लगे। किसी ने किसी की लम्बी लटकती हुई चोटी खीच ली और घसीटने लगे। किसी ने दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़ कर जोर से खींची तो किसी ने मूँछ पकड़ कर खीचना शुरू किया! किसी ने किसी की टाँग पकड़ कर नीचे गिरा दिया। किसी ने दूसरोंकी हड्डियाँ ढिली कर दी।

सत्यभामा की भोजनशाला का वह भवन पागलखाने के रूप में परिणत हो गया। उस दृश्य को देख कर ऐसा जान पड़ता था कि पागलखाने के सब पागलों को मन चाहा करने की खुली छूट दे दी गई है। वे सब अपने चिरकाल के अरमान निकाल

यह क्या कर रहे है ? आज इनके भीतर दबी हुई पशुता किस कारण जाग उठी है ? यह सब किसी की समझ में नहीं आ रहा था !

ब्राम्हणों की उन अद्भुत चेष्टाओं को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक सकते थे। हँसते-हँसते कइयों का पेट दुखने लगा। कइयों के मुँह से लार टपकने लगी। किसी-किसी का दम रुक जाने से जी घबरा उठा। कइयों की आँखों में पानी आ गया।

कुछ लोग, जो स्याने समझदार थे, उन्हें समझाने लगे। जब उनकी बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा तो बीच-बचाव करने के लिए आगे बढ़े। मगर उनको छूते ही वे भी उन्हीं सरीखे हो गये। वे स्वयं लड़ने झगड़ने भिड़ने लगे। इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती ही गई और जैसे-जैसे संख्या बढ़ती गई, होहल्ला भी बढ़ता गया।

अनेकों के माथे फूट गये, कइयों के घुटने टूट गये, किसी के हाथों से रक्त की धारा बहने लगी, किसी के दूसरे अंगों में चोट आई।

सत्यभामा सब तमाशा देख रही थी और मन ही मन घबरा भी रही थी। उसे इस बात की चिन्ता हो रही थी कि मेरे द्वार पर आये हुए अतिथियों की ऐसी दुर्दशा हो रही है ! कहीं ऐसा न हो जाय कि किसी के प्राण चले जाएँ ! अवांछनीय घटना तो घट ही रही थी, मगर उसका दुष्परिणाम

एक दूसरे से बोला—हम सब ने सम्मिलित होकर बहुत बार भोजन किया है, पर आज जैसा भोजन तो कभी चखने को मिला ही नहीं। इस लघुवयस्क ब्राम्हण बालक ने आज अपूर्व स्वाद चखाया है !

विप्र कुमार ने कहा—ब्राम्हणगण ! मेरा अपराध क्षमा करना। यह दण्ड आपके दंभ और दर्प का दण्ड है। यह शिक्षा है। आप सच्चे ब्राम्हणत्व को समझे और सच्चे ब्राम्हण बने। सच्चा ब्राम्हण वही है जो पूर्ण रूप से ब्रम्हचर्य का पालन करता है और ब्रह्म अर्थात् आत्मा में रमण करता है। आज की यह घटना यही सबक सिखलाने के लिए है। स्मरण रखना—

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः।

मनुष्य की पूजा-प्रतिष्ठा उसके गुणों के आधार पर होनी चाहिए, उम्र या वेष के आधार पर नहीं।

इसके पश्चात् विप्र कुमार ने सत्यभामा की ओर उन्मुख होकर कहा—माताजी, मुझे न्यौता देकर बैठा क्यों रक्खा है? भूख के मारे मेरा जी अकुला रहा है। जिमाना हों तो अब देर मत करो। आप तो महाराज श्रीकृष्णजी की पटरानी हैं। आपके यहां किस वस्तु की कमी है? फिर आप जिमाने के लिए टालमटूल क्यों कर रही हैं?

सत्यभामा ने मुस्करा कर कहा—कुमार ! देर क्या मैंने की है? यह सब तो तुम्हारी ही करामात है ! अब कुछ देर नहीं है।

: ८ :

चरम चमत्कार

—XXXX—

कहावत है—चमत्कार को नमस्कार। सत्यभामा विप्रकुमार का अपूर्व चमत्कार देखकर अति प्रभावित हुई। वह मन ही मन सोचने लगी—यह ब्राम्हण कुमार बड़ा करामाती है। गुणों का सागर है। यह चिन्तामणि के समान समस्त मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला है। जैसे ऊपर-ऊपर राख से दबी हुई अग्नि भीतर तेज से समन्वित होती है, उसी प्रकार इस कुमार के भीतर भी अद्भुत तेज निहित है। यह मेघों से आच्छादित चन्द्रमा के समान है। इसे देख कर मेरा मन उल्लास का अनुभव करता है।

इतने में ब्राम्हण-कुमार सत्यभामा से बोला—बड़ी माँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जीमने बैठता हूँ। अगर भर पेट जिमा सको तो जिमाओ, मैं अधभूखा नहीं उठूँगा। अधभूखा रखना हो तो पहले से ही इन्कार कर दो। मैं चुप-चाप चला जाऊँगा! कहा है—

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् ।

जो आहार और व्यवहार में संकोच नहीं रखता, वह सुखी होता है। इसलिए मैं पहले ही साफ-साफ पूछ लेता हूँ।

हड़प जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि भोजन कब और कैसे गायब हो गया ! जैसे सूखे घास और घी का ईंधन पाकर अग्नि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार भोज्य-पदार्थ पाकर कुमार की क्षुधा-अग्नि भी वृद्धिगत होती जा रही थी। देखने वाले, परोसने वाले और भोजन बनाने वाले हैरान थे, आश्चर्य में डूबे हुए थे।

समस्त ब्राम्हणों के लिए जो भोजन बनाया गया था, वह सब समाप्त हो गया। तब आस पास के घरों से मँगवाया जाने लगा। मगर कुमार को तृप्ति कहां ? धाणी (लाई), मुरमुरा, मूँगफली, सत्तू आदि वस्तुएँ तक नहीं बची। तब हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, गायों और भैसों के लिए जो दाना तैयार किया गया था, उसकी वारी आ गई। वह सब भी विप्र की थाली में रक्खा गया। रखते समय तो पता चला, मगर समाप्त होने का पता नहीं चला।

यादवकुल की नारियाँ चकित थी। सब अपने-अपने घर जाकर भोजन राँधने लगी। कच्चा-पक्का भोजन बना-बनाकर कुँमार के सामने रखा जाने लगा। मगर जो भी सामने आया, सब हड़प हो गया।

चारों ओर विचित्र ही प्रकार का कोलाहल मच गया। लोग सोचने लगे—यह मनुष्य नहीं, कोई देवता या दानव है, भूत है ! यह तृप्त हो ही नहीं सकता !

यह सब बातें कुमार के कानों में पड़ी। वह बोला-माता

अब या तो मुझे भर पेट भोजन दो, या इन्कार कर दो तो अन्यत्र जाकर याचना करूँ ।

सत्यभामा फिर भी कुछ न बोली । विप्रकुमार की करामाते उसे एक-एक करके याद आने लगी । कुब्जा दासी को इन्द्रानी के समान अतिशय रूपराशि और सुन्दरता का आगार बनाने की घटना उसके नेत्रों के आगे नाचने लगी । इस घटना का स्मरण होते ही सत्यभामा के हृदय में एक नवीन प्रलोभन जागृत हो गया ! वह सोचने लगी—कदाचित् मुझे ऐसा अपूर्व लावण्य प्राप्त हो जाय तो कितना अच्छा होगा ! सहज ही मैं अपने लावण्य से अपने प्रियतम के चित्त को आर्कषित कर सकूंगी और अपनी सौतो को नीचा दिखला सकूंगी । ऐसा करामातीं विप्र पहली ही बार मिला है, फिर कौन जाने कब मिलेगा या मिलेगा ही नहीं !

सत्यभामा की आँखों में एक अपूर्व चमक आ गई । उसने विनम्र स्वर में कहा—कुमार ! अब अपनी लीला समेट लो ! तुम जीते, मैं हारी ।

कुमार ने उसी समय आचमन किया और थाली छोड़ कर उठ खड़ा हुआ ।

दोनों अपना-अपना मनोरथ गाँठने की फिराक में थे। सत्यभामा ने सब दास-दासियों को वहाँ से हटा दिया। अब दोनों आमने-सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता नाच रही थी।

कुछ क्षणों के मौनावलम्बन के अनन्तर सत्यभामा ने अपनी लालसा को व्यक्त करने की भूमिका तैयार करते हुए कहा—
वत्स ! तुम्हारा चमत्कार देख कर मैं चकित और प्रसन्न हूँ। तुम महाज्ञानी, महागुणी और महा करामाती हो। तुम्हारी विद्या मुक्तकण्ठ से प्रशंसनीय है। किन्तु किसी भी विद्या की वास्तविक सफलता तो इस बात में है कि उससे दुखियों का दुःख दूर किया जाय। जो विद्या आर्त्त जनों की आर्त्ति निवारण के काम नहीं आती, वह अकारथ है। मैं त्रिखण्ड के नाथ की बड़ी पटरानी होने पर भी दुखिया हूँ। तुम सरलता से विश्वास नहीं कर सकोगे। यह बाह्य वैभव देख कर समझते होगे कि भामा सुखिया है, परन्तु यह दिखावा है। मेरे हृदय में शल्य की भाँति अनेक पीड़ाएँ चुभ रही हैं। चित्त-पल भर के लिए भी निराकुलता जन्य शान्ति का उपभोग नहीं कर सकता। हृदय में हाहाकार और चीत्कार की ध्वनि ही गूँजती रहती है।

कुमार—अत्यन्त आश्चर्य है माताजी ! जब सत्यभामा जैसी भाग्यशालिनी रमणी इतनी वेदना-ग्रसित है तो संसार में अन्य कौन सुखी होगा ?

सत्यभामा—आश्चर्य की बात भले ही हो कुमार ! पर

कामना पूर्ण कर दोगे तो महान् उपकार होगा। मैं सदा के लिए आपकी सेविका बन जाऊँगी।

कुमार-चिन्ता न करो माता, तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा।

सत्यभामा-मैं कृतार्थ हुई वत्स ! मेरी सौत हक्मणी कपटकला मे अतिशय कुशल है। वह मेरे हृदय मे काँटे की भाँति चुभ रही है उसका कुछ इलाज जल्दी ही कर दीजिये। मैं रो-रो कर दुवली हो गई हूँ। अब नहीं सहा जाता। उसने हरि को अपने ऊपर रिझा लिया है और मेरी ओर से विरक्त सा कर दिया है। ऐसी युक्ति कीजिए कि वे मेरे वश मे हो जाएँ।

ईर्ष्या की मारी सत्यभामा की बुद्धि विपरीत हो गई है।
कहावत है-

बिनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।

वह छोटा होनहार से प्रेरित होकर बिल्ली को दूध और शेर को वानर की रखवाली का काम साँप रही है ! मनुष्य जिसे अपना विरोधी समझता है, जिससे अपने स्वार्थ मे बाधा पड़ते देखता है, उसका बुरा सोचने लगता है। उसकी बुद्धि इतनी दुर्बल हो जाती है कि उसे यह भान ही नहीं रहता कि मेरे सोचने से दूसरे का बुरा-भला कैसे हो सकता है। दूसरे का अहित सोचना अपध्यान कहलाता है और यह एक बड़ा पाप है। इस पाप का आचरण करने से दूसरे का अहित हो या न हो, सोचने वाले का अहित तो हो ही जाता है। वह अपने

कुमार—नहीं यह बात तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ । इच्छा न हो तो जाने दो ।

सत्यभामा—अच्छा मन्त्र कौन सा है ?

कुमार—मंत्र यह है—

ओ न्ही अरड़-बरड़ रुंड मुंड स्वाहा !

एक सौ आठ बार इस मन्त्र का जाप करने से हरि आपके श्रीतदास हो जाएंगे । आपका रूप देखकर इन्द्रानी भी लज्जित हो जायगी । आप इन्द्र के लिए दुर्लभ बन जाओगी, माधव की तो बात ही क्या है ! माता दुःख सहन किये विना सुख की प्राप्ति नहीं होती । नाक विधाने वाले को गुड़ खाने को मिलता है । आभूषणों का भार सहन करने वाले को ही आदर मिलता है और उसी का सौन्दर्य चमकता है । फिर आपका कण्ठ तो थोड़ी देर का है । केश फिर उगआएंगे और बढ़ जाएंगे । मुंह की कालिमा तो धोते ही मिट जाएगी । मगर मन्त्र के प्रभाव से आपको जो सिद्धी प्राप्त होगी, वह जीवन-पर्यन्त आपके पास रहेगी ।

सत्यभामा भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में लो गई । उसने उचित अनुचित का विवेक त्याग कर स्वार्थ-सिद्धी का पथ ग्रहण किया । वह ललचा गई । उसी समय नाइन को बुलवा कर अपना मस्तक मुंडाने के लिए उसके सामने बैठ गई । बोली-शीघ्रता करो, केश उतार दो ।

नाइन चकित रह गई । उसकी समझ में नहीं आया कि

कुमार—नही यह बात तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ । इच्छा न हो तो जाने दो ।

सत्यभामा—अच्छा मन्त्र कौन सा है ?

कुमार—मंत्र यह है—

ओ न्ही अरड़-बरड़ रुंड मुंड स्वाहा !

एक सौ आठ बार इस मन्त्र का जाप करने से हरि आपके क्रीतदास हो जाएंगे । आपका रूप देखकर इन्द्रानी भी लज्जित हो जायगी । आप इन्द्र के लिए दुर्लभ बन जाओगी, माधव की तो बात ही क्या है ! माता दुःख सहन किये बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती । नाक विधाने वाले को गुड़ खाने को मिलता है । आभूषणों का भार सहन करने वाले को ही आदर मिलता है और उसी का सौन्दर्य चमकता है । फिर आपका कण्ठ तो थोड़ी देर का है । केश फिर उगआएंगे और बढ़ जाएंगे । मुंह की कालिमा तो धोते ही मिट जाएगी । मगर मन्त्र के प्रभाव से आपको जो सिद्धी प्राप्त होगी, वह जीवन-पर्यन्त आपके पास रहेगी ।

सत्यभामा भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में खो गई । उसने उचित अनुचित का विवेक त्याग कर स्वार्थ-सिद्धी का पथ ग्रहण किया । वह ललचा गई । उसी समय नाइन को बुलवा कर अपना मस्तक मुंडाने के लिए उसके सामने बैठ गई । बोली-शीघ्रता करो, केश उतार दो ।

नाइन चकित रह गई । उसकी समझ में नहीं आया कि

: १० :

माता की उत्कंठा

नारदजी के कथनानुसार सोलह वर्ष बीतते ही प्रद्युम्न-कुमार का आगमन होना था। रुक्मिणी अत्यन्त उत्कण्ठा के साथ दिन गिन रही थी। उसकी गणना के अनुसार सोलह वर्ष बीत चुके थे। उसके आगमन पूर्व जो लक्षण प्रगट होने थे, वे भी प्रकट हो गये थे। अतएव रुक्मिणी मन में सोचने लगी- अब मेरा लाल आना ही चाहिए ! अहा, वह कौन-सा सुक्षण होगा, जब मैं उसको जी भर कर देखूंगी और अपनी आँखें शीतल करूँगी। वह अधीर हो रही थी। आज किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। हृदय में अनिर्वचनीय भाव उदित हो रहे थे। अव्यक्त हर्ष और प्रमोद से उसका हृदय उछल रहा था।

अपने सुपुत्र की और स्वजन की चाह किसे नहीं होती ? फिर चिरकालीन वियोग के पश्चात् तो वह चाह और भी बढ़ जाती है। जिस पर रुक्मिणी तो सगी माता थी और उसका पुत्र सिर्फ पांच दिन की आयु में ही उससे विछुड़ चुका था ! इकलौता पुत्र था उसी पर रुक्मिणी का भविष्य निर्भर था। उसके आने पर ही रुक्मिणी की प्रतिष्ठा रह सकती थी। उसका आने में विलम्ब करना रुक्मिणी की जिंदगी नष्ट होना

रुक्मिणी ने हर्ष के आवेश में अपनी सखियों को बुलाया और कहा—सखियों ! सीमन्धर स्वामी की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, नारद ऋषि का आशवासन मिथ्या नहीं हो सकता । आज मेरा लाल अवश्य आएगा । आओ, हम सब मिलकर हर्ष मनाएँ और उसके स्वागत का साज सजाएँ !

सखियों समेत रुक्मिणी, प्रद्युम्नकुमार के आगमन के उपलक्ष्य में आनन्द मनाने लगी । किसी सखी ने अपने हाथों घर लीपा, किसी ने मोतियों का चौक पूरा । किसी ने धूप जलाई और किसी ने पांच वर्ण के फूल बिछाये ! दधि और दुर्वा रक्खी गई । हीरों और पत्तों के चित्र बनाये गये । रोली का थाल सजाया गया । मधु, दधि आदि मंगल-द्रव्यों के घट भरे गये ।

रुक्मिणी कहने लगी—सखियो ! विलम्ब न करो । मेरा लाल आना ही चाहता है । जलती हुई आरती हाथ में ले लो । देखो, कोई लंगड़ा, अंधा, नकटा, भैंस आदि आस-पास में न आने पावे । कोई अपशकुन न हो जाय । कोई छींकना मत, खाँसना मत और हल्ला करना मत । हाथी, घोड़े, रथ और पैदल तैयार करो । मेरे नन्द के सामने जावो । समाचार लाओ, वह अब कितनी दूर है ? सब शुभ शकुन करो अशुभ को दूर करो ।

रुक्मिणी हर्ष से वावली-सी हो गई । वह कहती है—सखियो ! मेरा लाल आएगा तो उसे पहचान तो लोगी ? अरी, वह तो निराला ही नजर आ जायगा । वह गजराज की मस्त

चतुर्थ स्कन्ध



: १ :

रुक्मिणी के महल में



प्रद्युम्नकुमार सत्यभामा के महल से निकल कर आगे बढ़ा। उसने फिर एक महल देखा। यह महल इन्द्रभवन के समान जगमगा रहा था। वह अत्यन्त सुरम्य, मनोहर और आनन्दप्रद था।

इस महल को देख कर कुमार का मन स्वयं आनन्दमग्न हो गया। वह महल के सामने खड़ा हो गया। महल जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। विद्या से पूछने पर उसने कहा—कुमारवर ! यही आपकी माताजी का महल है। इसके भीतर प्रवेश करके अपनी जननी की लालसा पूर्ण करो। वह तुम्हारे लिए व्यग्र हो रही है। उनके अन्तःकरण की कामना परिपूर्ण करके उन्हें सुखी बनाओ।

कुमार—विद्ये ! मेरी माता का अनुराग किस पर है ?

विद्या—आपकी माता श्रमणों और श्रमणिओं पर गहरा

यह कह कर रुक्मिणी उन्हें अपने भवन में ले गईं। वहाँ ले जाकर बोली—मैं स्वयं पाट ले आती हूँ, आप थके हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार कहकर और मुनि के उत्तर की प्रतिक्रिया किये बिना ही वह पाट ले आई। कहा—इस पर विराजमान हो।

मुनिवर ने अपने चरण पूंजे और पाट पर न बैठ कर श्रीकृष्ण के बैठने का जो आसन वहाँ रखा था, उस पर बैठ गये। रुक्मिणी को यह देख कर आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी—गुरुदेव ! मेरी विनय सुनिए। यह आसन देवाधिष्ठित है। इस पर या तो श्रीहरि ही बैठते हैं या उनकी सन्तान बैठ सकती है। कोई और बैठ जाय तो उसका अमंगल होता है। उसके ऊपर संकट आ पड़ता है। अतएव आप इस पाट पर विराजे तो अच्छा हो।

मुनि-श्राविका ! आप मेरे अनिष्ट का भय न कीजिए और इस आसन पर बैठने के लिए मना मत कीजिए। जहाँ मुनि विश्राम लेते हैं, वह स्थान पवित्र ही होता है।

रुक्मिणी—महाराज ! दैवी-प्रभाव अतीव प्रबल होता है। यही सोच कर मैं निवेदन कर रही हूँ।

मुनि—निश्चिन्त रहो, मैं तो बैठ गया हूँ। जिसमें शक्ति होगी वही तो बैठेगा ! दैवी प्रभाव प्रबल होता है तो तपः प्रभाव उससे भी अधिक प्रबल होता है। तपोलब्धि के प्रभाव के सामने देवराज इन्द्र भी काँपता है। तप की शक्ति विश्व की समस्त विरोधी शक्तियों पर अनायास ही गहरा प्रभाव

से अलग हो गया। मैंने आज तक अपने जनक का मुख नहीं देखा। हृदय में भावना जागी और मैंने स्वयं दीक्षा ले ली। आज सोलह वर्ष का पारणा करने के लिए यहाँ आया हूँ।

रुक्मिणी—आश्चर्य है महाराज ! वीतराग देव ने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वर्षी तप वतलाया है ! सोलह वर्ष का तप तो आज आपके मुख से सुन रही हूँ।

मुनि—अपने मुँह से अपनी बड़ाई करना शोभा नहीं देता। किन्तु सत्य समझो कि जन्म लेने के पश्चात् शैशव अवस्था में भी मैंने अपनी माता का दूध नहीं पिया है। मगर इस समय अधिक वाते करना योग्य नहीं है। मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने सुना है कि आप सच्ची श्राविका हैं। जगह-जगह आपकी प्रशंसा होती है। आपके अन्तःकरण में और गुरु, देव, धर्म के प्रति गहरा अनुराग है। आप मधुर भाषिणी हैं। सत्यपरायणा हैं। पाप से डरती हैं। गुणों की खान हैं। आपके दिल में बहुत दया और लज्जा है। आप समभाववती और समदर्शिनी हैं। आपके स्वभाव में क्षुद्रता नहीं है। आप गुणग्राहिणी हैं और गुणवानों की सेवा भक्ति में सदैव परायण रहती हैं। माता ! आप दृढ धर्मी, प्रियधर्मी, धर्मधुरन्धर, धर्मत्मा हैं, आपके उभय कुल विख्यात हैं। शास्त्रों की ज्ञात्री, नमनी, खमनी और संत मनगमनी हैं। आप दुसरोंका अहित नहीं चाहती। साधर्मि की तन और धन से सेवा करती हैं। साधु-साध्वी को पुत्रवत् स्नेह के साथ आहार आदि का दान करती हैं। दान दिये बिना भोजन न करने की आपकी प्रतीज्ञा है।

है। सूखे वृक्षों मे फल लग गये है, गूंगे बोलने लगे है, अंधों को नेत्र प्राप्त हो गये है और वहिरे कानो से सुनने लगे है। कोकिला, मयूर और पपैया अत्यन्त उल्लास के साथ कर्णमधुर ध्वनि का उच्चारण कर रहे है, बिना ऋतु के पुष्पो से वाटिकाओ ने मनोहर रूप धारण किया है। भ्रमर गुंजारव कर रहे है। यही सब चिन्ह तो उसके आने के है। परन्तु वह मेरा प्राणप्रिय पुत्र कही दृष्टि गोचर नही हो रहा है ! यह चिन्ह प्रकट होकर मेरे अन्तकरण को और अधिक व्यथित कर रहे है। मै उसकी राह देखती-देखती थक गई हूं। निराशा के अन्धकार मे डूबी जा रही हूं। समग्र सृष्टि आल्हाद मे मग्न है और मै विषाद मे डूबी जा रही हूं। मेरा लाल न जाने कहाँ, किस स्थिति मे होगा ! उसके विरह मे मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। आशा ही आशा पर यह सोलह वष जाती रही, परन्तु आज आशा भी निराशामे परिणत हो रही है। जीवन का एक मात्र यह सूत्र भी टूटा जा रहा है। कौन जाने कब मेरा लाल आएगा और मेरे सन्तप्त प्राणों को शीतलता प्रदान करेगा !

मुनि-जिनेन्द्र भगवान् के वचन मे अणुमात्र भी संशय नही होना चाहिए। वीतराग और सर्वज्ञ देव कदापि अन्यथा भाषण नही करते। कहा है--

नान्यथावादिनो जिनाः।

सूर्य पूर्व के बदले पश्चिम मे उदय होने लगे, चंद्रमा संताप पहुंचाने लगे और सूर्य अन्धकार का विस्तार करने लगे, तब भी जिन वचन असत्य नही हो सकते। श्राविकाजी ! उतावल मत करो। घड़ी प्रहर्य प्रतीक्षा करो। आपका पुत्र आ ही चुका

हुई और किस प्रकार सौत-सुत के विवाह की तैयारी हो रही है और उसे अपना सिर मुंडवाना होगा आदि सब बतलाया ।

: २ :

मुनि कौतुक करके अपनी माता को कभी खिजाने और कभी रिझाने लगे । वह अपनी माता की व्याकुलता का कारण सुनकर मंद मुस्कान के साथ बोले—आपने भी भली चिन्ता की वालों की ! वालों में क्या धरा है—वे तो कट कर फिर उग आएँगे । कटने से तो सवाए बढ़ जाते हैं ! आप तो पुण्यवती श्राविका हैं । आपको विवेक से काम लेना चाहिए । प्राण सकुशल है तो सभी कुशल है और प्राणों की हानि सर्वस्व की हानि है ! वालों की चिन्ता तो तुच्छ चिन्ता है ! उसे छोड़ो, हमारी बात मानो ।

रुक्मिणी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ । वह बोली—स्वामिन् ! आप यह क्या कह रहे हैं ! मस्तक के केश सौभाग्यवती रमणी का सबसे बड़ा शृंगार है, सबसे बड़ा सौभाग्य का चिन्ह है । और फिर यहाँ तो लज्जा एवं प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है । उत्तम जन अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देना भी साधारण बात समझते हैं । लज्जा चली जाने पर फिर क्या शेष रह जाता है ?

रुक्मिणी ने फिर जरा रुक कर कहा—स्वामिन् ! संसार-व्यवहार की बातें आप जैसे त्यागी वैरागी सन्त से पूछना योग्य

भोजन के पात्र खोल-खोल कर देख डाले, मगर कहीं कण भी नजर न आया ! रुक्मिणी बुरी तरह घबरा उठी । उसे अनिष्ट की आशंका होने लगी । सोचने लगी—मुनि अपने मन में क्या सोचेंगे ! श्रीहरि की पटरानी के घर में चार कौर खाना भी उपलब्ध नहीं है ! रुक्मिणी लज्जा की मारी जमीन में गड़ी जा रही थी ।

यह अवस्था देखकर मुनिकुमार ने कहा—श्राविके ! घबराने की कोई बात नहीं है । धीरज रखकर अच्छी तरह देखो । जो कुछ भी सूझती वस्तु खाने योग्य हो, वही लाकर मुझे दे दो ।

रुक्मिणी सोच-विचार में पड़ गई । केसरिया मोदक अत्यन्त गरिष्ठ है । इन्हे तो वासुदेवजी ही पचा सकते हैं । इन तपस्वी को दूँ तो कैसे पचेंगे ? इनके लिए तो यह लाभकर होने के बदले हानिकारक ही साबित होंगे !

फिर सोचने लगी—मगर इन मोदकों के सिवाय और कुछ भी तो नहीं दिखाई देता ! कैसे कहूँ कि मेरे यहाँ आपके ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है ! आखिर मुनि क्या सोचेंगे ?

अन्त में जी कड़ा करके रुक्मिणी एक मोदक उठा लाई और मुनि के सामने उपस्थित हुई ।

मुनि-कुमार ने एक मोदक देखकर कहा—अहो पुण्य-शालिनी ! यह क्या कर रही हो ? आश्चर्य है कि बड़े घर की बेटा और बड़े घर की बधू होकर भी तुम इतनी कृपण हो ! वाह पटरानीजी ! एक साधु को पारणा कराने में भी इतनी कंजूसी करती हो ?

रहा। वह तप के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर उल्लसित और चकित हुई। सोचने लगी—अतीव दुष्पच केसरिया मोदक क्षण भर में ही इन्होंने पचा लिये !

मुनिकुमार मुस्करा कर बोले—धन्यवाद श्राविके ! जीवन में पहली बार आज तृप्ति मिली !

: ३ :

शर्तपूर्ति की मांग

अब जरा भोली भामा की ओर ध्यान दीजिए। सत्यभामा ने अलौकिक लावण्य प्राप्त करने और उसके द्वारा सौतेला का मान मर्दन करने के विचार से, अत्यन्त श्रद्धापूर्वक एक सौ आठ बार मन्त्र का जाप किया। जाप के पश्चात् उसने दर्पण में अपना मुख देखा। आंखे गड़ा-गड़ा कर और ध्यान लगाकर देखने पर भी रूप में कुछ परिवर्तन दिखाई न दिया। तब वह फिर मन्त्र का जाप करने लगी। वह मुख से मन्त्र का जाप कर रही थी और आंखों से विप्र-कुमार की वाट जोह रही थी। मगर न रूप पलटा और न विप्र-कुमार ही आता दिखाई दिया। तब उसे किसी षडयन्त्र की आशंका हुई ! वह सोचने लगी—

रहा। वह तप के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर उल्लसित और चकित हुई। सोचने लगी—अतीव दुष्पच केसरिया मोदक क्षण भर में ही इन्होंने पचा लिये !

मुनिकुमार मुस्करा कर बोले—धन्यवाद श्राविके ! जीवन में पहली बार आज तृप्ति मिली !

: ३ :

शर्तपूर्ति की मांग

अब जरा भोली भामा की ओर ध्यान दीजिए। सत्यभामा ने अलौकिक लावण्य प्राप्त करने और उसके द्वारा सौतोंका का मान मर्दन करने के विचार से, अत्यन्त श्रद्धापूर्वक एक सौ आठ बार मन्त्र का जाप किया। जाप के पश्चात् उसने दर्पण में अपना मुख देखा। आँखे गड़ा-गड़ा कर और ध्यान लगाकर देखने पर भी रूप में कुछ परिवर्तन दिखाई न दिया। तब वह फिर मन्त्र का जाप करने लगी। वह मुख से मन्त्र का जाप कर रही थी और आँखों से विप्र-कुमार की वाट जोह रही थी। मगर न रूप पलटा और न विप्र-कुमार ही आता दिखाई दिया। तब उसे किसी षडयन्त्र की आशंका हुई ! वह सोचने लगी—

सत्यभामा ने ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित होकर जो विचारहीन कृत्य कर डाला था, तत्काल उसे उसका फल मिल गया। उसे असीम व्यथा होने लगी। उसका गला फाड़-फाड़ कर रोना सुनकर दासियाँ दौड़ी आईं। फिर धीरे-धीरे सारा परिवार एकत्र हो गया। भानुकुमार को समाचार मिला तो वह भी लँगड़ाता हुआ भाग आया। अभी तक सत्यभामा मुँह ढँक कर रो रही थी। भानुकुमार ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसका मुँह उघाड़ कर देखा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही न हुआ। मुंडित मस्तक और श्याम मुख देखकर वह चकित रह गया! उसकी समझ में न आया कि वह अपनी माता को देख रहा है अथवा काली माई को!

आखिर माता को तरह-तरह से समझा कर किसी प्रकार चुप किया। फिर हाथ जोड़कर इस स्थिति का कारण पूछा। वह बोला—माताजी, मेरा खून उबल रहा है। बतलाइए, किसने यह दृष्टता की है? जिसने आपके बाल लिये हैं और मुख काला किया है, उसे अपने प्राणों की चिन्ता नहीं जान पड़ती। कौन मेरी माता का अपमान करके जीवित रह सकता है?

भानुकुमार का चेह्रग भयानक क्रोध के कारण तमतमा उठा। उसके नेत्रों से आग की चिनगारियाँ निकलने लगी। होठ फड़कने लगे। उसे देख ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज भानु अपनी प्रखर क्रोधाग्नि वरसा कर प्रलय मचा देंगे!

भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से 'मातृदेवो भव' का संस्कार चला आ रहा है। यहाँ माता को देवता के समान

उसी की करतूत है। उसने अभिमान में आकर सोती सिंहनी को जगाया है, सर्पिणी को छोड़ा है। ऐसा करके क्या वह सकुशल रह लेगी? मैं उसका मस्तक न मुँड़वा लूँ तो मेरा नाम सत्यभामा नहीं!

सत्यभामा ने उसी समय अपनी दासियों को बुलवा कर आदेश दिया—तुम सब हक्मिणी के पास जाओ और उसके मस्तक के बाल कटवा लाओ। मेरे लड़के का विवाह पहले हो रहा है। वह शर्त में हार गई है।

बहुत सी दासियाँ गीत गाती हुई, उस्तरा और पात्र लेकर हक्मिणी के महल की ओर रवाना हुई।

कुछ दासियाँ, जो अधिक समझदार थी, आपस में कहने लगी—हक्मिणी देवी बड़ी ही भद्रशीला है। उनके साथ ऐसा सलूक करना उचित नहीं है।

दूसरी बोली—इन बड़ी बड़ी रानियों में भी कितनी ईर्ष्या है? ऐसा बड़प्पन भी किस काम का? इनसे तो हम ही भली, जो आनन्दपूर्वक लूखा-सूखा खाकर मजे में सोती हैं। इन्हे कितनी खटपट करनी पड़ती है! रात-दिन ईर्ष्या की आग में जलती हैं! ऐसे बड़प्पन में सुख-शान्ति कहाँ?

तीसरी ने कहा—एक सुशीला महिला का अपमान करने के लिए हमको भी चलना पड़ रहा है। यह दास वृत्ति कितनी गहिरी है? किसी ने कहा है—

सेवा श्ववृत्तियैवता, न तैः सम्यगुदाहृतम् ।

स्वच्छंदचारी कुत्रश्वा, विक्रीतासु क्व सेवकः ॥

रुक्मिणी का अन्तःकरण दारुण वेदना से परिपूर्ण हो गया। वह बोली-सौत की शर्त का किस्सा आपको सुना चुकी हूँ। शर्त में मैं पराजित हो गई हूँ और अब मेरा सर्वस्व जा रहा है। लज्जा ही कुलीन नारियों का सर्वस्व है। जिसकी लज्जा रही उसका सब कुछ रहा और जिसकी लाज गई उसका सर्वस्व चला गया। सत्यभामा की दासियाँ मेरी इज्जत लेने आ पहुँची है। स्वामिन् ! यह महान संकट मेरे ऊपर आ पड़ा है। इसका कोई प्रतिकार भी तो नहीं दिखाई देता ! नारदजी का आश्वासन इस अवसर पर मिथ्या सिद्ध हुआ ! मेरा प्राणप्रिय पुत्र उचित अवसर पर नहीं आया ! हाय, न जाने किस जन्म के पाप का उदय आया है।

मुनिकुमार—श्राविके ! आर्त्तध्यान करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। आर्त्तध्यान किसी भी रोग की दवा नहीं है। अलवत्ता हानिकारक तो है ही। वह नवीन कर्म-बन्धन का कारण है। मनुष्य को विपत्ति एवं संकट के समय धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य से भीषण विपत्ति भी हल्की मालुम होती है। और घबराहट से हल्की विपत्ति भी भारी बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में अपने मतिष्क को, अपनी बुद्धि को सजग और सावधान रखने से हितकर मार्ग सूझ सकता है। बुद्धि को विह्वल बना डालने से तो कुछ हाथिल नहीं होता !

रुक्मिणी—स्वामिन् ! आपका कथन सत्य है, परन्तु ऐसे अवसर पर धैर्य कैसे रह सकता है ?

मुनिकुमार—नहीं रह सकता तो मेरी दात सुनो। तुम


रुक्मिणी रूपधारिणी—ठीक है । मैं तुम्हारी स्थिति को समझती हूँ । स्वामिनी का जो सन्देश हो, निःसंकोच भाव से कहो ।

दासी फिर भी कहने का साहस न कर सकी । आखिर नीची निगाह करके उसे कहना पड़ा—मेरी स्वामिनी ने शर्त को पूरा कराने का आदेश दिया है । महारानीजी ! मेरा अपराध क्षमा हो ! मेरा कुछ बश नहीं चलता । उनका आदेश आपको सुना दिया है । आप जो आदेश देगी वह उनके पास पहुँचा दूँगी । हमारे लिए तो आप दोनों समान हैं । न एक ज्यादा, न दूसरी कम ।

—XXXX—

: ४ :

मुंडने वाली मुंड गई

—  —

दासी की बात सुनकर रुक्मिणीरूप ने कहा—वाई, तुम विषाद और पश्चात्ताप मत करो । मैं हार गई और सत्यभामाजी जीत गई है । मैं अभागिनी हूँ । मेरा लाल नहीं आया । वे भाग्यशालिनी है । उनकी अभीलापा पूरी हो ।

इतना कहकर रुक्मिणी रूप ने अपना मस्तक उधाड़ दिया कहा—लो, सत्यभामाजी की आज्ञा का पालन करो ।

इस प्रकार मणिमय भाजन मे रुक्मिणी के केश रखकर दासियाँ वहाँ से प्रसन्नता पूर्वक सत्यभामा के महल की ओर रवाना हुईं । रुक्मिणी ने चलते समय भी उनका यथायोग्य सत्कार किया । इससे दासियाँ अत्यन्त प्रभावित हुईं और हर्षित भाव से रुक्मिणी की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगी ।

एक दामी बोली—धन्य है, रुक्मिणी देवी जैसी नारी धरती की पीठ पर दूसरी मिलना मुश्किल है ! दूसरी कोई होती तो क्या स्वेच्छा पूर्वक अपने सिर के बाल दे देती ? कदापि नहीं ।

दूसरी ने कहा—मस्तक के केश सौभाग्यवती महिलाओं के लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होते हैं । सनस्त शृंगारों में केशों का शृंगार मुख्य है । केशों के बिना कोई भी शृंगार शोभा नहीं देता । फिर भी देवी ने तनिक भी आनाकानी किये बिना उन्हें दे दिया !

तीसरी—यह बाल क्या, सर्वस्व है ! देवी ने अपने बाल क्या दिये, अपना सर्वस्व दे दिया है !

चौथी—जिस मस्त भावना के साथ उन्होंने अपने केश दिये हैं, उसे देखकर मुझे तो भय लगता है । जान पड़ता है, इसका परिणाम भविष्य में बड़ा भीषण होगा ।

पाँचवी—मगर देखो, रुक्मिणी देवी क्षमा, शान्ति और उदारता की साक्षात् प्रतिमा हैं ! गुणों की खान हैं । उनका रूप अप्सरा के समान है और वाणी ऐसी मधुर कि कोयल भी लज्जित हो जाय !

के झुण्ड के झुण्ड इकट्ठे होने लगे। लोग हसने लगे और उनकी ओर उंगली उठा-उठा कर उन्हें बताने लगे। सारे बाजार में चहल-पहल मच गई। हँसी के फौहारे छूटने लगे।

दासियाँ दर्शकों की हँसी और उंगली उठाना सुन-देख-कर सोचने लगी-हमारा सुन्दर रूप देख कर और मधुर स्वर में गाना सुन कर भीड़ इकट्ठी हो रही है! लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। जो दासी अपनी ओर उंगली उठी देखती, वह सोचती-मैं सब से अधिक सुन्दर हूँ, इसी कारण मेरी ओर उंगली उठाई गई है!

इस प्रकार जनता का मनोरंजन करती हुई दासियाँ सत्यभामा के पास आ पहुँची। आते ही सत्यभामा ने पहला प्रश्न किया-केश ले आई?

प्रधान दासी ने केश-भाजन सत्यभामा के सामने रख दिया। फिर कहा-लीजिए, आपकी वस्तु आप सम्भालिए। भला महारानीजी की आज्ञा क्या कभी टल सकती है? आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? रुक्मिणी देवी ने बिना किसी झिझक, संकोच और वहाने, अपने केश दे दिये हैं। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है।

सन्तोष की सांस लेकर सत्यभामा ने ज्यों ही केश-पात्र उधाड़ कर देखा तो उसके विस्मय का पार न रहा! पात्र खाली था। उसमें केश का नाम-निशान तक नहीं था! यह देख कर सत्यभामा एड़ी से चोटी तक जल उठी। उसके अंग-अंग में भयानक क्रोध की ज्वालाएँ फूट पड़ी। सोचने लगी-

ही नहीं था। सत्यभामा ने जब कहा तो प्रत्येक दासी ने अपने मस्तक, नाक और कानों पर हाथ फेरा। देखा, मस्तक के बाल गायब हैं, नाक भी नदारद है और कान भी सफाचट हैं !

अपनी यह दुरवस्था देख दासियों को कितनी वेदना हुई होगी, यह अनुमान करना कठिन नहीं। उनके दिलों में अकस्मात् तीक्ष्ण शूल-सा चुभ गया। जैसे हजार विच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, ऐसी वेदना उन्हें होने लगी। उनके दुःख और विस्मय का पार न था ! उनकी समझ में नहीं आता था कि यह सब क्या है ? कैसा जादू है ? यह दुर्दशा कब और कैसे हो गई ?

दासियाँ बेहद लज्जित हुईं। लज्जा के कारण वे अपने-अपने अंगों को ढँकने लगी और अपने-अपने घरों को रवाना होने लगी। उनकी हालत अजीब थी ! किसी के मुँह से शब्द नहीं निकल रहा था ! सब सहमी हुई, खोयी हुई-सी जान पड़ती थी।

दासियों को रवाना होने की तैयारी करते देख सत्यभामा बोली—अभी जाओ मत। यही बैठो। बतलाओ, यह दुर्दशा किसने की है ? किसने तुम्हारे मस्तक मूँड़े ? किसने तुम्हारी नाक काटी ? किसने तुम्हारे कान काटे ? निर्भय होकर बतलाओ !

दासियाँ बेचारी किसका नाम बतलाती ? उन्हें तो अपनी दुर्गति का पता ही यहाँ आकर लगा था ! अतएव दासियाँ बोली—महारानीजी ! किसी को झूठ-मूठ बदनाम करने से क्या

ही चालाक और धूर्त है। उसने गिरधारी को भी अपने चंगुल में फांस रक्खा है। दोनों एक सरीखे मिल गये हैं।

आखिर सत्यभामा ने अपने प्रधान को बुलाकर दासियों को दिखला कर समग्र वृत्तान्त सुनाया। अन्त में कहा—रुक्मिणी ने मेरी दासियों की यह दुर्दशा की है! हरि और हलधर की साक्षी से की हुई शर्त को भंग किया है। उसे अपने केश देने चाहिए थे सो तो दिये नहीं, उल्टा मेरा घोर अपमान किया है। इन दासियों का सिर मूड़ लिया है और इनके अंग-अंग काट लिये हैं! उसने जनता के सामने मुझे हास्यास्पद बनाया है! इस दुस्साहस का रुक्मिणी को उचित दण्ड न दिया गया तो यादववंश में अनीति फैल जायगी और इस वंश की मर्यादा लुप्त हो जायगी। तुम इन सब को सभा में ले जाओ और हरि हलधर को दिखलाओ। उन्हें बतलाना कि आपकी कृपापात्री रुक्मिणी किस प्रकार यदुवंश को दिपा रही है!

प्रधान ने सत्यभामा के आदेशानुसार सब दासियों को सभा में ले जाकर खड़ा किया दासियों की कतार की कतार का एक ही सरीखा रूप देखकर सभाजनों को इतनी हँसी आई कि पेट में बल पड़ने लगे!

श्रीकृष्णजी ने गम्भीर होकर प्रधान से पूछा—यह दासियाँ किसकी हैं? और इनकी यह दुर्दशा किसने की है?

दासियों की लज्जा का पार न था। वे सब नीची गर्दन करके खड़ी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि धरती फट पड़े और हम उसमें समा जाएँ तो अच्छा!

से भी मैं इस मामले में न्याय चाहती हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। शर्त के अनुसार रुक्मिणी के सिर के बाल दिलवाइए और इस गुस्ताखी का दण्ड उसे दीजिए। अगर ऐसा न किया गया—मेरे प्रति अन्याय किया गया तो मैं साफ-साफ बतलाए देती हूँ कि यदुवंश क्लेश, कलह और अशान्ति का घर बन जायगा !

श्रीकृष्ण, सत्यभामा द्वारा दी गई धमकी को सुनकर हँस पड़े ! बोले—सामान्य प्रजाजन की हैसियत से फरियाद कर रही हो और इस प्रकार की धमकी भी देती जा रही हो !

सत्यभामा की आखों से अंगारे निकल रहे थे। उसका चेहरा तमतमा रहा था और सारा शरीर काँप रहा था। वह आवेश में बोली मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें ! यह तुम्हारी करतूत है ! तुम्हारी सलाह के बिना वह क्या इतना बड़ा दुस्साहस कर सकती थी ! परन्तु हलधरजी न्याय-प्रेमी हैं। मैं उनसे फरियाद करती हूँ।

इतना कहकर सत्यभामा ने बलरामजी की ओर अपना रुख करके कहा—महाराज ! आप न्यायनिष्ठ हैं, महान् पुरुष हैं। आपकी साक्षी से शर्त की गई थी। उसे पूर्ण कराइए और रुक्मिणी को दण्ड दिलवाइए। क्या इस दुर्व्यवहार को आप उचित समझते हैं ?

बलरामजी ने गम्भीर होकर कहा—कान्ह ! सत्यभामा को इस अवसर पर चिढ़ाना योग्य नहीं है। किसी भी स्त्री को माथें

: ६ :

प्रद्युम्न का आत्म - प्रकाश

सत्यभामा की दासियों को जिदा करके कुमार ने पहले वाला साधु का भेष फिर धारण कर लिया। वह शान्त और गम्भीर भाव से उसी सिंहासन पर आ बैठा।

रुक्मिणी ने छिपकर कुमार के सब कर्तव्य देख लिये थे। वह अत्यन्त आश्चर्य में डूब गई। सोचने लगी—यह नये-नये रूप धारण करने वाला वास्तव में कौन है? साधु तो यह हो नहीं सकता। इसके व्यवहार से स्पष्ट है कि यह साधु नहीं है। तो फिर कौन होगा? मेरा लाल ही तो नहीं है? विद्याधरों के साथ रहकर मन्त्र-कला में कुशल हो गया होगा! अवश्य यह मेरा प्राणप्रिय पुत्र ही होना चाहिए। अन्यथा मेरे हृदय में इतना वात्सल्य क्यों उमड़ रहा है? मेरे पयोधरों में पय क्यों आ गया है! मुझे इसकी सूरत क्यों इतनी सुहावनी लग रही है। मेरे मन को यह क्यों इतना मीठा लग रहा है? इसके लक्षणों और व्यंजनों से प्रतीत होता है कि यह मेरे लाल के सिवाय और कोई नहीं हो सकता।

इस प्रकार की विचारधारा में डूबी हुई रुक्मिणी टकटकी लगा कर कुमार के चेहरे की ओर देखने लगी।

घर दूध का मेह बरसा है ! आज मेरे चिरकालीन मनोरथ सिद्ध हुए हैं ! आज मेरे जीवन में प्राण आया है ! मेरा प्राण-प्रिय पुत्र मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुआ है !

रुक्मिणी आनन्द विभोर है ! कहती है—लाल ! इस सूरत को देखने के लिए आँखें अकुला रही थी, हृदय तड़प रहा था । मैं तुझ पर अपने प्राण निछावर करती हूँ ! प्यारे मोहन ! तू ने भली सुघली, तू ने मेरे हृदय को शीतल कर दिया !

वह फिर कहने लगी—अरी सहेलियो ! तुम कहाँ हो ! आओ, मेरे लाल को तो निहारो ! इसकी यह सलोनी सूरत तो देखो ! अरी, अपने घर इन्द्र आया है ! कुबेर आया है, प्रत्यक्ष कामदेव आया है, मेरे कुल का उजियाला आया है ! चन्दन बहुत शीतल होता है, चन्द्रमा उससे भी अधिक शीतल होता है, परन्तु मेरा लाल तो चन्द्रमा से भी अधिक शीतलतादायक है ! मिश्री मीठी होती है, अमृत उससे भी बहुत अधिक मीठा होता है, मगर मेरा बेटा तो सब से ज्यादा मीठा है । पुत्र का दर्शन तो मेरे अन्तरत्तर को मधुर बना रहा है ।

रुक्मिणी के हृदय में मोह-ममता का जो पुष्करावर्त्त मेघ बरसा है दोनों नेत्रों के द्वार से गंगा यमुना की भाँति उमड़ पड़ा । उसके हर्ष की सीमा नहीं थी । आनन्द के अतिरेक में निमग्न हो रही थी । प्रद्युम्न अपनी माता के असीम स्नेह को पाकर निहाल हो गया । उसके नेत्रों से भी हर्षाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी ।

इतना कहकर कुमार ने तत्काल एक सलौने शिशु का रूप धारण कर लिया। वह माँ की गोद में गिर गया और नाना प्रकार की चपलतापूर्ण मनमोहक चेष्टाएँ करने लगा। कभी उठने की चेष्टा करते-करते जमीन पर गिर पड़ता, कभी माँ के मुख की ओर देखकर मुस्करा देता, कभी लपक कर छाती से चिपट जाता। अत्यन्त रूपवान, हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर रूप उसने बनाया था। उसकी हथेलियों और पैरों के तलवे अरुणवर्ण कमल के समान कोमल थे। कभी मुट्ठी बाँध लेता और कभी खोल लेता था। कभी किलकारी मारकर हँसता और माता को भी हँसाता था। माता का हर्ष हृदय में समाता नहीं था। उसने गोद में बैठ कर शिशु को दूध पिलाया। वह उसकी आँखों में जब काजल आंजने लगी तो शिशु अपने हाथों से उसके हाथों को हटाने लगा! शिशु ने मल और मूत्र से माता के वस्त्र भर दिये तो भी माता को एक प्रकार के अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव हुआ!

अहा! मातृ जाति की महिमा वास्तव में अपूर्व और अमित है! वह अपनी सन्तान में ऐसी खो जाती है कि उसका सुख-दुख ही अपना सुख-दुख मानती है। स्त्री जाति की सहिष्णुता, उदारता, स्नेहमयता अपूर्व है! महिलाओं के इन प्रशस्त गुणों पर ही मृष्टि टिका हुई है। सन्तान पर कितना महान् उपकार है माता का? इसी कारण कहा गया है—‘मातृदेवो भव!’ माता देवता का स्वरूप है! जो सन्तान के आनन्द पर अपने समस्त आनन्द को निछावर कर देती है, जो अपनी सन्तान के सामने अपने प्राणों को भी तिनके समान तुच्छ समझती है, उस माता

मौजूद थी। मगर शिशु ने कहा—दूध में शक्कर तो है ही नहीं! फीका दूध नहीं पीता। तब रुक्मिणी ने और अधिक शक्कर डाल दी! यह देख शिशु ने कहा—दूध में शक्कर बहुत है। थोड़ी निकाल ले।

दूध में शक्कर डालना आसान है, मगर डली हुई और घुली हुई शक्कर को निकालना कैसे सम्भव है? माता ने बहुतेरा समझाया, मगर शिशु मचल पड़ा। रुक्मिणी ने कहा—अच्छा रहने दे इस दूध को। मगर शिशु ने हट पकड़ कर कहा—नहीं, दूसरा दूध नहीं पीऊंगा, इसी दूध में से शक्कर निकाल ले। रुक्मिणी ने लाख चेष्टाएं की, किन्तु बालहठ कम न हुआ। वह मचल-मचल कर रोने लगा। माता परेशान हो गई। हर्ष और विषाद का एक अद्भुत मिश्रित भाव उसके अन्तःकरण में उदित होकर उसे गुदगुदाने सा लगा!

इस प्रकार की अनेक बाल-चेष्टाएं करके प्रद्युम्नकुमार ने माता को थका दिया। फिर अपना मूल रूप बना कर माता के पैरों में गिर पड़ा। माता ने पुनः हृदय से लगा कर कहा—बेटा, चिरंजीव होओ! तुम्हारी आयु सुमेरु के बराबर हो! संसार में अपने उज्ज्वल यश का विस्तार करो। सुखी होओ। सोलह वर्ष का मेरा मनोरथ आज सिद्ध हुआ। मेरी हवस पूरी हुई। इस दीर्घ काल में मनोरथों की जो मनोरम माला मैं गूँथती आ रही थी, वह आज मैंने अपने कंठ में धारण कर ली! पुण्य के प्रताप से आज मेरा अभीष्ट सिद्ध हुआ। मेरा जीवन सार्थक हो गया।

करामात का फल है ! तुमने जो बीज बोया था उसका फल सामने आ गया है ! सत्यभामा की दासियों के नाक-कान काटने का ही परिणाम है। यह सुभट हलधर ने भेजे है। हरि और हलधर की साक्षी से मेरे और सत्यभामा के बीच शर्त वदी गई थी, अतएव उसकी पूर्ति कराना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। सत्यभामा ने हलधर के सामने फरियाद की और उन्होंने अपने सुभट यहाँ भेज दिये हैं ! दिखाई देता है, यह लोग हलधर के आदेश से अपना घर लूटेंगे !

रुक्मिणी का यह स्पष्टीकरण सुनकर कुमार चमक उठा। उसके क्रोध की सीमा न रही। मगर उसने शौर्य दिखाने के बदले चमत्कार दिखाना ही योग्य समझा।

कुमार ने उसी समय ब्राम्हण का रूप धारण कर लिया। ब्राम्हण की उम्र छोटी ही थी, परन्तु पेट बहुत मोटा था। उसके हाथ में एक लाठी थी।

ब्राम्हण द्वार के बीच आकर डट गया। सुभट आये और जब भीतर घुसने लगे तो उसने उन्हें रोक दिया। कहा— महारानी का हुक्म नहीं है। खबरदार जो आगे पैर बढ़ाया !

सुभट हलधर की आज्ञा से आये थे। भला वे कब मानने लगे ? उन्होंने कहा—भाई, बड़े मालिक का हुक्म है। हमे भीतर जाना ही होगा।

ब्राम्हण—बड़े मालिक का हुक्म है तो उन्हीं के घर में घुसो। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं चलने की।

कपट की खान है ! उसने मन्त्र के बल से मेरे सुभटों को पराजित कर दिया ! इससे तो जीतना ही कठिन हो गया है ! धिक्कार है ऐसी कुलकलंकिनी को ! पर उसका हौसला बढ़ने देना योग्य नहीं है ।

इस प्रकार सोच-विचार कर और क्रोध से अभिभूत होकर पृथ्वी को कंपाते हुए बलदेवजी स्वयं रुक्मिणी के महल की ओर चले । द्वार पर पहुंचे तो देखा कि वही ब्राम्हण दरवाजे पर लम्बा पड़ा हुआ है । बोले—मुझे भीतर जाने दो । एक ओर हट जाओ ।

ब्राम्हण कुमार ने मुस्करा कर कहा—राजन् ! पहले मेरी विनय तो सुन लीजिए । सत्यभामाजी ने आग्रह करके मुझे भोजन कराया और भोजन में कच्चा अन्न खिलाया है । कच्चा अन्न खाने से मेरा पेट फूल गया है । बहुत दर्द हो रहा है । पहले मेरा दर्द दूर कर दीजिए ! महाराज ! ब्राम्हण जगत् का गुरु है कहा भी है—‘सर्वेषां ब्राह्मणो गुरुः ।’ ब्राह्मण को साता पहुंचाने से सुख प्राप्त होता है । जब तक मेरा पेट दुखना बन्द नहीं होता, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा ।

ब्राह्मण की हैकड़ी देख बलदेवजी नीचे से ऊपर तक प्रज्वलित हो उठे । क्रोध से काँपते हुए बोले—भोजन-भट्ट कही के ! समझता है तू किससे बात कर रहा है ? बड़बड़ाना छोड़ कर एक किनारे होजा, नहीं तो बड़ी कम्बख्ती होगी !

ब्राम्हणकुमार—महाराज ! मैं इतना भौंड़ नहीं कि आपको

कुमार ने अपने मूल रूप में माता के पास जाकर पूछा—
वावाजी, अन्दर प्रवेश करने का हठ पकड़े है। आज्ञा दीजिए,
क्या लरना चाहिए ?

रुक्मिणी ने भीतर से सारी घटना देख ली थी। वह
कहने लगी—वत्स ! तुम्हारा बल और प्रभाव विस्मयजनक है
तुम सर्वथा अजेय हो ! मगर अपने पूज्य गुरुजनों के समक्ष
नम्र होना ही उचित है। उनसे पराजित होने में ही शोभा है।
यह यादवनाथ है। महाबली और प्रभावशाली है। उनकी
इच्छा पूर्ण होने दो। उनसे बिगाड़ करना अच्छा नहीं है। सर्प
और व्याघ्र के मुख में हाथ डालना अच्छा नहीं, इसी प्रकार
वावाजी को चिढ़ाना भी ठीक नहीं।

कुमार—माताजी ! आप यह क्या कहती हैं ? मैं वासुदेव
का बेटा हूँ। मुझे झुकना नहीं आता। मेरे सामने यह क्या
चीज है ? मुझे रंच मात्र भी इनसे भय नहीं है। मैं यों ही
इनसे नहीं उलझ पड़ा हूँ। मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है।
जो नाग को खिलाने का मन्त्र जानता है वही तो उसकी पूँछ
पकड़ कर खींचता है ! तुम किसी प्रकार का भय मत करो।
मैं इनसे निपट लूँगा। यहीं बैठी-बैठी तुम मेरी करामात
देखती रहना। वावाजी भी क्या समझेंगे कि किसी से पाला
पड़ा था ! आप तो इतना भर बतला दो कि इन्हे किससे लड़ने
का शौक है ?

रुक्मिणी—शौक तो इन्हे केसरीसिंह से लड़ने का है !

थे। सब ने समझ लिया—रुक्मिणी अत्यन्त धूर्ता है, ठगौरी है और उसने मन्त्र की सहायता से यह सब करामात की है। मन ही मन सभी लोग रुक्मिणी से भय खाने लगे !

रुक्मिणी अपने पुत्र का पराक्रम देख अतिशय सन्तुष्ट हुई। ठीक ही है—कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्र को देख कर प्रसन्न न होती हो ! फिर प्रद्युम्न तो असाधारण पुत्र था ! उसकी शरीरिक सम्पत्ति, उसकी शक्ति और बुद्धि सभी कुछ अनुपम थी। द्वारिका में पैर धरते ही उसने तहलका मचा दिया था। उससे सत्यभामा बुरी तरह पराजित हो चुकी थी, बलदेवजी का गर्व खर्व हो गया था ! भला ऐसे सुयोग्य और शक्तिशाली सुपुत्र को पाकर क्यों न रुक्मिणी निहाल हो जाती !

योग्य पुत्र वही कहलाता है जो अपने वंश की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा देता है, जो अपने पूर्वजों की कीर्ति-कौमुदी को अधिक उज्ज्वल और विस्तृत बनाता है। ऐसे पुत्र को पाकर माता-पिता धन्य हो जाते हैं। प्रद्युम्नकुमार ऐसा ही पुत्र-रत्न था। उसके गुणों का रुक्मिणी को अभी थोड़ा ही परिचय मिल पाया था, मगर इतने परिचय से भी वह उसकी महत्ता का अनुमान कर चुकी थी।

पुत्र तीन तरह के होते हैं—(१) उत्तम (२) मध्यम और (३) अधम। जो अपने कुल की इज्जत बढ़ाता है। अपने विशिष्ट गुणों से माता-पिता आदि पूर्वजों के यश और गौरव को प्रख्यात करता है और माता-पिता की सेवा करके उन्हें

वरं वन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिर्न ।

चाचिद्वान रूपद्विविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥

अविवेकी पुत्र का जन्म होने की अपेक्षा गर्भपात हो जाना कही अच्छा है या ऐसे पुत्र का जन्म लेकर मर जाना अच्छा है। ऐसे पुत्र की अपेक्षा कन्या का जन्म होना भी श्रेष्ठ है! अथवा अधम पुत्र का प्रसव करने की अपेक्षा स्त्री का वन्ध्या रह जाना ही अच्छा है!

इन तीन प्रकार के पुत्रों में प्रद्युम्नकुमार उत्तम पुत्र था। सपूत में जितने भी गुण होने चाहिए, सभी उसमें विद्यमान थे। ऐसी स्थिति में रुक्मिणी अपने आपको धन्य क्यों न मानती?

माता-पिता के प्रबल पुण्य से उत्तम पुत्र का संयोग होता है। ऐसे पुत्र अपने पराक्रम और सदाचार से वंश के प्रासाद पर यश का मंगल-कलश चढ़ाते हैं। वे कुल के दीपक कहलाते हैं।

रुक्मिणी अपने पुत्र के सद्गुणों पर विचार करके अत्यन्त हर्षित हुई। उसने अपने गृहस्थ जीवन को धन्य समझा। वह मन ही मन उसका कुशल मनाने लगी।



उद्यान में पहुँचा। वहाँ सौभाग्य से एक मुनिराज विराजमान थे। मेरे जिज्ञासा व्यक्त करने पर उन्होंने समग्र वृत्तान्त बतलाया। उनके कथन से मैं समझ पाया, कि मेरे जननी-जनक वास्तव में कौन है? माताजी! मुनि की मधुर वाणी सुनकर मुझे अमर्याद मोद उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, मानो मैंने अभी-अभी नवीन जन्म ग्रहण किया है।

इतने में वहाँ नारद बाबा का पदार्पण हुआ। रही-सही बातें उनसे ज्ञात हुईं। उनके परामर्श और आदेश से मैं उनके साथ यहाँ आने को तैयार हो गया। वहाँ के परिवार को रोता-विलखता छोड़ मैं चल पड़ा। रास्ते में कौरव-सेना दृष्टिगोचर हुई और नारद बाबा से यह भी पता चल गया, कि यह सेना कहां और किस लिए जा रही है। वह भानुकुमार के लिए उदधिकुमारी को लेकर आ रही थी। मैंने उस सेना को पराजित किया और उदधिकुमारी को अपने कब्जे में कर लिया। ऋषि नारदजी के पास उसे विमान में छोड़कर यहाँ आ गया। यहाँ आकर कुछ चमत्कार दिखलाने की इच्छा हुई। इतना करने के पश्चात् कुमार ने किस प्रकार भानुकुमार को छकाया, किस प्रकार सत्यभामा के उद्यान को तहस-नहस किया, किस प्रकार रथ में बैठकर जाती हुई दासियों की खबर लेकर अमंगल किया, किस प्रकार वापी का जल सोख लिया किस प्रकार सारे बाजार में गड़बड़ मचाई, किस प्रकार सत्यभामा का काला मुँह करके सिर के बाल मुँडवाये आदि-आदि समस्त वृत्तान्त व्यूरेवार सुनाया।

नहीं। कोई मुझ पर दया दिखलायेंगे ! कहेंगे—बेचारा, दर-दर भटकता-भटकता यहाँ आ पहुँचा है। चलो अच्छा हुआ, ठिकाने लग गया ! माँ, यह सब टीकाएं मुझसे न सुनी जाएँगी। मैं इस दीनता को सहन नहीं कर सकता।

रुक्मिणी—तो फिर कैसे मिलोगे ?

कुमार—मैं तो विजय-वैजयन्ती फहराकर और विजय के नगाड़े बजा कर पिताजी से मिलूंगा।

रुक्मिणी—क्या पिताजी के साथ युद्ध करोगे ?

कुमार—नहीं, मैं उनके चरणों की पावन रज अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ। मगर उससे पहले देखना चाहता हूँ कि यादवों का रणभूमि में कितना बल है ! उनकी शूर-वीरता का परिचय तो प्राप्त कर लूँ ! फिर मैं अपने आपको प्रकट करके पिता के चरणों में प्रणाम करूँगा। तुम मेरे साथ चलो।

रुक्मिणी—कहाँ ?

कुमार—जहाँ मैं कहूँ।

रुक्मिणी—फिर भी वतला तो सही !

कुमार—सब बात आप ही आप ज्ञात हो जायगी।

रुक्मिणी—मैं हरिजी से आज्ञा प्राप्त किये बिना एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती। पतिव्रता नारी की यह मर्यादा है।

: ९ :

पिता - पुत्र संघर्ष



यादव-राजसभा में बड़े-बड़े शूरवीर यौद्धा मौजूद थे। उन्होंने गगनस्थित पुरुष की अहंकारपूर्ण वाणी सुनी और रुक्मिणी के अपहरण की बात जानी तो उन्हें अत्यन्त आश्चर्य हुआ। सब के सब ऊपर की ओर मुँह करके आश्चर्य करने लगे। किसी के मुख से सहसा कोई शब्द न निकल सका।

तीन खण्ड के अधिपति, महाशक्ति शाली, घोर पराक्रमी वासुदेव श्रीकृष्ण का प्रताप जगत-विख्यात था। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। किन्तु अचानक यह कौन आ पहुँचा? जो इतनी धृष्टता प्रदर्शित कर रहा है! महारानी रुक्मिणी का अपहरण करने की हिम्मत करने वाला यह कौन है? यही सब के आश्चर्य का कारण था।

प्रद्युम्नकुमार आकाश मार्ग से चलकर नारदजी के पास पहुँचा। माता रुक्मिणी और कुमार ने उन्हें नमस्कार किया और द्वारिका में घटित सब घटनाएँ सुनाई। इस नवीन वटना की भी सूचना दी। तत्पश्चात् रुक्मिणी को नारदजी के पास छोड़कर कुमार पृथ्वी पर आया और युद्ध की तैयारी करने लगा।

चुटकियो मे सन्नद्ध होकर शत्रु का सामना करने के लिए उद्यत था ! इस विशाल सेना को देखकर वीर से वीर शत्रु भी काँपे बिना नहीं रह सकता था ।

इस प्रकार सेना सज्जित हो गई । सैनिक अभिमान के साथ अपनी शूरता प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक दिखलाई देते थे । कोई कहता—शत्रु को वासुदेवजी का अपराध करने की अच्छी शिक्षा दी जाएगी !

कोई बिजली की भाँति चमचमाती हुई और यमराज की जिब्हा के समान लपलपाती हुई तलवार को म्यान से बाहर निकाल कर प्रसन्न हो रहा था । कोई भाले को उछाल रहा था, कोई खांडे की परीक्षा कर रहा था ! कोई वज्र फिरा रहा था, कोई धनुष्य-बाण को सहेज रहा था और कोई दण्ड फटकार रहा था । नाना प्रकार के भीषण शस्त्र-अस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों मे युद्ध की उमंग फैली हुई थी ।

सैनिको को युद्ध के लिए विदाई देती हुई माताएँ बोली—बेटा जाओ, मेरे स्तन के धवल दूध को कलंकित मत करना, शत्रु को पीठ मत दिखलाना । समरांगण मे पहुँचते ही शत्रु के प्राण लेना ! अपनी विजय से मेरे कलेजे को शीतल करना ।

पत्नी ने पति को विदा करते कहा—प्राणनाथ ! शीघ्र ही विजयश्री को मेरी सौत बना कर लाना ! अपने शौर्य से यश की वृद्धि करना और शीघ्र सकुशल लौटकर दर्शन देना !

सेना ने कुच कर दिया । हरि और हलधर सब के आगे

ज्वालाएं सुलग उठी। रणभेरियाँ बजने लगी और भयानक कोलाहल से व्योममण्डल आक्रान्त हो गया।

कुमार के ऊपर मेघ की धारा के समान बाणों की वर्षा होने लगी। विविध प्रकार के शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उस समम प्रद्युम्नकुमार की फुर्ती देखने योग्य थी। कितनी त्वरा के साथ वह समस्त शस्त्रो एवं बाणों से अपनी रक्षा कर रहा था और शत्रु-सेना पर बाण वर्षा कर रहा था। उसका छोड़ा हुआ एक-एक बाण विद्या के प्रभाव से हजार हजार रूप धारण करके अपने विरोधियों की छाती छेद रहा था! किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का वक्षस्थल और किसी का पेट घायल हो रहा था! थोड़ी देर तक इसी प्रकार घोर संग्राम होता रहा। शत्रु कुमार के हस्तलाघव को देखकर चकित और मूढ़ हो रहे थे और घायल हो-होकर जमीन पर लेटते जा रहे थे। आखिर यादव सेना के छक्के छूट गये। वह पराजित होकर भाग खड़ी हुई।

अपनी सशक्त सेना की यह आश्चर्य जनक दुर्गति देखकर बलदेव और वासुदेव के विस्मय की सीमा न रही। अन्त में दोनों को स्वयं शत्रु का सामना करने के लिए विवश होना पड़ा। दोनों कुमार के सामने आये। मगर वासुदेव हजार प्रयत्न करने पर भी अपने मन को तैयार न कर सके। उनके मन में एक ऐसा भाव उदित हो रहा था, जिसे वह स्वयं ही समझने में असमर्थ थे! न मालूम किस अतर्क्य कारण से उनके हृदय में रोष जागृत नहीं हो रहा था! शत्रु सामने खड़ा चुनौती दे

अब वासुदेव अकेले रह गये। कुमार ने हँसकर उनसे कहा—यदुनाथ ! आप क्यों व्यर्थ परेशान होते हैं। सकुशल लौट जाइए। रानी अब आपके हाथ नहीं आ सकती।

वासुदेव ने अत्यन्त खिन्न होकर, निरुपाय होकर अपना अन्तिम शस्त्र-सुदर्शन चक्र चलाया। मगर वह चला ही नहीं। तब वासुदेवजी अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। अब विजय प्राप्ति की उन्हे कोई आशा न रही।

कुमार ने कृष्ण को भड़काने के उद्देश्य से ताना मारा—हरिजी ! अब भी लौट जाइए। क्यों एक नारी के लिए अपना अनिष्ट करते हैं ? आप बत्तीस हजार रानियों के स्वामी हैं। उनमें से एक कम हो गई तो क्या हो गया ? सन्तोष धारण कीजिये।

यह सुनकर कृष्णजी से न रहा गया। वह बुरी तरह खीझ उठे, वे दौड़े और कुमार के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे के लिए कालरूप प्रतीत होने लगे। बाप-बेटे में भयानक युद्ध छिड़ गया।

रुक्मिणी से यह दृश्य न देखा गया। नारी जीवन बड़ा ही अनोखा है। नारी के लिए पुत्र भी प्राणों के समान है और पति भी प्राणों के समान है। वह दोनों में से किसी का भी अनिष्ट, अमंगल नहीं देख सकती। रुक्मिणी पिता-पुत्र के इस भीषण संघर्ष को देख व्याकुल हो उठी। वह नारदजी से हाथ

इसी बीच प्रद्युम्नकुमार अपने प्रतापी पिता के पाद-पद्मों में गिर पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ कर कहा—पिताजी ! मेरा अपराध क्षमा हो ! मैंने केवल अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए यह उत्पात किया है। मेरी शक्ति आपकी ही शक्ति है ! बालक को क्षमा कीजिए।

हरि के हर्ष की हृदय न रही। उन्होंने कुमार को हृदय से चिपटा लिया। उनका अन्तरंग आनन्द से परिपूर्ण हो गया। ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ, जैसे अमृतपान किया हो।

सपूत बेटे को देखकर सभी को प्रसन्नता होती है, फिर माता-पिता का तो कहना ही क्या है !

कृष्णजी अपने पुत्र का पराक्रम देख हर्ष विभोर हो गये। कहने लगे—धन्य, वत्स ! धन्य हो ! तुम अपने कुल को उज्ज्वल करने वाले हो ! तुमने प्रकट होते ही यदुकुल की कीर्ति पर कलश चढ़ा दिया। मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हुआ !

इस प्रकार कह कर कृष्णजी बार-बार प्रद्युम्नकुमार का चुम्बन करने लगे। परन्तु शीघ्र ही उनका ध्यान अपने ज्येष्ठ भ्राता की ओर, जो मूर्छित होकर पड़े थे, आकृष्ट हो गया। उनकी मूर्छाविस्था और सुभटो की दुर्दशा देख कर वे खेदखिन्न हो गये।

प्रद्युम्नकुमार अपने पिता के भाव को ताड़ गया। उसने अपनी विद्या समेट ली और सबको पूर्ववत् ज्यों का त्यों कर

चरण छूकर कुमार ने कहा-दादाजी ! मैं आपके प्रति अधिक अपराधी हूँ। एक बार सिंह के रूप में मैंने आपका अपराध किया है और दूसरी बार इस समर भूमि में। आप मेरे मस्तक के छत्र हैं, बड़े हैं, क्षमादान दीजिए !

क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात ।

बलदेवजी को भावना परिवर्तित हो चुकी थी। रोष के बदले अब तोष की लहरे उनके मानस सर में लहरा रही थी। कुमार की वीरता देखकर वे हृष्ट और तुष्ट थे। उन्होंने कुमार को वक्षस्थल से लगा लिया और पुचकार कर कहा—शावास बेटा, शावास ! तू यादवकुल में भास्कर के समान प्रकाश करने वाला जनमा है ! तेरी वीरता और कुशलता देख हमें अत्यन्त प्रसन्नता होती है ।

तत्पश्चात् पाण्डव, कौरव आदि राजा कुमार से मिले। सेनापति आदि ने भी कुमार का यथोचित अभिवादन किया।

द्वारिका में पैर धरते ही प्रद्युम्नकुमार ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। सच है—

वालस्यापि रवेः पादाः, पतन्त्युपरि भूभुताम् ।

तेजसा सह जातानां, वयः कुत्रोपयुज्यते ? ॥

वाल-सूर्य के भी पाद-किरण पर्वतों के ऊपर पड़ते हैं। जो पुरुष तेज के साथ ही उत्पन्न होते हैं, उनकी उम्र का खयाल नहीं किया जाता। वे अल्पवय में ही अपने असाधारण तेज को प्रकट करके दीर्घवय वालों को भी अभिभूत कर देते हैं।

बलदेव और वासुदेव का हृदय वांसी उछल रहा था। उन्होंने नगरी को सुसज्जित करने का आदेश दिया। सम्पूर्ण द्वारिका तोरणों एवं ध्वजा-पताकाओं आदि से सुशोभित हो गई। सड़कों पर सुगन्धित जल का छिड़काव किया गया। पथ में पुष्प बिछा दिये गये। सब तैयारी हो जाने के अनन्तर धूमधाम और शान-शौकत के साथ कुमार का नगर-प्रवेश हुआ। पिता-पुत्र और बाबा बलदेवजी ऐरावत के समान सुन्दर गज पर आरूढ़ हुए। चामर और छत्र ढोरे जा रहे थे। वाद्यों की ध्वनि आकाश-मण्डल को गुञ्जा रही थी। नर्तकीयां आगे-आगे नृत्य और मंगलगान करती जाती थी। मोतियों की वर्षा की जा रही थी। इस प्रकार चलते-चलते सब लोग बाजार के मध्य में पहुंचे। कृष्णजी आदि को देखने के लिए भारी भीड़ एकत्र हो रही थी। नर, नारी, बालक, वृद्ध और युवा सभी उस स्वर्गोपम दृश्य को देखने के लिए उत्कण्ठित होकर सड़क के दोनों किनारे खड़े थे। छतों पर और छज्जों पर इतनी, भीड़ थी, कि तिल-धरने की भी जगह खाली नहीं थी। जिधर देखो उधर ही मानव समुदाय दिखाई देता था।

प्रद्युम्नकुमार अपनी अनोखी आभा का विस्तार करता हुआ सब की ओर अनुराग भरी नजर डालता चल रहा था। उसके सौन्दर्य और तेज को देखकर लोग चकित रह जाते थे। स्त्रियां परस्पर कह रही थी—धन्य है माता रुक्मिणी, जिन्होंने देवोपम कुमार को जन्म दिया है ! यदि माता पुत्र को जन्म दे तो प्रद्युम्न के समान ही पुत्र को जन्म दे। जा अपने कुल को उज्ज्वल करने वाला हो और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का सिक्का जमा सके।

: 99 :

कुमार की उदारता

कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर, एक दिन दुर्योधन श्रीकृष्ण के पास आकर कहने लगा—स्वामिन् ! मेरी कन्या उदधिकुमारी आपकी पुत्र-वधू है। किन्तु इस समय वह विचित्र परिस्थिति में है। जब तक उसके भाग्य का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक मैं भी लौट नहीं सकता। समय बहुत हो चुका है। कृपया शीघ्र उसके भविष्य का निश्चय कर दीजिये।

श्रीकृष्ण—आपके कहने के पहले ही से यह चिन्ता मेरे चित्त में व्याप रही है। प्रद्युम्नकुमार महान योद्धा और वल-शाली है। उसने उदधिकुमारी को युद्ध करके प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार उससे आपकी कन्या माँगी जा सकती है ?

दुर्योधन—नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी कन्या का प्रद्युम्नकुमार के साथ विवाह-सम्बन्ध करना चाहता हूँ। ऐसा करना मेरे लिए प्रसन्नता का कारण है और इससे आपकी उलझन भी दूर हो जाती है।

श्रीकृष्ण—देखिए, क्या कैसा होता है !

इसी समय प्रद्युम्नकुमार वहाँ आ पहुँचे। इन्हे आया देख

: १२ :

विवाह-समारोह

वासुदेव एक दिन रुक्मिणी के महल में बैठे, रुक्मिणी के साथ इधर-उधर की बातें कर रहे थे। बातचित में कुमार का प्रसंग छिड़ गया। तब रुक्मिणी ने कहा—नाथ ! कुमार का विवाह-समारोह देखने की उत्कण्ठा है। हृदय चाहता है, कब कुमार का पाणिग्रहण संस्कार देखूँ ! इस विषय में आपका क्या विचार है ? कृपया बतलाइए।

वासुदेव—शीघ्र ही तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। कल मैं दूत भेजकर आत्मीय-जनो और स्नेही-जनो को आमन्त्रित करता हूँ।

दूसरे दिन राजसभा में पहुंचकर वासुदेव ने अपने प्रधान अमात्य को बुलवाया और कहा—प्रद्युम्नकुमार के विवाह की तैयारियां आरम्भ कर दीजिए। विलम्ब नहीं होना चाहिए। समस्त द्वारिका सजाई जाय, समग्र सेना सुसज्जित की जाय, महलों को सजाया जाय और आगत अतिथियों के स्वागत, भोजन, पान, विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। सब अनुचरों को यथायोग्य काम-काज का वँटवारा कर दीजिए।

प्रधान अमात्य—जो आज्ञा महाराज की !

वली मच गई । सर्वत्र उमंग, उत्साह और हर्ष दिखाई देने लगा ।

द्वारिका के बाहर राजा यमसंवर ने पड़ाव डालकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए दूत भेजा । दूत के द्वारा अपने प्रिय अतिथियो का आगमन जानकर वासुदेवजी आदि को अपार हर्ष हुआ । वे बलदेवजी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर विद्याधर राजा यमसंवर का स्वागत करने चले । आपस में मिलकर, प्रेमपूर्ण आलाप करके और अपना सन्तोष व्यक्त करके उन्हें आदरपूर्वक उतारे पर लाये ।

रुक्मिणी और कनकमाला का मिलन बहुत भावपूर्ण था । दोनों को अत्यन्त प्रसन्नता थी । रुक्मिणी ने कहा—वहिन ! मैं अपनी कृतज्ञता किन शब्दों में व्यक्त करूं? आपका मुझ पर असीम उपकार है । आपने मेरे नन्दन की प्राणरक्षा की है, उसे अपने ही पुत्र की तरह पाला है और उसे योग्य बनाया है! मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगी । आपकी वदौलत ही आज की यह शुभ घड़ी देखने को मिली है ।

कनकमाला ने कहा—देवी ! मेरा उपकार स्वीकारकर के आप अपने सौजन्य को प्रकट कर रही हैं । वास्तव में मैंने आपका क्या किया है ? मैंने जो कुछ किया, अपने सुख के लिए ही किया है, मैंने निपूती थी, प्रद्युम्न ने मुझे पुत्रवती बना दिया ! प्रद्युम्न की वदौलत मेरा गौरव बढ़ा । मैं अपनी सौतो में सर्वश्रेष्ठ बन सकी । प्रद्युम्न की जननी आप हैं । अतएव उसका समस्त श्रेय आपके हिस्से में ही आता है ।

भूचरी (रुक्मिणी) और खेचरी (कनकमाला) की उमंग मन में नहीं समाती थी। उनका उत्साह देखने ही योग्य था ! आखिर पचास सुन्दरी कन्याओं का उवटन हुआ। उन्हें स्नान कराया गया और महा मूल्यवान आभूषण पहनाये गये। सुन्दर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हुई कन्याएं अप्सरा के समान दिखाई देने लगीं।

उधर प्रद्युम्नकुमार भी विवाहोचित वेष में अद्भुत सुन्दर दिखाई देने लगा। उसे इत्र-फुलेल लगाया गया, केसर-कस्तूरी का तिलक लगाया गया, उसे जरीदार केसरिया जामा पहनाया गया। ऊपर से कमरबंध बाँध दिया गया। रत्नमय मुकुट सिर पर शोभायमान होने लगा। तुर्रा ऐसा जान पड़ता था, मानो कुमार का प्रताप ऊर्ध्वलोक को उद्भासित करने के लिए ऊपर जाने को उद्यत हो रहा है।

कुमार के कानों में कुण्डल झिलमिला रहे थे, वक्षस्थल पर मुक्ता-हार अपनी अपूर्व दमक दिखला रहा था। रत्नजटित भुजवन्ध और कटक की शान ही निराली थी। कमर में रत्नमय कटि-सूत्र शोभायमान था। उत्तम जरी की किनारी वाली रेशमी धोती और दोनों पैरों में सुवर्ण-जटित उपानह सोह रहे थे। इस प्रकार नानाविध वस्त्राभूषणों से सुशोभित कुमार ऐसा मालूम होता था, मानो कल्पवृक्ष ही सामने खड़ा हो !

कुमार एक अनुपम अश्व पर सवार हुआ। अश्व की शोभा भी अद्भुत ही थी। उसे भारी-भारी गहने पहनाये गये थे।

जैसे इन्द्राणी के साथ इन्द्र और रति के साथ कामदेव आनन्दपूर्वक समय यापन करता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न भी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा ।

विद्यावर नरेश यममंवर प्रद्युम्नकुमार की यह समृद्धि देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । वासुदेव आदि के आग्रह से विवाह के पश्चात् भी कुछ दिन वहीं ठहरा । फिर सब की आज्ञा लेकर अपने साथियों के साथ रवाना हो गया ।

पुण्य के प्रताप से कुमार को सब प्रकार के सुख प्राप्त थे । वास्तव में पुण्य ही मनुष्य को सुख प्रदान करता है । साधारण लोग सुख की अभिलाषा तो करते हैं, परन्तु सुख की सामग्री संचित नहीं करते । जब तक सुख की सामग्री न होगी, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? जैसे वृक्ष के अभाव में फल नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार शुभ कर्म किये बिना सुख प्राप्त नहीं होता । अतएव सुख की अभिलाषा रखने वालों को पाप का आचरण त्यागकर पुण्य का आचरण करना चाहिए ।

नरजन्म पाना श्रेष्ठ कुल शुभ जाति का मिलना कठिन,
धन धान्य आयु सुदीर्घ अरु आरोग्यतामय हो वदन, ।
सुत मित्र त्रिय विद्या विभव स्वाधीन इन्द्रिय-मन दमन,
प्रभुभक्ति और उदारता का पुण्य द्वारा हो मिलन ॥

भव्य प्राणियों ! अगर आप सौभाग्य के फल पाना चाहते हैं तो सौभाग्य का निर्माण कीजिए । सौभाग्य के बीज

Jhumar Mal Sethia

P. O. BHINASAR

Distt. Bikaner (Raj.)

पंचम स्कन्ध

: 9 :

मित्र प्राप्ति

पाठकों को स्मरण होगा कि प्रद्युम्नकुम्भार पूर्वभव मे मधु राजा के रूप मे था । मधुराज के लघुभ्राता का नाम कैटभ था । दोनों सहोदर भाईयों ने संयम ग्रहण करके और तीव्र तपश्चरण करके देवगति प्राप्त की थी । मधु का जीव देवलोक की आयु पूर्ण करके प्रद्युम्नकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ था । कैटभ का जीव अभी तक वारहव स्वर्ग में देवता के रूप मे था ।

कैटभ देव एक वार सीमन्धर स्वामी की सेवा मे पहुँचा । भगवान सीमन्धरजी को वन्दन-नमस्कार करके और उनका उपदेश सुनकर उसने अपने आपको भाग्यशाली समझा । तत्पश्चात् उसे अपने पूर्वभव का वृत्तान्त जानने की अभिलाषा हुई । उसने अत्यन्त विनयभाव से जिनवर सीमन्धर भगवान से निवेदन किया—हे वितरागदेव ! मेरे मन मे अपना पूर्वभव का वृत्तान्त जानने की उत्कण्ठा जागृत हुई है । प्रभो ! आप परम दयालू हैं । घट-घट की बात जानते हैं । जगत् के जीवों के निष्काम बन्धु हैं । मोह से विमूढ़ बने हुए जीवों का अनन्त उपकार

जिन भगवान् के मुख से अपना भविष्य सुन करके कैटभ-देव ने सोचा—जहाँ आगे जन्म लेना है उसी भूमि को और जिस परिवार में जीवन यापन करना है, उसी परिवार को एक बार देख लूँ तो अच्छा हो। अपने जन्म लेने की बात वासुदेव को बता देने में भी क्या हानि है? यह सोच कर देव सीधा द्वारिका की ओर चल पड़ा।

देव द्वारिका की शोभा देखता हुआ सीधा कृष्णजी के पास पहुँचा। पहले तो देवता को आता देख उन्हें किंचित् विस्मय हुआ, किन्तु जब उसने अपना भविष्यत् वृत्तान्त सुनाया तो अपार हर्ष भी हुआ। देवता ने कहा—सीमन्धर स्वामी ने बताया है कि मैं आपके यहाँ जन्म ग्रहण करूँगा। प्रद्युम्न-कुमार के साथ मेरी अनुपम प्रीति होगी।

इतना कहकर देव ने एक दिव्य हार वासुदेव को प्रदान किया। बतलाया—जो रानी इस हार को धारण करेगी, उसी के उदर से मेरा जन्म होगा।

हार देकर देवता चला गया। वासुदेव सोच-विचार में पड़ गए कि किस रानी को यह हार देना उचित होगा? थोड़े समय के विचार मंथन के पश्चात् उन्होंने सत्यभामा को हार देने का निश्चय किया उन्होंने सोचा—सत्यभामा और रूक्मिणी के बीच सदैव मनमुटाव रहता है। दोनों आपस में खिची रहती हैं। दोनों के पारस्परिक विरोध के कारण उनका जीवन अशान्त और व्याकुल बना रहता है। अगर यह देव सत्यभामा के उदर से जन्म ग्रहण करेगा तो प्रद्युम्न के साथ

रुक्मिणी ने कहा—वत्स ! चन्द्रमा के समान आल्हादजनक तू एक ही मेरे लिये पर्याप्त है । तुझे पाकर मैं निहाल हो गई हूँ । अब दूसरे पुत्र का मुझे क्या करना है ? बाहुबली अपनी माता के इकलौते पुत्र थे । रामचन्द्र कौशल्या के अकेले बेटे थे । लक्ष्मण और भीष्म भी अपनी-अपनी माताओं के अकेले-अकेले सुपुत्र थे । उन माताओं को क्या कमी रह गई ? उनके इकलौते पुत्रों ने उन्हें अमर बना दिया है । आज भी अपने बेटों की वदौलत उन माताओं की कीर्ति-जगत् में व्यापी हुई है ! उन माताओं ने बहुसंख्यक पुत्र पाने की कामना नहीं की, किन्तु अपने एक ही पुत्र को सुन्दर संस्कारों और सद्गुणों से सुशोभित करने की ओर ध्यान दिया । परिणाम यह आया कि उन्हें सुख भी मिला, यश भी मिला, उनके द्वारा जगत् को दिये हुए उत्तम उपहार से विश्व का मंगलसाधन भी हुआ । वही माता बुद्धिमती है जो अपने पुत्र को योग्य और सद्गुणी बनाने का प्रयास करती है । पुत्रों की फौज खड़ी करने से कोई लाभ नहीं होता ।

कुमार—तो वह हार सत्यभामाजी को दिया जाना तुम्हें पसन्द है ?

रुक्मिणी—सत्यभामा को दे दिया जाय तो भी मेरी कोई हानि नहीं है । पर वे भी कहा निपूती है ? भानुकुमार को पाकर उन्हें भी सन्तोष होना चाहिए ।

कुमार—तो फिर हार किसे मिलना चाहिए ?

रुक्मिणी—वत्स ! अगर मेरी चले तो मैं कहती हूँ कि वह

जाम्बवती हार धारण करके बहुत प्रसन्न हुई। उस हार का मूल्य एक सुन्दर आभूषण के रूप में ही नहीं था, वरन् उसका मूल्य एक दैवी सत्तान की प्राप्ति के रूप में था। इस कारण जाम्बवती को इतनी प्रसन्नता हुई, जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई हो। वह प्रसन्न होती हुई अपने महल में चली गई।

थोड़ी ही देर हुई थी कि सत्यभामा हार पाने की अभिलाषा से कृष्णजी के पास आ पहुंची। आते ही उसने कहा—क्षमा चाहती हूँ। नाथ आने में विलम्ब हो गया। लाइए, वह हार कहां है !

कृष्णजी चकित रह गये ! उनकी समझ में ही न आया कि सत्यभामा यह क्या कह रही है। अभी-अभी हार लेकर गई है और अभी फिर वही हार मुझ से मांग रही है !

अत्यन्त विस्मित भाव से उन्होंने सत्यभामा की ओर देखा। उनके देखने का ढंग देखकर सत्यभामा को भी आश्चर्य हुआ। वह न समझ सकी कि कृष्णजी इस प्रकार घूरकर मेरी ओर क्यों देख रहे हैं !

पहले सत्यभामा ने ही नीरवता भंग की। बोली—आपने ही तो हार लेने के लिए बुलाया था और अब मेरी ओर मीन होकर देख रहे हैं !

कृष्ण—सत्यभामा ! तुम्हें आज क्या हो गया है ? पागल तो नहीं हो गई ?

मधुर फल का अधिकारी होता है। जिसने पाप के विषमय काँटे बोये हैं, उसे मधुर फल कैसे प्राप्त हो सकते हैं। उसे तो काँटे ही मिलेंगे।

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा,
फलं तदीयं लभते शूभाशुभम् ।

इस आत्मा ने पहले जो भले या बुरे कर्म किये हैं, उन्हीं का शुभ या अशुभ फल पाता है। वर्तमान में जो कर्म कर रहा है, उसका फल भविष्य में मिलेगा। अतएव प्रत्येक क्रिया करते समय मनुष्य को सोच लेना चाहिये कि वह इस कार्य को करके अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार का विवेक जागृत रहने से मनुष्य अकार्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकता।


जाम्बवती के प्रबल पुण्य का उदय आया तो उसे असली हार अनायास ही मिल गया। मक्खन-मक्खन उसने ले लिया। छाछ बच रही थी सो सत्यभामा के पल्ले पड़ी।

संयोगवश सत्यभामा और जाम्बवती दोनों साथ-साथ गर्भवती हुईं। दोनों का गर्भ क्रमशः वृद्धिगत होता गया। गर्भ का काल परिपूर्ण होने पर जाम्बवती ने एक सुन्दर और अतिशय सुकुमार पुत्ररत्न का प्रसव किया। कैंटभ देव का जीव अतिशय रुपराशि लेकर अवतीर्ण हुआ। उसके सौन्दर्य को देखकर ऐसा आभास होता था कि वह अपने देवभव का दिव्य रूप अपने साथ ही लेता आया है।

उन्हीं दिनों सत्यभामा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया।

शम्बुकुमार और सुभानुकुमार महान् पुण्य के धनी थे । पाँच ढायो ने अपरिमित प्रीति के साथ उनका लालन-पालन किया । चंपाकली की तरह दिन-प्रतिदिन उनका विकास होता गया । जब वे बालक्रीड़ा करने योग्य हुए तो विशेष रूप से अपने माता-पिता के मन को मोहने लगे । उनकी चेष्टाएं माता के अन्तःकरण को मुग्ध करने लगी । आंगन में ठुमक-ठुमक कर चलना, चलते-चलते गिर पड़ना, किलकारियां भरना, खिल-खिलाकर हंसना, अव्यक्त एवं अस्फुट वाणी का उच्चारण करना आदि चेष्टाएं देख-देखकर दर्शकगण निहाल हो जाते थे । उनकी इन चेष्टाओं में खास आकर्षण था ।

दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो शम्बुकुमार को प्रद्युम्नकुमार ने शिक्षा देना प्रारम्भ किया और सुभानुकुमार को भानुकुमार सिखाने लगा । दोनों भाई विद्याओं में तथा विविध कलाओं में निष्णात हो गये । प्रद्युम्न को शम्बु के रूप में सच्चे मित्र की प्राप्ति हुई ।



शिकार हो जाते हैं और पापाचरण में प्रवृत्ति करने को उद्यत हो जाते हैं। उस समय उन्हें सावधान करना, पाप-पथ से रोक कर पुण्य के प्रशस्त पथ की ओर ले आना सन्मित्र का ही काम होता है। सच्चा मित्र ही उसकी मनोवृत्ति को मोड़ कर हितकारक कार्यों में लगाता है।

सच्चा मित्र अपने मित्र की गोपनीय बातों को गोपता है। उसके दोषों का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह मित्र के दोषों को जानकर एकान्त में उसे समझाता है और दूसरों के सामने उसके गुणों को ही प्रकट करता है।

मित्रपर जब किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है तो सच्चा मित्र किनारा काट कर अलग नहीं हो जाता। वह पूरी तरह उसका साथ देता है और विपत्ति से उद्धार करने के लिए अपना समस्त सामर्थ्य लगा देता है। इसी प्रकार आवश्यकता होने पर सच्चा मित्र अपने मित्र को धन आदि की सहायता करता है।

मित्र कहो या हितैषी कहो, सुहृद् कहो या बन्धु कहो, एक ही बात है। पूर्वोक्त लक्षणों से सम्पन्न सुहृद् की प्राप्ति हुई है, वह निःसन्देह पुण्य का भाजन है। पुण्य का उदय होने पर ही सच्चे हितैषी मित्र की प्राप्ति होता है। शंभु कुमार के रूप में प्रद्युम्न को और प्रद्युम्न के रूप में शंभु कुमार को बन्धु-मित्र प्राप्त हुए।

एक दिन की बात है। प्रद्युम्न, शंभु, भानु और सुभानु-चारों भाई अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते-करते पितृदर्शन के हेतु राज-सभा में पहुंचे। सभी कुमारों ने बलदेवजी और वानुदेवजी के

शंभ ने मन्द हास्य के साथ कहा—माताजी ! यह तो खेल है। खेल में एक की विजय और दूसरे की पराजय होती ही है। आप क्यों चिढ़ रही हैं ! देखना हो तो खेल देखकर मनोरंजन कीजिए।

इसी समय प्रद्युम्न को एक नवीन कल्पना सूझी। उसने उसी समय एक खेल आरम्भ करवाया और उसमें सुभानु को जिता दिया। शंभकुमार ने उसी समय जीत की मुद्राएँ सुभानु को दे दी।

सुभानु का स्वाभिमान जागृत हो गया। उसने अपनी जीत की मोहरों में से आधी शंभ को देनी चाही।

शंभ ने निस्पृहता पूर्वक कहा—हम पराजय की एक भी कौड़ी छूना पसन्द नहीं करते !

सभा में उपस्थित सभी लोग शंभ की उदारता, निर्लोभता, समझदारी, आत्मगौरव शीलता और चतुरता देखकर दंग रह गये। सब के मुख से वाह-वाह निकलने लगी !

सुभानु को लज्जित होना पड़ा। वह जीत कर भी बुरी तरह पराजित हुआ। सत्यभामा बेहद चिढ़ गई। वह सुभानु का हाथ पकड़ कर उसे सभा में से उठा ले गई।

शंभकुमार ने आज जो स्वर्ण मुद्राएँ जीती थी, उनसे उसने एक दानशाला की स्थापना की। अर्थात् जनो को वहाँ

है। मेरे पास उनके बराबर धन नहीं है। जब बहुत धन हो जायगा तो मैं दान करूँगा। किन्तु विचारक कहते हैं—

ग्रासादर्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः किं न यच्छसि ।
इच्छानुरूपो विभवः-कदा कस्य भविष्यति ॥

तेरे पास एक कौर है तो उससे आधा दान क्यों नहीं कर देता ? इच्छानुसार धन कब, किसे मिला है।

धन से किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा दिन-दिन बढ़ती ही चली जाती है। शास्त्रकार कहते हैं—

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ।

जैसे आकाश का अन्त नहीं है उसी प्रकार इच्छा का भी अन्त नहीं है। तब उसकी पूर्ति किस प्रकार हो सकती है ? अतएव—

भवन्ति नरकाः पापात्पापं दारिद्र्यसंभवम् ॥
दारिद्र्यमप्रदानेन, तस्माद् दानपरो भवेत् ॥

पाप के कारण से नरक की प्राप्ति होती है और पापों का धारण दारिद्र्यता दान न देने से होती है, इसलिए मनुष्य को चाहिये कि वह दान देने में तत्पर रहे।

दान की महिमा सर्वत्र गाई गई है। दान के प्रभाव से विस्तृत कीर्ति होती है, दान की बढौलत प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त होती है, दान से परन्व मे सुख और समृद्धि मिलती है!

है। मेरे पास उनके बराबर धन नहीं है। जब बहुत धन हो जायगा तो मैं दान करूँगा। किन्तु विचारक कहते हैं—

ग्रासादर्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः किं न यच्छसि ।
इच्छानुरूपो विभवः-कदा कस्य भविष्यति ॥

तेरे पास एक कौर है तो उसमे से आधा दान क्यों नहीं कर देता ? इच्छानुसार धन कब, किसे मिला है।

धन से किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा दिन-दिन बढ़ती ही चली जाती है। शास्त्रकार कहते हैं—

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ।

जैसे आकाश का अन्त नहीं है उसी प्रकार इच्छा का भी अन्त नहीं है। तब उसकी पूर्ति किस प्रकार हो सकती है ? अतएव—

भवन्ति नरकाः पापात्पापं दारिद्र्यसंभवम् ॥
दारिद्र्यमप्रदानेन, तस्माद् दानपरो भवेत् ॥

पाप के कारण से नरक की प्राप्ति होती है और पापों का धारण दारिद्र्यता दान न देने से होती है, इसलिए मनुष्य को चाहिये कि वह दान देने में तत्पर रहे।

दान की महिमा सर्वत्र गाई गई है। दान के प्रभाव से विस्तृत कीर्ति होती है, दान की वदौलत प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त होती है, दान से परभव में सुख और समृद्धि मिलती है!

सत्यभामा को बड़ा क्षोभ हुआ। वह अत्यन्त बेचैन होकर राज-सभा में आ धमकी। आते ही सत्यभामा चिड़चिड़े स्वर में पाण्डवों से बोली—आप लोग क्यों बालकों को बिगाड़ने पर उतारु हुए हैं? जिनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, उनमें प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न करके आप क्या लाभ उठाना चाहते हैं?

सत्पुरुष परकीय उत्कर्ष देख कर प्रसन्न होते हैं। फिर प्रद्युम्नकुमार तो शम्ब का सच्चा हितैषी था। शम्ब की प्रतिष्ठा-वृद्धि में उसने अपनी ही प्रतिष्ठा बढ़ती देखी। वह प्रेम पूर्वक शम्बकुमार की सहायता करने लगा।

—❖❖❖—

: ३ :

शम्ब का उत्पात

जाम्बवती-सुत राजा हो गया। मगर होनहार की बात समझिए कि राजा होते ही उसे ऐसा मद चढ़ा कि न पूछो बात! आगे-पीछे सोचे बिना ही वह अनीति में प्रवृत्त हो गया। उसकी अनीति दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे धन-मद, यौवन-मद, बल-मद और राज-मद ने बुरी तरह घेर लिया। कहां भी है—

मे बढ़ते हुए त्रास और असन्तोष को देखकर उन्हे दुःख हुआ ।

कृष्णजी जाम्बवती के निकट पहुँचे । उन्होंने सोचा—शम्भ को सन्मार्ग पर लाने के लिए उसकी माता की सहायता लेनी चाहिए । अपने पुत्र की अनीति-परायणता को देख सुनकर कृष्णजी गहरा विषाद अनुभव कर रहे थे और उनके चेहरे पर वह विषाद स्पष्ट रूप से झलक रहा था ।

जाम्बवती ने अपने पति को चिन्तातुर देखकर विनम्र भाव से प्रश्न किया—सदैव फूल की तरह खिले रहने वाले आपके चेहरे पर आज विषाद की रेखाएँ देख कर चित्त में खेद होता है । कृपा करके बतलाइए आप आज इतने उदास क्यों हैं ?

कृष्ण—सुन्दरी ! तुम्हारे नन्दन ने अनीति आरम्भ कर दी है । आरम्भ ही नहीं, वह चरम सीमा पर पहुँच चुकी है । उसने कुल की मर्यादा त्याग दी है । वह नगर की नारियों को पकड़-पकड़ कर उनका शील भंग करता है !

जाम्बवती—नाथ ! मेरा पुत्र बहुत भोला है । उसे खाने-पीने का तो सहूर ही नहीं, वह क्या अनाचार करेगा ? यह सब विरोधियों का षड्यन्त्र जान पड़ता है । उन्होंने मुझे और शम्भ को वदनाम करने के लिए यह जाल रचा है ! मेरा एकलौता बेटा है और सौते उसे देख-देखकर जलती है । दान के कारण जब से उसकी कीर्ति फैली है, तब से तो उनकी जलन का पार ही नहीं है ! इसी जलन के कारण किसी ने आपके आगे चुगली कर दी होगी !

थी, हाथ और पैर भी थर-थर काँप रहे थे। पग-पग पर ऐसा लगता कि अब गिरा, तब गिरा ! उसके मस्तक और दाढ़ी-मूँछ का एक-एक बाल श्वेत हो गया था। चेहरे पर झुरियाँ पड़ी हुई थी। उसके दोनो नेत्र भीतर की ओर धँसे हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानो उखड़े पेड़ की खोतर हो ! शरीर में माँस नहीं था—अस्थियों का पञ्जर चमड़ी से मढ़ा हुआ था। पोपले मुँह में से लार टपक-टपक पड़ती थी। चलने के श्रम के कारण लम्बी-लम्बी सांसे भरता हुआ ऐसा लगता था जैसे लौहार की धौंकनी हो !

कृष्णजी ने जाम्बवती को षोडशी गौपी कुमारी के रूप में परिणत कर दिया। वह अतिशय रूपश्री से समन्वित नव-युवती बूढ़े ग्वाल के पीछे-पीछे चलने लगी। उसका मुख चन्द्रमा की तरह सुशोभित हो रहा था। काले नाग की तरह आयताकार चोटी उसके पैरो तक लटक रही थी, जो ऐसी जान पड़ती थी कि कामी जनों के मन को बाँधने के लिए सुदृढ़ नागपाश है ! उसके नेत्र हरिणी के सदृश चपल थे। नाक की बनावट असाधारण थी। उसके होठों में नैसर्गिक लालिमा थी जो उसके आन्तरिक अनुराग का प्रतिबिम्ब जान पड़ती थी। उन्नत उरोज उसके सौन्दर्य को शतगुणित बढ़ा रहे थे। वह हंस की चाल से चल रही थी।

उसके सिर पर बोर ललाट पर बेदी सोह रही थी। नाक में बड़ी सी नथ थी और कानों में बालियाँ ! गोल-गोल नथ और बालियाँ ऐसी लगती थी, मानो कामदेव ने चंचल-चिन्त

ही हुआ। आँखों के इशारे देख शम्ब और अधिक मुग्ध हो गया। ज्यों-ज्यों जाम्बवती उसे रोकने की चेष्टा करती, त्यों-त्यों शम्ब की वासना भड़कती जा रही थी। काममूढ़ मनस्क पुरुष, स्त्री की साधारण चेष्टा को भी अपने प्रति अनुराग प्रकट करने वाली समझता है। शम्ब गोपी की चेष्टाओं को भी इसी रूप में ग्रहण करने लगा। अनेक प्रकार से समझाने पर भी वह रहस्य को न समझ सका।

रास्ता रोक कर खड़े देख अहीर वृद्ध ने कहा—जाने दो भाई, हमें दूध, दही नहीं बेचना है। हम ऐसे लाभ को हाथ जोड़ते हैं। लज्जा रह जाय तो सभी कुछ रह गया!

शम्ब नहीं हटा। तब बूढ़े को क्रोध आ गया। उसने डांट कर कहा—जाने दो, हट जाओ सामने से!

शम्ब ने बूढ़े को एक लात लगाई। बूढ़ा धरती पर गिरा पड़ा। नवयुवती का हाथ पकड़ कर वह अपने महल की ओर घसीट ले जाने लगा। उसी समय कृष्ण मुरारी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया! वे कड़क कर बोले—दुष्ट नीच! तू अपनी सगी माता से भी न चूका! धिक्कार है तेरी जिन्दगानी को! निर्लज्ज! तेरी बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो गई है! कुलांगार कही के! तू ने मेरे उज्ज्वल यश को भी कलंक लगा दिया।

शम्ब के पैरों तले की जमीन खिसक गई! अपने प्रतापी पिता को देख वह हक्का-बक्का रह गया। उसने युवती की ओर देखा तो माता जाम्बवती उसके सामने खड़ी थी! घोर

सोचते-सोचते उसका क्षोभ भयानक कोप के रूप में परिणत हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ में एक तीखी कटार ली और बायें हाथ में लकड़ी की खूंटी। कटार से खूंटी छीलता छीलता वह वासुदेवजी के पास पहुँचा। कृष्ण ने पूछा-शम्भ, आज यह क्या धन्धा आरम्भ किया है ?

शम्भ—खूंटी बना रहा हूँ।

कृष्ण—किस लिए ?

शम्भ—जो कल की गुप्त बात प्रकट करेगा, उसके मुख में ठोकने के लिए !

कृष्णजी को शम्भ की उद्दण्डतापूर्ण उक्ति सुनकर ऐसा दुःख हुआ मानो किसी ने उनके हृदय में मेख ठोक दी हो। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि शम्भ इतना नीच और उद्दंड हो सकता है। क्रोध और क्षोभ से वासुदेव कांपने लगे। उन्होंने कहा—निर्लज्ज, धृष्ट छोकरे ! तू स्वयं इस योग्य है कि तेरे मुख में मेख ठोक दी जाय। पर पिता का हृदय इस कठोरता को सहन नहीं करता। मगर मेरे राज्य में तेरा रहना अनर्थकारी है। तू अपना काला मुँह लेकर राज्य से बाहर निकल जा। मैं तुझे देश-निर्वासन का दण्ड देता हूँ।

शम्भ की आंखें अब खुली। देश निकाले का दण्ड सुनकर वह ऐसा दीन हो गया, जैसे पंख कट जाने पर पक्षी में दीनता आ जाती है। उसके चेहरे का नूर गायब हो गया। वह गम्भीर सोच विचार में पड़ गया। उसने सोचा—तीनों खण्डों में पिता

सोचते-सोचते उसका क्षोभ भयानक कोप के रूप में परिणत हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ में एक तीखी कटार ली और बायें हाथ में लकड़ी की खूंटी। कटार से खूंटी छीलता छीलता वह वासुदेवजी के पास पहुँचा। कृष्ण ने पूछा-शम्भ, आज यह क्या धन्धा आरम्भ किया है ?

शम्भ—खूंटी बना रहा हूँ।

कृष्ण—किस लिए ?

शम्भ—जो कल की गुप्त बात प्रकट करेगा, उसके मुख में ठोकने के लिए !

कृष्णजी को शम्भ की उद्दण्डतापूर्ण उक्ति सुनकर ऐसा दुःख हुआ मानो किसी ने उनके हृदय में मेख ठोक दी हो। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि शम्भ इतना नीच और उद्दंड हो सकता है। क्रोध और क्षोभ से वासुदेव कांपने लगे। उन्होंने कहा—निर्लज्ज, धृष्ट छोकरे ! तू स्वयं इस योग्य है कि तेरे मुख में मेख ठोक दी जाय। पर पिता का हृदय इस कठोरता को सहन नहीं करता। मगर मेरे राज्य में तेरा रहना अनर्थकारी है। तू अपना काला मुँह लेकर राज्य से बाहर निकल जा। मैं तुझे देश-निर्वासन का दण्ड देता हूँ।

शम्भ की आंखें अब खुली। देश निकाले का दण्ड सुनकर वह ऐसा दीन हो गया, जैसे पंख कट जाने पर पक्षी में दीनता आ जाती है। उसके चेहरे का नूर गायब हो गया। वह गम्भीर सोच विचार में पड़ गया। उसने सोचा—तीनों खण्डों में पिता

सम्भव होगा तो उसी के द्वारा होगा। उसी के द्वारा तेरा निस्तार होगा।

शम्ब उसी समय प्रद्युम्न के पास पहुँचा। जाते ही वह प्रद्युम्न के पैरों में गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा। प्रद्युम्न ने उसे उठाकर छाती से लगाया और रोने का कारण पूछा। शम्ब ने आदि से अन्त तक का समस्त वृत्तान्त बिना किसी बात को छिपाए निष्कपट भाव से कह सुनाया।

वृत्तान्त सुनकर प्रद्युम्न भी गम्भीर हो गया। वह सोचने लगा—शम्ब का अपराध अतिशय गम्भीर है। इसने पिताजी की घोर अविनय की है।

प्रद्युम्न ने प्रश्न किया—अब तुम क्या चाहते हो ?

शम्ब—किसी प्रकार निर्वासन का दण्ड क्षमा कर दिया जाय।

प्रद्युम्न—क्या तुम सोचते हो कि पिताजी ने यह दण्ड देकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है ?

शम्ब—नहीं, अब मेरी आँखें खुल गई हैं। मैं सही राह पर आ गया हूँ और सही दिशा में देखने लगा हूँ। वास्तव में मेरा अपराध इसी दण्ड के योग्य है। पिताजी ने अन्याय नहीं किया।

प्रद्युम्न—जब दण्ड न्याय युक्त है तो उसे क्षमा कर देने की अभ्यर्थना किस आधार पर की जाय ?

शम्ब—इस आधार पर कि दण्ड का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है।

श्रीकृष्ण—उसने मेरा व्यक्तिगत अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता। वह प्रजा के प्रति भी तो अपराधी है। ऐसी स्थिति में मैं उसे क्षमा दान कैसे दे सकता हूँ।

प्रद्युम्न—प्रजा आप में ही केन्द्रित है। प्रजा के प्रति किये गये सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार के प्रतिफल में आप ही अनुग्रह कर सकते हैं। आप प्रजा के प्रतिनिधि हैं। प्रजा की ओर से दण्ड देते हैं तो क्षमा भी कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण—नहीं प्रद्युम्न, यह नहीं हो सकता। शंभु को क्षमादान देना प्रजा की दृष्टि में अविश्वास-भाजन बनना है। शासक का प्रथम कर्तव्य प्रजा का विश्वास सम्पादन करना है।

प्रद्युम्न—यथार्थ है आपकी आज्ञा ! परन्तु दण्ड का उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर भी दण्ड देना क्या उचित है ?

श्रीकृष्ण—पर इसकी क्या खातिरी है ?

प्रद्युम्न—मैं उसकी जमानत देता हूँ। वह भविष्य में नीति के अनुसार चलेगा। मैंने उससे वचन ले लिया है।

श्रीकृष्ण—मगर यह सब बातें प्रजा को कौन समझाता फिरेगा !

प्रद्युम्न के हृदय में निराशा का संचार हुआ। उसने अन्य-मनस्क भाव से कहा—पिताजी ! तो शंभु को क्षमा प्रदान करने का कोई उपाय नहीं है।

अपने ननिहाल में रहीं हूँ,
 मुझे पर अपार प्रीति थी ।
 धेरक मुझे चाहती थी । लेश-
 बत्ती थी ।

मेरे पिताजी ने मेरा विवाह
 मामा के घर से अपने घर
 करा किया । रात्रि के समय
 में मगर मुझे नींद नहीं आई ।
 की मोहनी मूर्ति मेरे सामने
 नेह मुझे स्मरण आता रहा ।
 कांश भाग व्यतीत हो गया ।
 शल्य की भाँति चुभने लगा ।
 आई ।

त और किस प्रकार निद्रा ने
 में गई । जब जागी तो देखा
 सार कर चुकी है । सुनहरी

मेरे पिताजी आदि साथ वालों
 गए । मैं एकाकी निराधार हो
 कहीं किसी का पता न लगा ।
 ही रह गई । पता नहीं, मेरे
 अब मैं आपको आश्रिता हूँ ।

राजा की कन्या हूँ । मैं वचन से अपने ननिहाल में रही हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ । मेरी मामी की मुझे पर अपार प्रीति थी । वह अपनी उदरजात कन्या से भी अधिक मुझे चाहती थी । लेश-मात्र भी अलगाव का भाव नहीं रखती थी ।

मुझे वयस्क हुई समझ कर मेरे पिताजी ने मेरा विवाह करने का विचार किया । वह मुझे मामा के घर से अपने घर ले जा रहे थे । मार्ग में यहाँ उतारा किया । रात्रि के समय सब लोग सुख की गहरी निद्रा में सोये मगर मुझे नींद नहीं आई । आँखें बन्द कर लेने पर भी मामी की मोहनी मूर्ति मेरे सामने खड़ी होने लगी । उनका मधुर स्नेह मुझे स्मरण आता रहा । विचार ही विचार में रात्रि का अधिकांश भाग व्यतीत हो गया । मामी का विछोह मेरे अन्तस्तल में शल्य की भाँति चुभने लगा । लाख प्रयत्न करने पर भी निद्रा न आई ।

पिछली रात्रि में न जाने कब और किस प्रकार निद्रा ने मुझे अपने अधीन कर लिया । मैं सो गई । जब जागी तो देखा भास्कर की किरणें सर्वत्र अपना प्रसार कर चुकी हैं । सुनहरी धूप फैल गई ।

आँखें मलते-मलते मैंने अपने पिताजी आदि साथ वालों को देखा तो वे कहीं नजर न आए । मैं एकाकी निराधार हो गई । इधर उधर खोजने पर भी कहीं किसी का पता न लगा । निराश होकर मन मार कर मैं यही रह गई । पता नहीं, मेरे भाग्य में क्या बदा है ? माताजी, अब मैं आपको आश्रिता हूँ ।

सत्यभामा कुमारी का रमणीय रूप निहार कर फिर ठगाई में आ गई। उसने कुमारी से कहा—अगर तुम मेरे पुत्र सुभानु-कुमार के साथ विवाह करने को तैयार हो तो मैं तुम्हे अपने महल में ले चलू। मेरी पुत्रवधू बन जाओगी तो मेरा सम्पूर्ण प्रेम पा सकोगी।

कुमारी बोली—स्वामिनी ! आपके कुंवर हरिजी के सुपुत्र हैं और आपके आत्मज हैं। वे मेरे प्राणेश्वर बन जाएं तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिये! नारीजीवन की एक बड़ी साध यही होती है कि उसे सुयोग्य, सम्पन्न, सुन्दर और उदार पति की प्राप्ति हो। स्त्री आखिर निरालम्ब तो रह नहीं सकती। त्रिखण्डनाथ की पतोहू बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

सत्यभामा —तो तुम्हे मेरी बात स्वीकार है ?

कुमारी— अत्यन्त प्रसन्नता के साथ। मैं आपके सुपुत्र का वरण करूंगी और अपने जीवन को धन्य समझूंगी।

सत्यभामा को असलित का पता नहीं था। उसने गज-राज पर कुमारीरूप शम्ब को आरुढ़ किया और बीच बाजार में होकर अपने महल की ओर प्रस्थान किया।

प्रद्युम्नकुमार के मन में महान प्रमोद हुआ। सोचने लगा—चलो, मेरी युक्ति काम कर गई। जो सोचा था, पुरा हुआ।

वह सीधा जाम्बवती के पास पहुँचा। उन्हें समग्र वृत्तान्त

एक नवीन उल्हास, नवीन उमंग और नवीन उत्साह सर्वत्र दृष्टि-गोचर होने लगा।

शम्भु कुमारी अपनी सखियों के साथ वगीचे में क्रीड़ा करने गई। एक विशाल और सघन वृक्ष के नीचे झूला डाला गया। कुमारी झूलने लगी और सखियाँ प्रफुल्लित-चित्त से मधुर राग आलापने लगी।

नवयुवक सुभानुकुमार भी अपने मन्त्री के साथ उस वगीचे में आ पहुँचा। वह आभूषणों से ही सुसज्जित नहीं था, हृदय के अनुरागमय भावों से भी सुसज्जित था। घूमता-फिरता वह वही आया जहाँ कुमारी झूला झूल रही थी। उसकी दृष्टि कुमारी पर पड़ी। कुमारी के अपूर्व रूप-लावण्य को देखकर वह अतिशय मुग्ध हो गया और उसके नयनवाणों से विद्ध हो गया। कवि ने ठीक ही कहा है—

सन्मार्गं तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां,
लज्जा तावद् विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव ।
भ्रू चापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीलपक्षिणा एते,
या वल्लीलावतीनां हृदि न धृतिमुखो दृष्टिवाणाः पतन्ति ॥

मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर रहता है, तभी तक अपनी इन्द्रियों को वश में रख पाता है, तभी तक उसमें लज्जा रहती है और तभी तक वह विनीत रह सकता है, जब तक भीहो रूपी धनुष्य को खींच कर छोड़े हुए नीले-नीले पांखों वाले, धैर्य को नष्ट करने वाले, स्त्रियों के दृष्टिरूपी वाण उसके हृदय में

कुमार—सचमुच तुम मेरे मन्त्री होने योग्य हो ।

मन्त्री—मेरा विचार ठीक है न ?

कुमार—सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के मन की बात ताड़ ले ।

मन्त्री—मगर ताड़ कर चुप-चाप बैठा रहे तो ?

कुमार—नहीं, उसे रोग की चिकित्सा की भी चिन्ता करनी चाहिए ।

मन्त्री—दवा तो घर में ही है, मगर वैद्यराज जब सेवन करने की आज्ञा दे तब काम चले ।

कुमार—वैद्यराज बड़े दयालु हैं । उन्हें जताने भर की जरूरत है ।

मन्त्री—यह काम मेरे जिम्मे में ।

मन्त्री, कुमार के पास से उठ कर सीधा महारानी सत्यभामा के पास पहुँचा । कुमार का वृत्तान्त सुनाकर उसने कहा—महारानीजी ! अब समय आ गया है कि शीघ्र ही विवाह कर दिया जाय ।

सत्यभामा कुमार सुभानु के पास आई। उसने कहा—वत्स ! धवराओ मत । वह कन्या तुम्हारे विवाह के लिए ही अन्तःपुर में रखी गई है । जल्दी ही पाणिग्रहण-समारोह किया जायेगा ।

सुभानु के विवाह के लिए सत्यभामा ने सौ कन्याएँ एकत्र

वाम कर में कोई अन्तर नहीं है। एक ही बात है। पुरोहित चुप रह गया। शंभु कुमारी ने वाम कर से सुभानु का हाथ पकड़ा और दाहिने हाथ से शेष कन्याओं का पाणिग्रहण किया।

विवाह-समारोह सानन्द सम्पन्न हो गया। शम्भु कुमारी ने महल में पदार्पण किया। वहाँ पहुँच कर और शय्या पर आसीन होकर उसने अपना रूप पलट लिया। कुमारी अब शम्भु-कुमार के रूप में है! उसकी प्रसन्नता का पार नहीं है।

जब सुभानुकुमार उसके पास पहुँचा तो देखकर विस्मय विमूढ़ हो गया! कुमारी के बदले शम्भुकुमार यहाँ विराजमान है! उसे अपनी आँखों पर विश्वास न हुआ। सोचने लगा—मैं भूल से दूसरे कमरे में तो नहीं आ पहुँचा हूँ। उसने इधर-उधर देखा तो मालूम हुआ कि कमरा वही है। इतने में शम्भुकुमार ने भ्रुकुटि चढ़ा कर उससे कहा—‘भला चाहता है तो भाग जा यहाँ से।’

सुभानु का सारा सन्देह दूर हो गया। वह उल्टे पांव वहाँ से भागा और सत्यभामा के पास पहुँचा। सुभानु बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे घबराया और हाँफता हुआ देख माता ने छाती से लगा लिया। फिर पूछा—बेटा क्या बात है? घबराता काहे को है? इस समय क्यों भाग कर यहाँ आया है?

सुभानु ने कहा—मुझे शम्भु मारने को तैयार हो रहा है। वह मेरे शयनगृह में बैठा है।

सत्यभामा—डरपोक कहीं का! अब शम्भु यहाँ कहां? वह तो न जाने कहाँ भटकता फिरता होगा!

शम्ब फिर कुछ न बोला । वह मुस्कराता हुआ चुपचाप सत्यभामा के विष मय वाग्वाणो को सहन करता रहा । उसका प्रयोजन पूर्ण हो चुका था । उसे किसी से लड़ाई मोल नहीं लेनी थी ।

नवपरिणीता सौ बहुएँ जाम्बवती के महल मे आई और उनके चरणो मे गिर पड़ी । उस समय जाम्बवती का हृदय कितना प्रफुल्लित हुआ होगा, यह कौन कह सकता है ? कहाँ तो पुत्र के देश-निर्वासन की कठोर आज्ञा के कारण वह सन्तप्त हो रही थी और कहाँ एक साथ सौ बहुओं के साथ पुत्र का मिलन हो गया! सच है—संसार बड़ा ही विषम है ।

चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि सुखानि च ।


संसार मे दुःख और सुख गाडी के पहिये के समान घुमते ही रहते है । कभी दुःख की असह्य ज्वालाएँ लपलपाती हुई समग्र शान्ति और सुख को भस्म कर देने के लिए उद्यत होती है तो कभी-कभी सुख का शीतल निर्झर अन्तस्थल को शान्त करता हुआ बहने लगता है । यहाँ न किसी का दुःख स्थायी रहता है और न सुख ही अक्षय हो सकता है । इसी कारण ज्ञानी पुरुष सोचते है—

होकर सुखमें मग्न न फूलूँ,
दुख मे कभी न घबराऊँ ।

सचमुच ज्ञानी जन सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करते है । सुख के साधन उपलब्ध होने पर वे हर्ष की उत्तंग तरंगो पर नाचने नहीं लगते और दुःख के निमित्त मिलने

भाव का विष हट जाने पर दुःख की भीषणता भी नष्ट हो जाती है। समभाव में ऐसा चमत्कार है।

भव्य जीवो ! अपने जीवन को एकान्त सुखमय बनाना चाहते हो तो समभाव की सुधा का पान करना सीखो। समभाव के अभाव में स्थायी सुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता।



: ६ :

कुन्दनपुर में



एक बार रुक्मिणी देवी ने विचार किया—मेरी भतीजी वैदर्भीकुमारी अतीव लावण्यमयी है। उसका दिव्य रूप मनमोहक है। उसकी शांति अद्भुत है। वह मेरी जैसी सोहती है। वह मुझे मिल जाय तो कितना अच्छा हो। हम दोनों भुआ-भतीजी हिल-मिलकर साथ-साथ रहने में उसका मुझे बड़ा सहारा हो जायगा।

इस प्रकार की तरंग मन में आते ही रुक्मिणी ने एक दौत्यकर्म में कुशल दूत को बुलवाया। उसे सब बात समझाते हुए कहा—तुम कुन्दनपुर जाओ। रुक्म राजा को मेरा आशीर्वाद कहकर कन्या वैदर्भी की प्रद्युम्नकुमार के लिये मंगनी करना।

रुक्म—यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे सामने सफाई पेश करूँ !

दूत—नहीं, मैं सफाई नहीं चाहता, सिर्फ कारण जानना चाहता हूँ और वह इस उद्देश्य से कि द्वारिकाधीश की पटरानी को वह बतला सकूँ ।

रुक्म—मैंने जो कह दिया है, वही पर्याप्त है ।

दूत—आपने जो कहा है, शीघ्रता में कहा मालूम होता है । जरा आगा-पीछा सांच लीजिए ।

रुक्म—दूत, यह तुम्हारी धृष्टता है । चुप रहो ।

दूत—महाराज ! क्षमा कीजिए । चुप रहने के लिए मैं इतनी दूर नहीं आया हूँ । मुझे अपना कार्य करके स्वामिनी को सन्तोष देना होगा ।

रुक्म—तुम्हारी स्वामिनी मेरी स्वामिनी नहीं है दूत ! मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

दूत—महाराज ! आप विवेकवान हैं, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि तीन खण्ड के नाथ, महापराक्रमी वासुदेव के पुत्र, समग्र विद्याओं में निपुण, दिव्य रूप से सुशोभित और सभी तरह से अद्वितीय प्रद्युम्नकुमार को जामात बनाना आपके लिए अत्यन्त हितकर होगा ।

रुक्म कृष्णजी की प्रशंसा सुनकर आग-बबूला हो गया । क्रोध आने पर मनुष्य विवेक को विसार देता है और जब विवेक

जो पुरुष उपकार करने वाले के प्रति, भरोसा रखने वाले के प्रति और सरल-बुद्धि वाले के प्रति दुर्व्यवहार करता है—पापाचार करता है, ऐसे असत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य को, हे वसुधे ! तुम क्यों धारण करती हो ?

आशय यह है कि अपने उपकारी का उपकार भूल कर उनके साथ अवांछनीय व्यवहार करने वाले लोग इस पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं हैं ।

अपनी महंनीय माता के चेहरे पर विषाद के चिन्ह देखकर प्रद्युम्नकुमार ने वैदर्भी कुमारी को किसी भी उपाय से ब्याह लगाने का निश्चय किया । वह बोला—माताजी चिन्ता न किजीए । विषाद को अपने पास भी न फटकने दीजिए । आप थोड़े ही समय में अपनी भतीजी को अपने पास ही देखेगी ।

यह कहकर शम्बरकुमार को अपने साथ लेकर प्रद्युम्नकुमार कुन्दनपुर की ओर चल पड़ा । वहाँ पहुँच कर प्रद्युम्नकुमार ने अतिशय रूपवान् चाण्डाल का वेष बना लिया और शम्बर ने भी यही वेष धारण कर लिया । दोनों ने गाना और बजाना आरम्भ किया । प्रद्युम्न गाने लगा और शम्बर विविध वाद्य बजाने लगा । स्वर साधकर प्रद्युम्नकुमार ने ऐंसा मनोहर राग आलापना शुरू किया कि किन्नर भी चकित हो गये । वह सातों स्वरों को आलापता, इक्कीस मर्छनाओं और उनंचास तानों का प्रयोग करता था । उसके स्वर में अनोखी मादकता थी, अपूर्व लालीत्य था । वह जब राग आलापता तो श्रोता चित्रलिखित से रह जाते । उसके संगीत का जादू आस-पास वालों को भी खींच कर ले आता था ।

शम्भ सोने में सुगन्ध का काम कर रहा था। वीणा, बंशी, सितार, तबला और झांझ आदि वाद्य बजाकर वह संगीत की प्रभावक शक्ति को द्विगुणित कर रहा था। उसकी वादनकला भी अद्भूत थी। दोनों के मेल ने सारे नगर में एक अपूर्व वातावरण खड़ा कर दिया। सर्वत्र चहल-पहल मच गई। सब लोग प्रद्युम्न के अधीन हो गये।

नर-नारियों के झुण्ड से गिरा प्रद्युम्न राजा रुक्म के दरवार में पहुंचा। वहाँ उसने उच्च स्वर से गाना आरम्भ किया। वैदर्भीकुमारी के कानों में भी वह मोहिनी मंत्र जा पहुँचा और वह मानो खिची हुई दरवार में आ गई। कुमारी आकर राजा की गोद में बैठ गई।

प्रद्युम्न का गाना सुनकर और साथ ही रूप देखकर राजकुमारी एकदम मग्न हो गई। निर्निमेष नयनों से वह कुमार की ओर ताकने लगी। वह कुमार के चातुर्य को भी भली-भांति लक्षित कर रही थी और पल-पल पर उसका मोह और आकर्षण बढ़ता जा रहा था। ज्यों-ज्यों वह कुमार को देखती त्यों-त्यों उसका प्यार प्रबल से प्रबलतर होता जाता था। राजकुमारी कुमारकी ओर इतनी आकृष्ट हुई कि अपने आपको ही भूल गयी। वह कुमार के सौन्दर्य और कौशल में मानो विलीन हो गई।

वैदर्भीकुमारी ने अपने हृदय की प्रेरणा को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह अपने प्रयत्न में कृतकार्य न हो सकी। वह प्रद्युम्न के साथ वार्तालाप करने की अपनी उत्कण्ठा का

इस प्रकार द्वारिका और कृष्णजी के प्रति वैदर्भी के हृदय में उत्सुकता उत्पन्न करके कुमार को प्रसन्नता हुई। कुमार, राजकुमारी के मनोभावों की गहराई में उतर कर उन्हें समझ गया। उसे अपने उद्देश्य में सफल होने की आशा तो पहले ही थी, अब विश्वास हो गया।

—XXX—

: ७ :

वैदर्भी-परिणय

भद्रपुरुष अपने मुख से अपनी बढाई नहीं करते। अपने आप अपनी प्रशंसा करने वाला गुणवान् पुरुष भी निर्गुण समझा जाता है, महान् पुरुष भी दूसरे की दृष्टि में हीन और तुच्छ जचने लगता है।

परैः प्रोक्ता गुणा यस्य, निर्गुं णोऽपि गुणी भवेत् ।

इन्द्रोऽपि लघुतां याति, स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ॥

जिसके गुणों का बखान दूसरे करते हैं, वे गुणहीन होने पर भी गुणवान् समझे जाते हैं। इसके विपरीत, अपने मुँह से मियां मिट्ठू बनने वाला इन्द्र भी लघुता ही पाता है।

प्रद्युम्नकुमार महान् व्यक्तित्व से सम्पन्न व्यक्ति था।

सुलभ है, वे अपना अतीव अहोभाग्य मानती है, अपने सौभाग्य-पर इतराती है, । वास्तव में प्रद्युम्नकुमार की बरोवरी करने वाला कोई पुरुष हमने नहीं देखा । वे प्रकृष्ट पुण्य के धनी है । वैभव उनके चरणों में लीटता है, निधान उनकी नजरो से उत्पन्न होते हैं । प्रद्युम्नकुमार मृत्युलोक के मानव-समूह में असाधारण नवयुवक है ।

शम्बकुमार के मुख से प्रद्युम्न की प्रशंसा सुनकर वैदर्भी-कुमारी के मुँह से एक लम्बी और गहरी सांस निकल पड़ी । उसका हृदय कुमार की कामना करने लगा । उसने निश्चय किया मैं विवाह करूँगी तो प्रद्युम्नकुमार के साथ ही, अन्यथा आजीवन कौमार्यव्रत का पालन करूँगी । प्रद्युम्नकुमार के सिवाय संसार के समस्त पुरुष मेरे लिए पिता या भ्राता के समान हैं ।

इसी समय एक विशिष्ट घटना हो गई । राजा का पट्ट-हस्ती अचानक छूट गया । वह मदोन्मत्त हो गया और नगर में तहलका मच गया । उसने छूटते ही अनर्थ करना आरम्भ कर दिया । महावतों ने मिलकर लाख प्रयत्न किये मगर हाथी काबू में न आया ।

राजा रुक्म अपने गजराज के द्वारा होने वाले अनर्थों का समाचार सुनकर बहुत चिन्ताकुल हुआ । उसने उसी समय सभा में घोषणा कर दी—मंतवाले हाथी को वश में करने वाले को मुँह माँगा पारितोषिक दिया जायगा ।

प्रद्युम्नकुमार ऐसा स्वर्ण-अवसर कब चुकने वाले थे ।

इतना बड़ा साहस ! तू धेड़ होकर राजकुमारी की कामना करता है । बौना आकाश के तारे तोड़ना चाहता है । इस बार तो तुझे क्षमा करता हूँ, फिर कभी ऐसा वचन निकाला तो याद रखना, चटनी बनवा दूंगा ।

प्रद्युम्न-राजन् ! आपका कोप अनुचित है । ऐसा था तो पहले ही सोच-समझ कर बोलना था । चाण्डाल नीच हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मगर वचन देकर बदल जाने वाला पुरुष अवश्य ही नीच हो सकता है । आपने पहले मनचाहा माँगने के लिये कहा था, तो मेरे मन ने जो चाहा सो माँग लिया । अब अपने कहे से मुकरते हुए आपको लाज नहीं आती ? आप कैसे क्षत्रिय है मेरी समझ में नहीं आता । धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय कहलाने वाले को, ऐसे लोग तो मुझसे भी गये-बीते हैं । माँ-बाप ! आपको मेरे वचन अतिशय कठोर प्रतीत हो रहे होंगे परन्तु बहुत बार सत्य को अत्यन्त कठोर और कटुक रूप भी धारण करना पड़ता है । क्षत्रिय कुल की आन स्थिर रखने के उच्च उद्देश्य से ही मैंने इतना कहा है ।

रुक्म बुरी तरह खीझ उठा । उसने धक्के दिलवा कर दोनों को नगर से बाहर निकलवा दिया । सभा विसर्जित हो गई ।

सभा में उपस्थित सभी जन चाण्डाल की निर्भीकता की मुक्त कण्ठ से सराहना करने लगे । कोई उसके कला-कौशल का बखान करने लगे, कोई उसकी खरी-खरी सुना देने की

कहा—महानुभाव आप कौन है ? कहाँ से आये हैं ? आपका नाम-ठाम क्या है ? इस असमय मे किस प्रयोजन से पधारे है ?

कुमार ने मुख से कुछ न कहा । केवल एक लिखित पत्र कुमारी के सामने रख दिया ।

कुमारी ने ज्यों ही पत्र मे रुक्मिणी का आशीर्वाद पढ़ा. उसके रोम-रोम मे विद्युत का संचार हो गया । उसने कुमार की ओर देखकर पूछा—आपका नाम जानने की बड़ी उत्कण्ठा है । कृपया बतला कर आभारी कीजिए ।

प्रद्युम्न—मै वही हूँ जिसे तुम चाहती हो । मेरा नाम प्रद्युम्नकुमार है । तुम्हारी कामना पूरी करने के उद्देश्य से आया हूँ ।

कुमारी के हर्ष का पार न रहा । लज्जा के कारण उसके मुख मण्डल पर लालिमा दौड़ गई । नयनों से अनुराग टपकने लगा । वह धरती की ओर देखने लगी ।

प्रद्युम्न राजकुमारी के मनोभावो को समझ गया । फिर भी बोला—दाम्पत्य सम्बन्ध जीवन भर का सम्बन्ध है । गृहस्थ-जीवन का सुख दुःख उसी पर निर्भर है । अतएव जीवन मे विवाह का स्थायी और गम्भीर महत्व है । वह अपनी आन्तरिक अभिलाषा पर ही अवलम्बित होना चाहिए । उसने कहा कुमारी ! किसी क्षणिक आवेश के वशीभूत होकर विवाह के सम्बन्ध मे निर्णय न करना । खूब सोच समझ लेना । यह भी

: ८ :

Dish, Bihar (P.O.)

पुण्य - प्रकर्ष



रजनी-जागरण के कारण राजकुमारी को प्रद्युम्नकुमार के चले जाने के पश्चात् गहरी निद्रा आ गई। सूर्योदय हो गया था, फिर भी वह सो रही थी। नित्य-नियम के अनुसार कुमारी की धाय माता दातौन और पानी लेकर कुमारी के कमरे में आई। प्रतिदिन कुमारी पहले ही जाग उठती थी। आज इतना दिन चढ़ चुकने पर भी यह क्यों नहीं जागी है, यह सोच धाय माता को आश्चर्य हुआ। वह धीरे-धीरे द्वे-पाँव उसके पास पहुँची। पास जाकर उसने विवाह के चिन्ह देखे तो बिस्मित हो गई। उसे भय भी हुआ। धायमाता उसी समय वापिस लौट आई। वह सोचने लगी—राजकुमारी ने रात्रि के समय न जाने किसके साथ विवाह कर लिया है! माता और पिता की अनुमति प्राप्त किये बिना ही विवाह करके इसने बड़ी जोखिम उठाई है। राजकुमारी ने अन्याय किया है।

इस प्रकार मन ही मन विचार करती धाय माता राजारानी के पास पहुँची। उसने अपनी आँखों से जो कुछ देखा था, उन्हें कह सुनाया। राजा-रानी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर धायमाता के कहने पर वे राजकुमारी के पास

रुक्म ने कड़क कर कहा—निर्लज्जे ! सच बता, तू ने किसके साथ यह कुकर्म किया है ?

कुमारी चुप थी। लज्जा के मारे वह एक भी शब्द न बोल सकी। स्वेच्छा से किये गये पवित्र पाणिग्रहण को कुकर्म, संज्ञा से सम्बोधित करने वाले अपने पिता के प्रति उसे क्षोभ हुआ। मगर वह अपने क्षोभ को पी गई। उसने कुछ भी उत्तर न दिया।

राजकुमारी को मौन देख रुक्म ने बड़बड़ाते हुए कहा—यह कुलक्षणी है। हमारे कुल में विष की बेल की तरह जनमी है। यही हमारी वैरिन है। इस पापिनी ने मुझे नीचे दिखलाया है ! मैंने चाण्डाल के मुख से इसके लिए कितनी गालियां सुनी।

रानी सोच-विचार में पड़ी थी। वह कुमारी के कार्य का समर्थन नहीं कर सकती थी, परन्तु उसके कार्य को इतना बुरा भी नहीं समझ सकती थी। कम से कम जब तक उसके पति का पता न चल जाय तब तक वह ऐसी कठोरता दिखलाना उचित नहीं समझती थी। मगर रुक्म के क्रोध का ख्याल करके अपने मनोभाव को व्यक्त करने में भी असमर्थ थी। आखिर वह बोली—नाथ, अब आगे का विचार कीजिए।

रुक्म—विचार क्या करना है ? विगड़े अन्न को घर में रखना ठीक नहीं है। उसे तो उकरड़े पर फेंक देना ही योग्य है। यह राजघराने के योग्य नहीं, चाण्डाल कुल के योग्य है।

बड़ी मेहनत करके हम दोनो अपना पेट पालते हैं। राजकुमारी का पेट किस तरह भर सकेंगे ?

रुक्म— तुम अपना पेट पालना वह अपना पेट पाल लेगी।

चाण्डाल—राजदुलारी सुकुमारी है। उससे श्रम न होगा। मुझे उलटी उसकी सेवा करना पड़ेगी।

रुक्म—जो दे चुका सो दे चुका। तुम चाहे सेवा कराओ, चाहे सेवा करो। मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है।

राजकुमारी को पता नहीं था कि पिता अपनी सन्तान पर इतना अधिक निर्दय हो सकता है। रुक्म का रुख देखकर वह चकित रह गई। इस व्यवहार से उसे कैसी मार्मिक व्यथा हुई, कहा नहीं जा सकता। परन्तु यथेष्ट वर पाकर उसे सन्तोष भी हो रहा था।

राजकुमारी अपने हृदय को रोक न सकी। वह फूट-फूट कर रोने लगी। आखिर चाण्डाल-वेशी प्रद्युम्नकुमार उसे लेकर गाँव से बाहर आया। नगर भर में यह चर्चा फैल गई। किसी ने राजा की निन्दा की, किसी ने प्रशंसा की। भांति-भांति के विचार व्यक्त किये जाने लगे।

शम्भुकुमार ने नवागत भाभी का अतिशय प्रीति के साथ स्वागत किया। दोनो मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। आगे का कार्यक्रम निर्धारित होने लगा। तब शम्भु ने कहा—हमारे प्रवास का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। परन्तु अपनी वास्तविकता को

वनाने की अपेक्षा तो उसका गला घोट देना ही क्या बुरा था ? मैं कितना क्रूर हूँ ! मुझे धिक्कार है ! मैंने घोर अनर्थ कर डाला है, ऐसा अनर्थ कि उसका प्रतिकार होना भी अब सम्भव नहीं रहा । लोग कहते हैं—पूत कपूत हो जाता है, पर माता-पिता कुमाता-पिता नहीं होते । मगर मैं, कितना अधम हूँ ! मैं कु-पिता हो गया ! पानी काष्ठ को बड़ा करता है । बड़ा होकर वह नौका का रूप धारण करता है । और पानी की छाती पर अपना मार्ग बनाता है । फिर भी पानी उसे डुबाता नहीं । माता-पिता भी ऐसे होते हैं । लेकिन क्रोध ने मुझे अन्धा कर दिया । मैं विवेक से भ्रष्ट हो गया ।

वास्तव में क्रोध महान् अनर्थकारी है । क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य घृणित से घृणित पैशाचिक कृत्य भी कर डालता है । यथार्थ ही कहा है—

क्रोधान्धाः पश्य निध्नन्ति, पितरं मातरं गुरुम् ।
सुहृदं सोदरं दारानात्मानमपि निघृणाः ॥

क्रोध से अन्धे बने हुए लोग अपने पिता, माता और गुरु की भी हत्या करने से नहीं चूकते । वे अपने मित्र, सहोदर भ्राता और पत्नी के भी प्राण ले लेते हैं । कई लोग आत्मघात का भी पातक कर डालते हैं । क्रोध मनुष्य को कठोर, क्रूर और कलंकित कर देता है ।

अतएव बुद्धिमानों का कथन है कि—

येनान्धीकृतमानसो न मनुते प्रायः कुलीनोऽपि सन्,
कृत्याकृत्यविवेकमेत्यधमवल्लोके परित्यज्यताम् ।

राजा के विस्मय का अन्त न रहा। वह समझ गया की चाण्डाल वाली घटना से ही इसका सम्बन्ध जान पड़ता है। वह उसी समय पैदल उस ओर चल पड़ा, जहां कुमार निवास कर रहे थे।

मामाजी को अपनी ओर आते देख दोनो कुमार उठ खड़े हुए। दोनों ने सामने कुछ दूर जाकर उनका स्वागत किया। नीचे झुक कर प्रणाम किया। रुक्म ने उन्हे उठाकर अपनी छाती से चिपटा लिया। वह हर्ष से गद्गद् हो उठा। आशीर्वाद देकर उसने अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित की।

बहुत धूमधाम के साथ राजा ने राजकुमारों का और राजकुमारी का नगर प्रवेश कराया। अपने महल में रक्खा। नगर-जन यह सब देखकर आश्चर्यान्वित हो गये और यदुवंश की भूरि-भूरि-सराहना करने लगे। कहने लगे—प्रद्युम्नकुमार धन्य है! सुयोग्य पिता ने सुयोग्य पुत्र पाया। प्रद्युम्न यदुवंश के अवतंस है।

वैदर्भीकुमारी की माता के प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने सोचा मेरा भाग्य जाग गया है जो ऐसे अद्वितीय जामात की प्राप्ति हुई है।

कुछ दिनों तक रुक्म का अतिथि रहकर कुमार ने द्वारिका लौटने का निश्चय किया। राजा ने खूब दहेज देकर प्रेम-पूर्वक विदाई दी। दोनों कुमार नवोढा वधू के साथ द्वारिका पहुंचे। माता-पिता के चरणस्पर्श करके प्रद्युम्न ने कहा—मां, लो, जिसे

पढ़-सुन कर किस को पुण्य की अभिलाषा न होगी ? मगर पुण्य का आचरण किये बिना पुण्य का फल प्राप्त नहीं हो सकता । बीज बोये बिना फल नहीं मिल सकते । अतएव जो प्रशस्त पुण्य का फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पुण्य के बीज पहले बोने होंगे । पुण्य के बीज क्या हैं, यह समझ लेना आवश्यक है ।

दाने शक्तिः श्रुते भक्तिर्गुरुपास्तिर्गुणे रतिः ।

दमे मतिर्दयावृत्तिः, षडमो सुकृतांकुराः ॥

निम्नलिखित छह बातों से पुण्य के अंकुरों का आरोपण किया जाता है, अर्थात् पुण्य के बीज बोये जाते हैं:-

(१) दान देने की शक्ति होना—बहुत से लोग ऐसे हैं जो दान देने की सामग्री पाकर के भी दान नहीं दे सकते । पहले बतलाया जा चुका है कि दान देने के लिए विपुल वैभव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उदार भावना की ही अपेक्षा है । जो वैभवविहीन होकर भी उदार भावना से विभूषित है, वही दान देने की शक्ति से भी सम्पन्न है । एक उदार हृदया-निर्धन जितना दान दे सकता है और उस दान के द्वारा जितना पुण्योपार्जन कर सकता है, उतना अनुदार श्रीमंत नहीं । तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति चाहे कम हो या ज्यादा, उदार भावना के साथ अगर दान दिया जाता है तो उदार दाता पुण्य को प्राप्त कर लेता है । प्रद्युम्नकुमार ने उदारता और प्रीति के साथ पूर्वभव में मुनि को आहारदान दिया था, यह बात पहले ही प्रकट की जा चुकी है ।

(२) श्रुतभक्ति—दूसरा पुण्योपार्जन का कारण है श्रुत में

है। जिसने अपनी इन्द्रियों को स्वच्छन्द छोड़ दिया है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। इन्द्रियाँ उसे दूर-दूर तक घसीट ले जाती हैं। वह सदैव अतृप्त बना रहता है। और उसकी अतृप्ति उसके अन्तःकरण में व्याकुलता उत्पन्न करती रहती है। जिसने इन्द्रियों को अपना गुलाम नहीं बनाया, वरन जो स्वयं इन्द्रियों का गुलाम बना हुआ है, वह पाप के पथ में प्रवृत्त होता है और पुण्य के प्रकाशमय पथ पर एक पैर भी नहीं बढ़ा पाता।

(६) दयाभावना—दया पुण्य की जननी है। जिसके अन्तः-स्तल में दया का अखण्ड स्रोत बहता रहता है। वह धन्य है ! जो दुखी-जीवों को देखकर स्वयं दुख का अनुभव करता है और उनके दुख के प्रतिकार के लिए प्रयत्नशील होता है, वह परमोत्कृष्ट पुण्य प्राप्त करता है।

प्रद्युम्नकुमार ने पूर्व में पुण्य रूपी वृक्ष के जो बीज बोये थे, आज वही अपना मधुर फल दे रहे हैं। वह संसार सम्बन्धी सभी सुखों को भोग रहा है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। कान्ति फैल रही है, प्रशंसा हो रही है। सभी उसका रौब मानते हैं।

शम्भु और प्रद्युम्न में गाढ़ी प्रीति है। दोनों दो तन और एक मन हैं। प्रद्युम्न को देखकर उसके माता-पिता का हृदय शीतल हो जाता है। वास्तव में प्रद्युम्न पुण्य की प्रतिमा जान पड़ता है।

धर्म के विषय में इस उपमा को घटाते हुए शास्त्रकार ने बतलाया है कि पुण्य से प्राप्त (मानव भव) मूल पूँजी के समान है। जो मनुष्य इस पूँजी का प्रयोग करके विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करते हैं, वे धर्म के व्यापार में नफा पानेवाले वणिक के समान हैं,। उन्हें मनुष्यभ्रम के पश्चात् देवगति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मध्यम कोटि का पुण्य उपार्जन करते हैं अर्थात् जितने पुण्य का भोग करते हैं, उतना ही नवीन पुण्य भी उपार्जन करके फिर मनुष्य भव पाते हैं, वे मध्यम-पुरुष कहलाते हैं और जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुए मनुष्यभ्रम को भोग-विलास में एकान्त रूप से आसक्त होकर गँवा देते हैं, नवीन पुण्य का उपार्जन नहीं करते, वे मूल-पूँजी गँवाकर दुखी होने वाले वणिक के समान हैं। उन्हें आगे चलकर नरक या तिर्यञ्च गति का अतिथि बनना पड़ता है।

इस प्रकार अपने पुण्य की पूँजी को गँवाने वाले, भविष्य की ओर से आँखे मूंद लेने वाले व अदीर्घदर्शी जनों को देखकर ज्ञानी जनों के हृदय में अनुकम्पा का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। वे अनुकम्पा प्रेरित ज्ञानी उससे कहते हैं—

सुखमास्से सुखं शेषे, भुङ्क्षे पिवसि खेलसि ।

न जाने त्वग्रतः पुण्यं विना ते किं भविष्यति ॥

हे भोले भाई ! तू मजे में रहता है, सुख की नींद सोता है, मनचाहा खाता पीता और खेलता है, तनिक भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि आगे चलकर तेरी क्या दशा होगी ?

चिन्ता क्यों नहीं करता ? तुझे परलोक जाना पड़ेगा । संसार की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी तुझे बचा नहीं सकेगी । तेरा असीम वैभव और प्रेमी परिवार, कोई भी तेरी रक्षा करने में समर्थ न होगा । एक असहाय और दीन जन की तरह ही तुझे यहां से रवाना होना है ।

अक्षय धन-परिपूर्ण खजाने शरण जीव को होते,
तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते ।
पर न कारगर धन होता है बन्धु! मृत्यु की वेला,
राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला ॥

यह सत्य है, कटु भले ही हो परन्तु इसमें अतिशयोक्ति का अंश भी नहीं है । इस कथन की सत्यता के प्रमाण प्रतिदिन मिलते रहते हैं । फिर भी आश्चर्य है कि यह जीव प्रमाद में पड़ा हुआ है ।

उपरोक्त तीन प्रकार के पुरुषों में प्रथम कोटि के पुरुष ही विवेकशील कहे जा सकते हैं जो पूर्वकृत पुण्य का उपभोग करते हुए नवीन पुण्य का भी संचय करते हैं, वल्कि जो अपने समग्र पुण्य को आत्मकल्याण के पावन अनुष्ठान में लगा देते हैं ।

प्रद्युम्नकुमार ऐसे ही विरल विवेकशील व्यक्तियों में था । वह उड़ाऊ पूत नहीं, कमाऊ बेटा था । अवसर मिलते ही किस प्रकार उसकी परिणति सहसा पलट जाती है और किस प्रकार वह आत्मा का उद्धार करता है, यह बात पाठक आगे पढ़ेंगे ।

भगवान् के आगमन की खबर लग जाय । तत्पश्चात् चतुरंगी सेना तैयार करने का आदेश दिया और आप स्वयं वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो गये । फिर गजराज पर आरूढ़ होकर सेना और परिवार के साथ प्रभु की उपासना के लिए रवाना हुए । भगवान् के नजदीक पहुँचने पर, पाँचों अभिगम साध कर हाथी से नीचे उतर कर उसी जगह पहुँचे जहाँ जगत् के नाथ भगवान् विराजमान थे ।

प्रद्युम्न, शम्भु, भानु और सुभानुकुमार अपने-अपने महल में थे । उन्हे भी भगवान् के पदार्पण का समाचार विदित हुआ । वे भी यथोचित श्रृंगार कर जिन-दर्शन के लिए चल दिये ।

भगवान् का समवसरण लग रहा था । चारों निकायों के देव और देवियाँ उपस्थित थे, मनुष्य और तिर्यञ्च भी यथा-स्थान बैठे थे । परिपद् भरी हुई थी । अरिहन्त प्रभु ने धर्म-कथा आरम्भ की:—

भव्य जीवो ! संसारी जीव अनादि काल से भवभ्रमण कर रहा है । स्वभाव से सिद्ध-बुद्ध स्वरूप होने पर भी विभाव परिणति के अधीन होने के कारण जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा है । यह चौरासी का चक्कर उस समय समाप्त होता है, जब जीव अपनी विशुद्ध स्थिति को प्राप्त करने का उपाय रत्नत्रय की आराधना है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य, यह तीनों रत्नत्रय कहलाते हैं । इनकी परिपूर्णता ही मुक्ति का कारण है ।

रत्नत्रय की पूर्णता मनुष्य जीवन में ही हो सकती है,

जगत् का वैभव अस्थिर है, पुण्य का योग मिलने पर इसकी प्राप्ति होती है और पुण्य का क्षय होते ही वह देखते-देखते विलीन हो जाता है ।

आत्मा वैभव और परिवार आदि के मोह में पड़ा हुआ है । मगर इनमें से कोई भी वस्तु परलोक में काम नहीं आती । जीव जब स्वकृत पापोंका कटु फल भोगता है, तो कोई भी कुटुम्बी उसके कष्ट का वटवारा करने में समर्थ नहीं होता । कर्म सब को अपने आप ही भुगतने पड़ते हैं ।

भव्य प्राणियो ! कुछ लोग सोचते हैं कि प्राप्त भोगों को भोगने के पश्चात् और तृष्णा शान्त होने पर धर्म का आराधन कर लेगे, परन्तु तृष्णा का अन्त कहां है ? जिन्होंने विशाल साम्राज्य पाया है, शत्रुओं को पराजित करके कीर्ति पाई है, जो देव या इन्द्र की पदवी पा चुका है, अन्तकरण में उत्पन्न होने वाली अब तक की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण किया है, उसकी अभिलाषाओं का क्या अन्त आ गया है ? नहीं ! 'इच्छा हु आगाससन्ना अणंतिया' अर्थात् जैसे आकाश का कही अन्त नहीं है, उसी प्रकार आशा तृष्णा का भी कही विराम नहीं है । वह निरन्तर बढ़ती ही चली जाती है । ऐसी अवस्था में आशा की पूर्ति करने का प्रयत्न करना वृथा है । आशा का विनाश करके ही मनुष्य शान्ति पा सकता है ।

यमराज बड़ा बलवान है । वह किससे चुका है ? बड़े-बड़े प्रतापी, चक्रवर्ती इस पृथ्वी तल पर जन्मे, पर उन्हें भी एक साधारण आदमी की भांति ही मृत्यु के जाल में फँसना पड़ा ।


नेत्र खुल जाते हैं। सत्य वस्तुस्वरूप हथेली पर रखे आँवले की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जिसने श्रुतधर्म की आराधना नहीं की, शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया, वह नेत्र होते हुए भी अन्धे के समान है। वह भावनिमिर में भटकता और ठोकर खाता फिरता है। उसे हेय और उपादेय का विवेक नहीं प्राप्त होता। वह अज्ञानी है। अतएव सर्वप्रथम श्रुत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

श्रुतधर्म की आराधना करने पर चारित्र्यधर्म का पालन करना सरल हो जाता है। चारित्र्यधर्म भी दो प्रकार का होता है—अणगारधर्म और सागारधर्म अर्थात् गृहस्थ धर्म है। अणगारधर्म का पालन करके जो समस्त कर्मों का क्षय कर डालते हैं वे मुक्ति के भाजन बनते हैं। उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। वे जन्म-जरा-मरण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर कभी भवभ्रमण नहीं करना पड़ता। जो जीव मुनि-धर्म का पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें कम से कम श्रावकधर्म का पालन करना ही चाहिए। श्रावकधर्म द्वादश व्रतरूप है। इस धर्म का पालन करने से कुगतियों से वचाव होता है।

भव्य प्राणियो ! वस्तु-तत्त्व को यथार्थ रूप से समझ कर शक्ति के अनुसार संयम का पालन करो, तपस्या करो और कर्मों की जड़ को काटो। तप और संयम की आराधना करने में अत्यल्प कष्ट है। इस कष्ट को कष्ट न गिनते हुए प्रवृत्ति करोगे तो बहुत सुख पाओगे, यह थोड़ासा कष्ट अनन्त दुःख और विपत्तियों को नष्ट करता है।

: १० :

वैराग्य और दीक्षा



प्रद्युम्न, शम्भु, भानु और सुभानु नामक चारों राजकुमार समवसरण में उपस्थित थे। उन्होंने भी जिनवर की वाणी-सुधा का पान किया। धर्मकथा समाप्त होने पर वे उठे और पंचांग नमा कर उन्होंने भगवान् को नमस्कार किया। फिर चारों ने निवेदन किया—हे तारण तरण ! हमने आपके प्रवचन का पीयूष पिया है। उससे हमारे अन्तस्तल को अपूर्व शान्ति प्राप्त हुई है। आपके वचन अविरल हैं, तथ्य हैं, पथ्य हैं, सत्य हैं। प्रभो ! उन पर हमारी गहरी आस्था है। आपके वचन-अंजन ने भव्यजनों के नयन खोल दिये हैं। प्रभो ! हमने धर्म की महिमा को हृदयंगम कर लिया है और आत्म-कल्याण की प्रशस्त साधना करने का संकल्प किया है। भगवान् ! हम जननी और जनक की अनुमति प्राप्त करके संयम ग्रहण करना चाहते हैं और आपके चरण-कमलों के भ्रमर बनना चाहते हैं।

भगवान् ने गम्भीर स्वर में कहा—‘जहां तुहें देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह।’ देवों के वल्लभ ! वही करो जिससे सुख की प्राप्ति हो, उसमें डील मत करो।

भगवान् की अनुज्ञा पाकर कुमार हर्षित हुए। उन्होंने

प्रद्युम्न—गृहत्याग कर मुनिव्रत धारण करना ।

मोह की महिमा का अन्त नही ! मोह के वशीभूत होकर मनुष्य कैसी चेष्टाएं करता है । वासुदेव और हलधर—दोनों ने कुमार के वचन सुने । सुनते ही दोनों को दुःसह आघात लगा । कुमार के वचन उनके हृदय में वाण की तरह चुभ गये । वे उस भीषण आघात को सहन करने में असमर्थ हो गये ।

राजसभा में सन्नाटा छा गया । सामन्त दौड़े । शीतोपचार करके वासुदेव और वलदेव को होश में लाये । होश में आने पर उनके नेत्रों से नीर बहने लगा । वे अत्यन्त दैन्यभाव से बोले—वत्सगण ! अभी दीक्षा लेने का क्या कारण है ? तुम्हें किस चीज की कमी है ? तुम मेरी छत्रछाया में सुख-पूर्वक रहो । तुम्हें कोई चिन्ता नहीं करनी है । आमोद-प्रमोद करो और यौवन का आनन्द लो ।

प्रद्युम्न—पिताजी, आप यथार्थ कहते हैं । हमें किसी वस्तु की कमी नहीं है । आपके पुण्य प्रताप से संसार के सभी सुख हमें प्राप्त हैं । मगर आपकी छत्र-छाया में रहकर क्या हम यमराज के आक्रमण से बच सकेंगे ? आप जन्म-मरण के चक्र से बचा सकते हो, यमराज के पाश से दूर रख सकते हो, दुर्गति में जाने से रोक सकते हो, और अनन्तकाल तक सुखी बनाये रख सकते हो तो ठीक है । फिर भगवान् की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

तीन खण्ड के नाथ अपनी अस्तमर्थता का विचार करके

पूर्वक स्वीकार कर लेना ही व्यथा से बचने का एक मात्र उपाय है ।

कुमारों के दीक्षा लेने का समाचार बिजली की भाँति सर्वत्र फैल गया । वसुदेवजी आदि भी सभा में आ पहुँचे । सब ने मिलकर कुमारों को समझाने की भरसक चेष्टाएं की । परन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

कुमारों ने वसुदेव आदि से विनयपूर्वक कहा—आप वृद्ध हैं, विवेकवान् हैं, वस्तुस्वरूप के ज्ञाता हैं । फिर इस धर्म कार्य में क्यों अन्तराय डालने की इच्छा करते हैं ? आप हमें देखकर विरक्त हो, आप भी संयम को धारण करें, हमारे उत्साह को बढ़ाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें, मगर ऐसा न करके आप तो हमें ही रोकना चाहते हैं ? यह कहाँ तक योग्य है ? इस बात पर आप स्वयं विचार कीजिए । अन्तराय लगाने से आपको क्या लाभ होगा ?

आखिर सभी को चुप रहना पड़ा । तथ्य की दृष्टि से कुमार का पक्ष प्रबल था । सभी लोग संयम की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे । केवल मोह की प्रेरणा ही उन्हें मना करने को विवश कर रही थी । मगर सच्चे वैराग्य के सामने मोह निर्वल और निस्तेज हो जाता है । चूड़ों पर जोर जतलाने वाली बिल्ली जैसे सिंह के सामने दीन बन जाती है, उसी प्रकार प्रबल वैराग्य के सामने मोह के पैर उखड़ जाते हैं ।

आखिर हरि और हलधर को कहना पड़ा—जिसमें तुम्हें

कुमारो ! कुछ दिन और ठहरो । बहुत कष्ट सहन करके तुम्हे जन्म दिया है । अनन्त-अनन्त आशाएं लेकर तुम्हारा पालन-पोषण किया है । यह सब क्या इसलिये कि तुम बड़े होकर इस प्रकार हमे दारुण वेदना का पात्र बनाओ ?

प्रद्युम्न-माता ! जब तक यह शरीर है तब तक तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा । पर हम लोग आपकी कूख को दिपाने का विचार करते है, आपकी कूखको लजाने का नही । कुछ दिन और ठहरने से भी आपको तृप्ति होनेवाली नही हैं । तृप्ति तो वैराग्य मे है । उसके आये बिना कदापि तृप्ति नही हो सकती । मोह तृप्ति दाता होता तो अब तक कभी की तृप्ति हो गई होती ।

आप हमे अपने जीवन का आधार मानती है परन्तु जो स्वयं निराधार है वह दूसरों का आधार किस प्रकार बन सकता है ? वास्तव मे इस जगत् मे कोई किसी का आधार नही है । दूसरे को अपना आधार मानना दीनता है और अपने को दूसरों का आधार मानना अहंकार है । सब जीव पुण्य-पाप लेकर आते है और अपने-अपने पुण्य-पाप के अनुरूप ही सुख-दुख भोगते है । कोई किसी को अपना पुण्य या पाप देकर सुखी या दुखी नही बना सकता ।

माता ! काल बड़ा बलवान् है । उसके आगे किसकी चली है ? उसके आने का कोई समय निश्चित नही है कब किसे ले जायेगा, यह कोई नही जानता । ऐसी हालत मे अधिक ठहरना उपयुक्त नही है । आत्मा का कल्याण करने मे पल भर भी विलम्ब न करना ही बुद्धिमत्ता है ।

चारों कुमारों ने अपनी-अपनी पत्नियों को एकत्र किया। सब वस्त्रों और अनमोल आभूषणों से सुसज्जित होकर इकट्ठी हुई। यदुकुल की वधुएं ऐसी जान पड़ती थी, मानो स्वर्गलोक में अप्सराओं की सभा हो रही है। सब अपूर्व रूप-लावण्य से सम्पन्न, असीम सुपमा से सुशोभित और सौन्दर्य की प्रतिमाएँ जान पड़ती थीं।

अन्य अवसरो पर अपने-अपने हृदयवल्लभ की अनुरागमयी दृष्टि पड़ते ही वे निहाल होजाती थी, मगर आज वातावरण में निरालापन था। कुमारों की विरक्तिपूर्ण दृष्टि आज उनके मुख-चन्द्र की ओर न होकर धरती की ओर थी। आखिर प्रद्युम्न कुमार बोले—देवियों ! आज हम चारों भाइयों ने जिनेश्वरदेव की कल्याणकारी वाणी सुनी है। हमने भोगोपभोगों को अत्महित का विधातक, श्रेयोनाशक और विपत्तिजनक समझ लिया है। हम चारों ने संयम ग्रहण करने का निश्चय किया है। माता-पिता की अनुमति हमें प्राप्त हो चुकी है। सिर्फ आपकी अनुमति लेना शेष है। आप भी अनुमति दीजिए, जिससे श्रेयस्कर कार्य में विलम्ब न हो।

समस्त वधुओं के हृदय का हर्ष सहसा विलीन हो गया और उसके बदले गम्भीर विषाद का भाव उनके आनन पर चमकने लगा। उनके नेत्रों से आंसू बरसने लगे। वे कलेजे को थाम कर रह गईं।

कुछ समय तक सन्नाटा रहा। किसी को न सूझ पड़ा कि आगे किस ढंग से क्या कहा जाय ?

खणमित्तसुख्वा बहुकालदुक्खा, पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

कामभोग क्षण भर सुख देते हैं और चिरकाल तक घोर दुःख के कारण बनते हैं। राई भर सुख देते हैं तो पहाड़ के बराबर दुःख देते हैं। यह संसार से छुटकारा पाने में बाधक है और अनर्थों की खान है।

विषय विष से भी अधिक विषम है। इनके निमित्त से आत्मा को दुर्गति में जाना पड़ता है। अतएव ज्ञानी जन इनसे दूर ही दूर भागते हैं।

पत्नी—यथार्थ है स्वामिन् आपका कथन ! मगर संयम धारण करके उसका निर्वाह करना सरल नहीं है। मुनिवृत्ति को अंगीकार करना तलवार की धार पर चलना है, लोहे के चने चवाना है। नंगे पैरों और उघाड़े सिर चलना, पैदल ही विहार करना, भिक्षा के द्वारा उदरपूर्ति करना, शीतकाल में सर्दों और ग्रीष्मकाल में गर्मी सहना, पृथ्वी पर शयन और केश-लोच करना आदि बड़ी ही कठिन साधना है। जब इस आचार का पालन करते न बनेगा तब पश्चात्ताप करना पड़ेगा। आप तो दीर्घदर्शी और विवेकवान् हैं। इन् सब कठिनाइयों का विचार कर लीजिए।

कुमार—देवियो ! यह कठिनाइयाँ कायरों को भयभीत कर सकती हैं, हमें नहीं। हम क्षत्रियपुत्र हैं, जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, उसे पीछे नहीं हटाते। मैंने अपने जीवन में आगे

के सामने सर्दी-गर्मी आदि के कष्ट किसी गिनती में नहीं है।

देवियो ! आपके साथ हम लोगों का जो संयोग हो गया है, उसका अन्त अवश्यम्भावी है। कोई भी संयोग सदा स्थिर नहीं रह सकता। संसार का यही स्वरूप है। कहा भी है—

पुत्रं कलत्रमितरः परिवारलोको—

भोगैकसाधनमयाः किल सम्पदो नः ।

एकः क्षणः स तु भविष्यति यत्र भूयो—

नायं न यूयमितरे न वयं न चैते ॥

आज मित्र है, कलत्र है, परिवार के अन्य जन भी हैं और भोग की साधनभूत सम्पदायें भी हैं—सभी कुछ हैं, परन्तु एक क्षण ऐसा आएगा और अवश्य ही आएगा, जब इन में से कुछ भी नहीं रहेगा। न वह रहेगा, न तुम रहोगे, न दूसरे रहेंगे और न हम ही रह जायेंगे।

देवियो ! यह कोई सम्भावना नहीं है, मन की कल्पना नहीं है, यह तथ्य है, चाहे अवाञ्छनीय हो अप्रिय हो, मगर अटल सत्य है। सदा से यही होता आया है और यही होता रहेगा। ऐसी अवस्था में मोह के वशीभूत होकर शाश्वत श्रेयस् का विघात करना योग्य नहीं है। यह सुअवसर पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। अतएव शीघ्र ही आत्मकल्याण में प्रवृत्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रद्युम्नकुमार की वाणी में सत्य था—अटल संकल्प था। मन का पूरा निश्चय था। यदुकुल की बहुओं पर उसका गहरा

पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। आत्म-हित की साधना कर लेनी चाहिए जिससे वार-वार वियोग की व्यथा न भुगतनी पड़े।

सब रानियों ने वासुदेव को अपने निश्चय से अवगत करा दिया और दीक्षा धारण करने की अनुमति माँगी। वासुदेव बड़े पशोपेश में पड़े। वे सोचने लगे—पुत्र मुझे त्याग रहे हैं, पतोहूँ जा रही है और पत्नियों ने भी गृह त्यागने का निश्चय कर लिया है। उन्हें अत्यन्त दुख हुआ। सारी समझ और शक्ति लगा कर उन्होंने सत्यभामा आदि को समझाने का प्रयत्न किया, परन्तु वे अपने सकल्प से न डिगी। अन्त में वासुदेव को अनुमति देनी पड़ी।

कृष्णजी ने विषाद और खिन्नता के साथ दीक्षा-महोत्सव की तैयारी आरम्भ कर दी। प्रद्युम्नकुमार के पालक पिता यमसंवर को सूचना दे दी। विद्याधर द्वारिका आ पहुँचा। उसने भी समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परन्तु वह कारगर न हुआ। अन्य सम्बन्धी भी समझा कर थक गये। लम्बा वार्त्तिलाप हुआ। मगर कुमारों का निश्चय पलट नहीं सका।

दीक्षा का समय निकट आ गया। चतुरंगी सेना सुसज्जित की गई। एक हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी तैयार हुई। वैरागियों और वैरागिनियों को स्नान कराके सुन्दर वस्त्राभूषण पहराये गये। यद्यपि उन्हें श्रृंगार कराने की कोई अभिलाषा नहीं रह गई थी, फिर भी कुटुम्बी जनों की अन्तिम कामना को भंग करना उन्होंने योग्य न समझा और सुन्दर एवं सूल्यवान् वस्त्राभूषण धारण किये। पालकी रवाना हुई। उनके

समान प्रिय है। इनको बहराने में हमें जो व्यथा हो रही है, उसे आप भली-भाँति जानते हैं। आप अन्तर्यामी हैं। वज्र के समान कठोर हृदय करके हम इन्हें आपको सौपते हैं। अनुग्रह करके इन्हें सुख में रखिए और इनके चरम मनोरथ को सफल कीजिए।

प्रभु अरिष्टनेमि ने सब को स्वयं दीक्षा दी। अन्त में सब लोग यथायोग्य वन्दना नमस्कार करके वापिस लौट आये।

आमोद-प्रमोद, रागरंग और चहल-पहल से भरी हुई द्वारिका नगरी आज सुनसान दिखलाई पड़ रही थी। सर्वत्र गम्भीरता, खिन्नता और विषाद का ही राज्य था। द्वारिका की श्री लुट-सी गई थी। वासुदेव का हृदय बोझिल था। राज-महल खाली मालूम पड़ते थे ! प्रजा की उमंगे समाप्त-सी हो गई थी।

धीरे-धीरे, सभी आगत अतिथि चले गये और वासुदेव प्रजा का पालन करने लगे।



गई। सबने आसेवनी शिक्षा और ग्रहणी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कठोर तपश्चरण आरंभ किया। पांच महाव्रत तीन गुप्ति और पांच समिति आदि मुनि के मूलोत्तर गुणों का पालन करने लगे। यदुवंश की रानियों ने गृहस्थाश्रम में एकावली, कनकावली, मुक्तावली आदि आभूषणों से अपने शरीर का शृंगार किया था। वह अब इन सब तपस्याओं द्वारा शरीर को निर्बल और आत्मा को सबल बनाने लगी। उनकी तपस्या को देखकर कायर काँप उठते थे। मगर वे दृढ़ता के साथ अपने तपःकर्म में तल्लीन थी। वास्तव में आत्म-शुद्धि का समर्थ साधन ही तप है। तपस्या की महिमा अचिन्त्य है। तप के प्रभाव से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि जिनमार्ग में तपस्या को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा है—

तनोति धर्मं विधुनोति कल्मषं,
 हिनस्ति दुःखं विदधाति सम्पदम् ।
 चिनोति सत्त्वं विनिहन्ति तामसं,
 तपोऽथवा किं न करोति देहिनाम् ॥

अर्थात्— तपस्या से धर्म की वृद्धि होती है, पापों का विनाश होता है दुखों का अन्त होता है, आध्यात्मिक गुणों की उत्पत्ति होती है, आत्मबल की वृद्धि होती है और तमोभाव का विनाश होता है। तपस्या के प्रकृष्ट प्रभाव से जीवों को क्या क्या प्राप्त नहीं होता? तपस्या के फलस्वरूप प्राणी सर्वोत्कृष्ट सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है।

तप की महिमा प्रकाशित करते हुए और भी कहा है—

प्रद्युम्न ऋषि, शम्ब ऋषि, भानु ऋषि और सुभानु ऋषि खांडाधार तपस्या में लीन हो गये। वे नाना प्रकार की उग्र तपस्या करने लगे। जिस दिन पारणा करते, उस दिन रूखा-सूखा नीरस आहार ही ग्रहण करते थे।

बाह्य तपस्या के साथ-साथ अन्तरंग समस्या में भी वे कभी प्रमाद नहीं करते। निरन्तर स्वाध्याय और ध्यान में अपना समय यापन करते थे। इस अन्तरंग और बहिरंग तपस्या के प्रभाव से उनकी विकार-वासनाएं समूल नष्ट हो गईं। वे समभाव में स्थिर हो गये।

देश-देशान्तर में भ्रमण करते हुए और जगत के जीवों को जीवन का महत्तम आदर्श प्रस्तुत करते हुए वे गिरिनार पर्वत पर पधारे।

एक बार प्रद्युम्न ऋषि ध्यान में लीन थे। उन्हें अपूर्व करण की प्राप्ति हुई। क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हो गए। आखिर दसवे गुण-स्थान में पहुंच कर अन्तिम समय में समस्त कर्मों के सबल सेनापति मोह को परास्त किया। फिर सीधे बारहवे गुणस्थान में पहुंचे। वहाँ अन्तर्मुहूर्त्त ठहर कर अन्तिम समय में तीन घनघातिया कर्मों का क्षय करके अनुपम ऋद्धि के धनी बन गये। अखिल लोक और अलोक को आलोकित करने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त करके वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो गये। उन्हें आर्हत अवस्था प्राप्त हो गई।

प्रद्युम्न मुनि की परम प्रशस्त साधना सफल हो गई। जिस उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने की साध लेकर उन्होंने उग्रतर साधना प्रारम्भ की थी, वह उन्हें प्राप्त हो गई।

रूप में जागृत ही रहता है। इससे आत्मा की महान और अजय सामर्थ्य का पता लगता है।

कर्म आत्मोपाजित है और इस कारण आत्मा उनका विनाश करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस तथ्य की प्रतीति करने के लिए आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे देखकर ही आप इसे समझ सकते हैं।

शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्त्व है।

जो सम्यग्दृष्टि बनकर और शरीर एवं संसार को अनित्य जान कर सम्यक्चारित्र की आराधना करते हैं, तपस्या के द्वारा कर्म मल को दग्धकर डालते हैं, उन्हें अरिहन्तदशा प्राप्त होती है और फिर वे शाश्वत सिद्धि प्राप्त करके अजर अमर बन जाते हैं”

इस प्रकार का धर्मोपदेश सुनकर अनेक श्रोताओं ने सम्यक्त्वरत्न को प्राप्त किया। अनेक भव्य जीवों ने श्रावकधर्म को धारण किया। जिनकी आत्मा विशेष जागृत थी, उन्होंने परिपूर्ण संयम ग्रहण कर लिया।

भगवान् प्रद्युम्न कुछ समय तक गिरिनार को भूमि को पावन करने के पश्चात् विहार करके अन्यत्र पधारे। देश देशान्तर को अपने चरणरज से पवित्र करते हुए विचरने लगे। कुछ काल बीतने पर शम्बुऋषि और भानुऋषि ने भी घातिक कर्मों का अन्त करके केवलज्ञान प्राप्त किया।

तीनों महापुरुष यथासमय शेष रहे आयु, नाम, गोत्र और

